

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 478 ]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 10 अक्टूबर 2014—आश्विन 18, शक 1936

नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल  
भोपाल, दिनांक 10 अक्टूबर 2014

अ. सू. क्र. 36-एफ-1-11-13-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम 7 की अपेक्षा अनुसार नगरपालिका परिषद, होशंगाबाद जिला, होशंगाबाद के लिए आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है:—

स. क्र. (1)	वर्ग जिसके लिए आरक्षण किया गया (2)	कुल वार्ड (3)	आरक्षित वार्ड के क्रमांक व नाम (4)
1	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित वार्ड	6	04 मंगलवारा वार्ड 11 जनकपुरी वार्ड 13 कोठी बाजार वार्ड 19 आनन्द नगर वार्ड 25 राजेन्द्र वार्ड 33 टैगोर वार्ड
2	अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित वार्ड	2	24 रसूलिया वार्ड 27 भीलपुरा
3	अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षित वार्ड	8	06 रामगंज वार्ड 07 आजाद वार्ड 18 हाडसिंग बोर्ड वार्ड 20 आदमगढ़ वार्ड 21 फेंफरताल वार्ड 22 एसपीएम पूर्वी वार्ड 23 एसपीएम पश्चिमी वार्ड 26 रेवागंज वार्ड

(1)	(2)	(3)	(4)
4	अनुसूचित जाति के आरक्षित वार्डों में से अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए आरक्षित वार्ड.	03	11 जनकपुरी वार्ड 19 आनन्द नगर वार्ड 25 राजेन्द्र वार्ड
5	अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित वार्डों में से अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित वार्ड.	01	27 भीलपुरा वार्ड
6	अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित वार्डों में से अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित वार्ड.	04	06 रामगंज वार्ड 07 आजाद वार्ड 22 एम.पी.एम. पूर्वी वार्ड 26 रेवागंज वार्ड
7	महिलाओं के लिये उक्त 4, 5 व 6 के अलावा आरक्षित वार्ड.	08	01 शास्त्री वार्ड 02 शनिचरा वार्ड 05 नारायण गंज वार्ड 10 गणेशगंज वार्ड 16 मालाखेड़ी दक्षिणी वार्ड 28 कृष्णापुरी वार्ड 31 गोविन्दपुरा वार्ड 32 गांधी वार्ड

अ. सू. 36 क्र. एफ-1-11-13-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम 7 की अपेक्षा अनुसार नगरपालिका इटारसी जिला होशंगाबाद के लिए आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है:—

क्र. (1)	वर्ग जिसके लिए आरक्षण किया गया (2)	कुल वार्ड (3)	आरक्षित वार्ड के क्रमांक व नाम (4)
1	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	05	06 इंद्रपुरा, 12 प्रियदर्शनीय नगर, 25 नेहरूगंज, 26 देशबंधुपुरा, 31 आजादनगर.
2	अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	01	33 नरेन्द्र नगर
3	अन्य पिछड़ा वर्गों के लिये आरक्षित कुल वार्ड	09	02 शास्त्री नगर, 05 रामगढ़, 08 सुदामा नगर, 09 इकबालगंज, 20 गांधी नगर, 21 अब्दुल हमीद नगर, 23 अहिल्या नगर, 28 गुरुगोविन्द सिंह नगर, 30 हरिपुरा.
4	अनुसूचित जाति महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड	03	06 इंद्रपुरा, 12 प्रियदर्शनीय नगर, 31 आजादनगर
5	अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड.	—	—
6	अन्य पिछड़ा वर्गों की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड.	05	08 सुदामा नगर, 20 गांधी नगर, 21 अब्दुल हमीद नगर, 23 अहिल्या नगर, 30 हरिपुरा.
7	महिलाओं के लिये (उक्त सरल क्रमांक 4, 5, 6 के अलावा) आरक्षित वार्ड.	09	01 जयप्रकाशनगर, 03 सरदार पटैलपुरा, 04 राजेन्द्रपुरा, 11 रैदासनगर, 14 आर्य नगर, 15 विश्वकर्मा नगर, 18 शिवपुरी, 19 कस्तूरबा नगर, 29 विपिन नगर.

अ. सू. 36 क्र. एफ-1-11-13-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम-7 की अपेक्षा अनुसार नगरपालिका सिवनीमालवा, जिला होशंगाबाद के लिए आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है:—

क्र. (1)	वर्ग जिसके लिए आरक्षण किया गया (2)	कुल वार्ड (3)	आरक्षित वार्ड के क्रमांक व नाम (4)
1	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	01	04 किदवई वार्ड
2	अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	01	10 तिलक वार्ड
3	अन्य पिछड़ा वर्गों के लिये आरक्षित कुल वार्ड	04	01 रैदास वार्ड 02 गांधी वार्ड 08 गोखले वार्ड 12 सरदार वल्लभभाई पटेल वार्ड
4	अनुसूचित जाति महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड.	—	—
5	अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड.	—	—
6	अन्य पिछड़ा वर्गों की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड.	02	01 रैदास वार्ड 02 गांधी वार्ड
7	महिलाओं के लिये (उक्त सरल क्रमांक 4, 5, 6 के अलावा) आरक्षित वार्ड.	05	03 सुभाष वार्ड, 06 नेहरु वार्ड, 07 राजेन्द्र वार्ड, 13 शास्त्री वार्ड, 15 राजीव गांधी वार्ड.

अ. सू. 36 क्र. एफ-1-11-13-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम 7 की अपेक्षा अनुसार नगरपालिका परिषद, पिपरिया, जिला होशंगाबाद के लिए आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है:—

क्र. (1)	वर्ग जिसके लिये आरक्षण किया गया (2)	आरक्षित वार्डों की संख्या (3)	आरक्षित वार्ड के क्र. एवं नाम (4)
1	अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित वार्ड	03	06 जयप्रकाश वार्ड 07 अम्बेडकर वार्ड 10 गांधी वार्ड
2	अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित वार्ड	01	09 शास्त्री वार्ड
3	अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षित वार्ड	05	01 भगत सिंह वार्ड 02 इंदिरा गांधी वार्ड 05 लोहिया वार्ड 08 विनोवा वार्ड 19 जाकिर हुसैन वार्ड
4	अनुसूचित जाति के आरक्षित वार्डों में से अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए आरक्षित वार्ड.	01	06 जयप्रकाश वार्ड

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5	अनुसूचित जनजाति के आरक्षित वार्डों में अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित वार्ड.	—	—	निरंक
6	अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित वार्डों में से अन्य पिछड़ा महिलाओं के लिए आरक्षित वार्ड.	02	05 08	लोहिया वार्ड विनोवा वार्ड
7	अनारक्षित महिला के लिए आरक्षित वार्ड	07	03 13 20 21 15 04 12	राजीव गांधी वार्ड नेहरु वार्ड सरदार वार्ड तिलक वार्ड अशोक वार्ड व्ही. व्ही. गिरी वार्ड आजाद वार्ड

अ. सू. 36 क्र. एफ-1-11-13-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम 7 की अपेक्षा अनुसार नगर परिषद बाबई, जिला होशंगाबाद के लिए आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है:—

क्र. (1)	वर्ग जिसके लिए आरक्षण किया गया (2)	कुल वार्ड (3)	आरक्षित वार्ड के क्रमांक व नाम (4)
1	अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित कुल वार्ड	02	01 जगजीवन वार्ड, 02 आजाद वार्ड
2	अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित कुल वार्ड	—	—
3	अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षित कुल वार्ड	04	03 इंदिरा वार्ड, 09 गांधी वार्ड, 11 राजीव गांधी वार्ड, 13 अम्बेडकर वार्ड.
4	अनुसूचित जाति महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड.	01	02 आजाद वार्ड
5	अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड.	—	—
6	अन्य पिछड़ा वर्गों की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड.	02	11 राजीव गांधी वार्ड, 13 अम्बेडकर वार्ड
7	महिलाओं के लिये (उक्त सरल क्रमांक 4, 5 व 6 के अलावा) आरक्षित वार्ड.	04	04 तिलक वार्ड, 08 लक्ष्मी वार्ड, 14 सरदार पटेल वार्ड, 15 लोहिया वार्ड.

अ. सू. 36 क्र. एफ-1-11-13-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम 7 की अपेक्षा अनुसार नगर परिषद, सोहागपुर, जिला होशंगाबाद के लिए आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है:—

क्र. (1)	वर्ग जिसके लिए आरक्षण किया गया (2)	कुल वार्ड (3)	आरक्षित वार्ड के क्रमांक व नाम (4)
1	अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित कुल वार्ड	02	01 सुभाष वार्ड, 13 इंदिरा वार्ड
2	अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित कुल वार्ड	01	10 सरदार वार्ड
3	अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षित कुल वार्ड	04	02 अम्बेडकर वार्ड, 05 गांधी वार्ड, 09 रामगंज वार्ड, 12 तिलक वार्ड
4	अनुसूचित जाति महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड.	01	13 इंदिरा वार्ड
5	अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड.	—	—
6	अन्य पिछड़ा वर्गों की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड.	02	05 गांधी वार्ड, 12 तिलक वार्ड
7	महिलाओं के लिये (उक्त सरल क्रमांक 4, 5, 6 के अलावा) आरक्षित वार्ड.	04	03 रघुवंशीपुरा वार्ड, 08 मातापुरा वार्ड, 11 शास्त्री वार्ड, 15 गौतम वार्ड.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
के. के. कातिया, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 10 अक्टूबर 2014

अ. सू. 37 क्र. एफ-1-11-13-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम 7 की अपेक्षा अनुसार नगरपालिका राजगढ़, जिला राजगढ़ के लिए आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है:—

क्र. (1)	वर्ग जिसके लिए आरक्षण किया गया (2)	कुल वार्ड (3)	आरक्षित वार्ड के क्रमांक व नाम (4)
1	अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित कुल वार्ड	02	4 ठक्कर बप्पा वार्ड 15 भीमराव अम्बेडकर वार्ड
2	अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित कुल वार्ड	निरंक	निरंक
3	अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षित कुल वार्ड	04	3 महावीर वार्ड 5 इन्दिरा गांधी वार्ड 7 सुभाष वार्ड 9 गणेश वार्ड
4	अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड.	01	15 भीमराव अम्बेडकर वार्ड
5	अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड.	निरंक	निरंक

(1)	(2)	(3)	(4)
6	अन्य पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड.	02	3 महावीर वार्ड 9 गणेश वार्ड
7	महिलाओं के लिये (उक्त सरल क्रमांक 4, 5 व 6 के अलावा) आरक्षित वार्ड.	05	1 जवाहर वार्ड 2 मोतीलाल नेहरू वार्ड 10 शंकर वार्ड 12 लक्ष्मीदेवी वार्ड 14 मनकामनेश्वर वार्ड

अ. सू. 37 क्र. एफ-1-11-13-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम-7 की अपेक्षा अनुसार नगरपालिका ब्यावरा, जिला राजगढ़ के लिए आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है:—

क्र. (1)	वर्ग जिसके लिए आरक्षण किया गया (2)	कुल वार्ड (3)	आरक्षित वार्ड के क्रमांक व नाम (4)
1	अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित कुल वार्ड	03	9 गांधी वार्ड 15 खड़े हनुमान वार्ड 16 भगत सिंह वार्ड
2	अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित कुल वार्ड	निरंक	निरंक
3	अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षित कुल वार्ड	05	3 बैकुंठ वार्ड 5 सुभाष वार्ड 7 जयप्रकाश वार्ड 17 शीतला माता वार्ड 18 रविशंकर वार्ड
4	अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड.	02	15 खड़े हनुमान वार्ड 16 भगत सिंह वार्ड
5	अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड	निरंक	निरंक
6	अन्य पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड.	03	5 सुभाष वार्ड 7 जयप्रकाश वार्ड 18 रविशंकर वार्ड
7	महिलाओं के लिये (उक्त सरल क्रमांक 4, 5 व 6 के अलावा) आरक्षित वार्ड.	04	2 जवाहर वार्ड 4 अम्बेडकर वार्ड 12 लक्ष्मीबाई वार्ड 13 चतुर्भुजनाथ वार्ड

अ. सू. 37 क्र. एफ-1-11-13-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम 7 की अपेक्षा अनुसार नगरपालिका सारंगपुर, जिला राजगढ़ के लिए आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है:—

क्र. (1)	वर्ग जिसके लिए वार्ड आरक्षण किया गया (2)	कुल वार्ड (3)	आरक्षित वार्ड के क्रमांक व नाम (4)
1	अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित कुल वार्ड	02	2 इंदिरा गांधी वार्ड 9 डॉ. भीमराव अम्बेडकर वार्ड
2	अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित कुल वार्ड	निरंक	निरंक

(1)	(2)	(3)	(4)
3	अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षित कुल वार्ड	05	1 महात्मा गांधी वार्ड 8 डॉ. राजेन्द्रप्रसाद वार्ड 14 राजीव गांधी वार्ड 16 रानी रूपमती वार्ड 18 लालबहादुर शास्त्री वार्ड
4	अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड.	01	09 डॉ. भीमराव अम्बेडकर वार्ड
5	अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड.	निरंक	निरंक
6	अन्य पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड.	03	8 डॉ. राजेन्द्रप्रसाद वार्ड 14 राजीव गांधी वार्ड 16 रानी रूपमती वार्ड
7	महिलाओं के लिये (उक्त सरल क्रमांक 4, 5 व 6 के अलावा) आरक्षित वार्ड.	05	5 सुभाषचंद्र बोस वार्ड 7 पण्डित मदन मोहन मालवीय वार्ड 11 मोलाना अब्दुल कलॉम आजाद वार्ड 12 रानी लक्ष्मीबाई वार्ड 13 डॉ. राधाकृष्णन वार्ड

अधि. सू. 37 क्र. एफ-1-11-13-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम 7 की अपेक्षा अनुसार नगरपालिका नरसिंहगढ़, जिला राजगढ़ के लिए आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है:—

क्र. (1)	वर्ग जिसके लिए वार्ड आरक्षण किया गया (2)	कुल वार्ड (3)	आरक्षित वार्ड के क्रमांक व नाम (4)
1	अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित कुल वार्ड	02	9 जवाहर गंज 12 बगूची
2	अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित कुल वार्ड	निरंक	निरंक
3	अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षित कुल वार्ड	04	7 महादेवपुरी 11 पालपरसराम पुरा 13 बाराद्वारी 15 बैजनाथ महादेव मार्ग
4	अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड.	01	9 जवाहर गंज
5	अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड.	निरंक	निरंक
6	अन्य पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड.	02	7 महादेवपुरी 13 बाराद्वारी
7	महिलाओं के लिये (उक्त सरल क्रमांक 4, 5 व 6 के अलावा) आरक्षित वार्ड.	05	1 थावरिया 4 अस्पताल 5 अर्जुन गौशाला 6 रामकुण्ड 14 महावीर पुरा

अधि. सू. 37 क्र. एफ-1-11-13-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम 7 की अपेक्षा अनुसार नगर परिषद, बोड़ा जिला राजगढ़ के लिए आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है:—

क्र. (1)	वर्ग जिसके लिए वार्ड आरक्षण किया गया (2)	कुल वार्ड (3)	आरक्षित वार्ड के क्रमांक व नाम (4)
1	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	03	11 सुभाष वार्ड 13 लालबहादुर शास्त्री वार्ड 14 मौलाना आजाद वार्ड
2	अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	01	7 महाराणाप्रताप वार्ड
3	अन्य पिछड़ा वर्गों के लिये आरक्षित कुल वार्ड	04	1 राजीव गांधी वार्ड 6 इन्दिरागांधी वार्ड 8 नेहरू वार्ड 15 डा. अम्बेडकर वार्ड
4	अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड.	02	11 सुभाष वार्ड 13 लालबहादुर शास्त्री वार्ड
5	अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड.	निरंक	निरंक
6	अन्य पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड.	02	1 राजीव गांधी वार्ड 15 डा. अम्बेडकर वार्ड
7	महिलाओं के लिये (उक्त सरल क्रमांक 4, 5 6 के अलावा) आरक्षित वार्ड.	04	3 भगतसिंह वार्ड 5 महावीर वार्ड 10 संजय गांधी वार्ड 12 बल्लभभाई पटेल वार्ड

अधि. सू. 37 क्र. एफ-1-11-13-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम 7 की अपेक्षा अनुसार नगर परिषद, खुजनेर जिला राजगढ़ के लिए आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है:—

क्र. (1)	वर्ग जिसके लिए वार्ड आरक्षण किया गया (2)	कुल वार्ड (3)	आरक्षित वार्ड के क्रमांक व नाम (4)
1	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	02	2 डॉ. भीमराव अम्बेडकर वार्ड 3 स्व. श्रीमती इन्दिरा गांधी वार्ड
2	अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	निरंक	निरंक
3	अन्य पिछड़ा वर्गों के लिये आरक्षित कुल वार्ड	04	1 महात्मा गांधी वार्ड 7 मोलाना अब्दुल कलाम आजाद वार्ड 8 स्वामी विवेकानन्द वार्ड 12 रानी लक्ष्मीबाई वार्ड
4	अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड.	01	3 स्व. श्रीमती इन्दिरा गांधी वार्ड



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
5	अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड.			निरंक				निरंक	
6	अन्य पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड.			02	01	महात्मा गांधी वार्ड		07	मौलाना अब्दुल कलाम आजाद वार्ड
7	महिलाओं के लिये (उक्त सरल क्रमांक 4, 5 6 के अलावा) आरक्षित वार्ड.			05	04	नेताजी सुभाषचन्द्र वार्ड		05	पंडित जवाहरलाल नेहरू वार्ड
					06	चन्द्रशेखर आजाद वार्ड		10	देवी अहिल्या बाई वार्ड
					13	भारतरत्न राजीव गांधी वार्ड			

अधि. सू. 37 क्र. एफ-1-11-13-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम-7 की अपेक्षा अनुसार नगर परिषद, तलेन, जिला राजगढ़ के लिए आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है:—

क्र. (1)	वर्ग जिसके लिए वार्ड आरक्षण किया गया (2)	कुल वार्ड (3)	आरक्षित वार्ड के क्रमांक व नाम (4)
1	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	03	5 महात्मा गांधी वार्ड 9 लक्ष्मीबाई वार्ड 14 रेदास वार्ड
2	अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	निरंक	निरंक
3	अन्य पिछड़ा वर्गों के लिये आरक्षित कुल वार्ड	04	1 इन्दिरा गांधी वार्ड 2 अम्बेडकर वार्ड 4 श्रीकृष्ण वार्ड 11 राजेन्द्रप्रसाद वार्ड
4	अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड.	02	9 लक्ष्मीबाई वार्ड 14 रेदास वार्ड
5	अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड.	निरंक	निरंक
6	अन्य पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड.	02	4 श्रीकृष्ण वार्ड 11 राजेन्द्रप्रसाद वार्ड
7	महिलाओं के लिये (उक्त सरल क्रमांक 4, 5 6 के अलावा) आरक्षित वार्ड.	04	6 शास्त्री वार्ड 8 संजय गांधी वार्ड 10 शिवाजी वार्ड 13 चन्द्रशेखर वार्ड

अधि. सू. 37 क्र. एफ-1-11-13-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम 7 की अपेक्षा अनुसार नगर परिषद, सुठालिया, जिला-राजगढ़ के लिए आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है:—

क्र. (1)	वर्ग जिसके लिए वार्ड आरक्षण किया गया (2)	कुल वार्ड (3)	आरक्षित वार्ड के क्रमांक व नाम (4)
1	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	03	1 गुरु राजनाथ वार्ड 6 जवाहर वार्ड 11 राजीव गांधी वार्ड
2	अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	01	3 डॉ अम्बेडकर वार्ड
3	अन्य पिछड़ा वर्गों के लिये आरक्षित कुल वार्ड	04	2 शिवाजी वार्ड 7 लालबहादुर शास्त्री वार्ड 8 महात्मा गांधी वार्ड 13 मुखर्जी वार्ड
4	अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड.	02	1 गुरु राजनाथ वार्ड 6 जवाहर वार्ड
5	अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड.	निरंक	निरंक
6	अन्य पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड	02	8 महात्मा गांधी वार्ड 13 मुखर्जी वार्ड
7	महिलाओं के लिये (उक्त सरल क्रमांक 4, 5 6 के अलावा) आरक्षित वार्ड.	04	4 इन्दिरा गांधी वार्ड 10 डॉ. राजेन्द्रप्रसाद वार्ड 12 तिलक वार्ड 14 लक्ष्मीबाई वार्ड

अधि. सू. 37 क्र. एफ-1-11-13-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम 7 की अपेक्षा अनुसार नगर परिषद, छापीहेड़ा, जिला-राजगढ़ के लिए आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है:—

क्र. (1)	वर्ग जिसके लिए वार्ड आरक्षण किया गया (2)	कुल वार्ड (3)	आरक्षित वार्ड के क्रमांक व नाम (4)
1	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	03	12 ज्योतिबा फुले वार्ड 13 सरदार वल्लभ भाई पटेल वार्ड 14 बाबा रामदेव वार्ड
2	अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	निरंक	निरंक

(1)	(2)	(3)	(4)
3	अन्य पिछड़ा वर्गों के लिये आरक्षित कुल वार्ड	04	1 छत्रपति शिवाजी वार्ड 3 स्वामी विवेकानंद वार्ड 4 शहीद भगतसिंह वार्ड 10 भीमराम अंबेडकर वार्ड
4	अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड	02	13 सरदार पटेल वार्ड 14 बाबा रामदेव वार्ड
5	अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड	निरंक	निरंक
6	अन्य पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड	02	1 छत्रपति शिवाजी वार्ड 4 शहीद भगतसिंह वार्ड
7	महिलाओं के लिये (उक्त सरल क्रमांक 4, 5 6 के अलावा) आरक्षित वार्ड.	04	5 महावीर वार्ड 6 चन्द्रशेखर वार्ड 7 श्रीराम मंदिर वार्ड 9 तिलक वार्ड

अधि. सू. 37 क्र. एफ-1-11-13-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम 7 की अपेक्षा अनुसार नगर परिषद्, माचलपुर, जिला-राजगढ़ के लिए आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है:—

क्र. (1)	वर्ग जिसके लिए वार्ड आरक्षण किया गया (2)	कुल वार्ड (3)	आरक्षित वार्ड के क्रमांक व नाम (4)
1	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	03	8 मोलाना आजाद वार्ड 10 संत विनोबा वार्ड 11 शहीद कल्याण वार्ड
2	अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	निरंक	निरंक
3	अन्य पिछड़ा वर्गों के लिये आरक्षित कुल वार्ड	04	3 नेताजी सुभाष वार्ड 4 सरदार पटेल वार्ड 13 इंदिरा गांधी वार्ड 15 गुरु गोविन्द सिंह वार्ड
4	अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड	02	8 मोलाना आजाद वार्ड 10 संत विनोबा वार्ड
5	अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड	निरंक	निरंक
6	अन्य पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड	02	13 इंदिरा गांधी वार्ड 15 गुरु गोविन्द सिंह वार्ड
7	महिलाओं के लिये (उक्त सरल क्रमांक 4, 5 6 के अलावा) आरक्षित वार्ड.	04	1 जवाहर वार्ड 2 महात्मा गांधी वार्ड 3 राणाप्रताप वार्ड 14 छत्रपति शिवाजी वार्ड

अधि. सू. 37 क्र. एफ-1-11-13-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम-7 की अपेक्षा अनुसार नगर परिषद, खिलचौपुर जिला-राजगढ़ के लिए आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है:—

क्र. (1)	वर्ग जिसके लिए वार्ड आरक्षण किया गया (2)	कुल वार्ड (3)	आरक्षित वार्ड के क्रमांक व नाम (4)
1	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	02	2 प्रियदर्शिनी इंदिरा गांधी वार्ड 4 डॉ. अम्बेडकर वार्ड
2	अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	निरंक	निरंक
3	अन्य पिछड़ा वर्गों के लिये आरक्षित कुल वार्ड	04	9 टैगोर वार्ड 11 तिलक वार्ड 12 संजय गांधी वार्ड 14 महात्मा गांधी वार्ड
4	अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड	01	2 प्रियदर्शिनी इंदिरा गांधी वार्ड
5	अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड	निरंक	निरंक
6	अन्य पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड	02	11 तिलक वार्ड 14 महात्मा गांधी वार्ड
7	महिलाओं के लिये (उक्त सरल क्रमांक 4, 5 6 के अलावा) आरक्षित वार्ड.	05	1 हनुमानगढ़ी वार्ड 3 संत विनोबा वार्ड 5 मौलाना आजाद वार्ड 6 नेताजी सुभाष वार्ड 15 महारानी लक्ष्मीबाई वार्ड

अधि. सू. 37 क्र. एफ-1-11-13-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम 7 की अपेक्षा अनुसार नगर परिषद, जीरापुर, जिला-राजगढ़ के लिए आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है:—

क्र. (1)	वर्ग जिसके लिए वार्ड आरक्षण किया गया (2)	कुल वार्ड (3)	आरक्षित वार्ड के क्रमांक व नाम (4)
1	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	03	2 महात्मागांधी वार्ड 9 शास्त्री वार्ड 15 इंदिरागांधी वार्ड
2	अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	निरंक	निरंक
3	अन्य पिछड़ा वर्गों के लिये आरक्षित कुल वार्ड	04	3 नेहरू वार्ड 8 चन्द्रशेखर आजाद वार्ड 12 चामुण्डेश्वरी वार्ड 14 शिवाजी वार्ड

(1)	(2)	(3)	(4)
4	अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड	02	9 शास्त्री वार्ड 15 इंदिरा गांधी वार्ड
5	अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड	निरंक	निरंक
6	अन्य पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड	02	3 नेहरू वार्ड 14 शिवाजी वार्ड
7	महिलाओं के लिये (उक्त सरल क्रमांक 4, 5 व 6 के अलावा) आरक्षित वार्ड.	04	4 शीतला वार्ड 5 सुभाष वार्ड 7 भगतसिंह वार्ड 13 राजीव गांधी वार्ड

अधि. सू. 37 क्र. एफ-1-11-13-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम 7 की अपेक्षा अनुसार नगर परिषद, कुरावर, जिला-राजगढ़ के लिए आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है:—

क्र. (1)	वर्ग जिसके लिए वार्ड आरक्षण किया गया (2)	कुल वार्ड (3)	आरक्षित वार्ड के क्रमांक व नाम (4)
1	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	02	5 तात्याटोपे वार्ड 11 अम्बेडकर वार्ड
2	अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	निरंक	निरंक
3	अन्य पिछड़ा वर्गों के लिये आरक्षित कुल वार्ड	04	4 सुभाषचन्द्र बोस वार्ड 12 लक्ष्मीबाई वार्ड 13 राजाराम मोहन राय वार्ड 15 मंगल पाण्डे वार्ड
4	अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड	01	11 अम्बेडकर वार्ड
5	अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड	निरंक	निरंक
6	अन्य पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड	02	4 सुभाषचन्द्र बोस वार्ड 13 राजाराम मोहन राय वार्ड
7	महिलाओं के लिये (उक्त सरल क्रमांक 4, 5 व 6 के अलावा) आरक्षित वार्ड.	05	3 महात्मा गांधी वार्ड 6 कुवर चैनसिंह वार्ड 7 भगतसिंह वार्ड 8 चन्द्रशेखर वार्ड 10 शिवाजी वार्ड

अधि. सू. 37 क्र. एफ-1-11-13-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम 7 की अपेक्षा अनुसार नगर परिषद, पचोर, जिला-राजगढ़ के लिए आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है:—

क्र. (1)	वर्ग जिसके लिए वार्ड आरक्षण किया गया (2)	कुल वार्ड (3)	आरक्षित वार्ड के क्रमांक व नाम (4)
1	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	03	7 चन्द्रशेखर वार्ड 9 महात्मागांधी वार्ड 13 इन्दिरागांधी वार्ड
2	अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	निरंक	निरंक
3	अन्य पिछड़ा वर्गों के लिये आरक्षित कुल वार्ड	04	4 लोकमान्य तिलक वार्ड 5 सरदार पटेल वार्ड 8 श्री विश्वनाथ वार्ड 12 सुभाषचन्द्र बोस वार्ड
4	अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड	02	7 चन्द्रशेखर वार्ड 9 महात्मागांधी वार्ड
5	अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड	निरंक	निरंक
6	अन्य पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड	02	4 लोकमान्य तिलक वार्ड 8 विश्वनाथ वार्ड
7	महिलाओं के लिये (उक्त सरल क्रमांक 4, 5 व 6 के अलावा) आरक्षित वार्ड.	04	1 श्री देव नारायण मन्दिर वार्ड 3 श्री शीतलामाता वार्ड 10 श्री कालाजी वार्ड 14 श्री राधाकृष्ण मंदिर वार्ड

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
के. के. कातिया, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 10 अक्टूबर 2014

अधि. सू-38 क्र. एफ-1-11-वार्ड आरक्षण-2013-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम 7 की अपेक्षा अनुसार नगरपालिका आष्टा, जिला सीहोर के लिए आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है:—

अ. क्र. (1)	वर्ग जिसके लिए वार्ड आरक्षित किया गया है (2)	कुल वार्ड (3)	आरक्षित वार्डों का क्रमांक व नाम (4)
1	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	02	3 महात्मागांधी वार्ड 14 महर्षि दयानंद वार्ड
2	अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	निरंक	निरंक

(1)	(2)	(3)	(4)
3	अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षित कुल वार्ड	05	2 जवाहरलाल नेहरू वार्ड 8 सरदार भगतसिंह वार्ड 11 रवीन्द्रनाथ टैगौर वार्ड 15 जयप्रकाश नारायण वार्ड 17 आचार्य नरेन्द्र देव वार्ड
4	अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड	01	3 महात्मागांधी वार्ड
5	अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड	निरंक	निरंक
6	अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड	03	2 जवाहरलाल नेहरू वार्ड 11 रवीन्द्रनाथ टैगौर वार्ड 15 जयप्रकाश नारायण वार्ड
7	अनारक्षित महिलाओं के लिये (उक्त सरल क्रमांक 4, 5 व 6 के अलावा) आरक्षित वार्ड.	05	01 डॉ. राजेन्द्र प्रसाद वार्ड 04 स्वामी विवेकानन्द वार्ड 12 सरदार पटेल वार्ड 16 सुभाषचन्द्र बोस वार्ड 18 चन्द्रशेखर आजाद वार्ड

अधि. सू-38 क्र. एफ-1-11-13-वार्ड आरक्षण-2013-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम 7 की अपेक्षा अनुसार नगर परिषद, जावर, जिला सीहोर के लिए आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है:—

अ. क्र. (1)	वर्ग जिसके लिए वार्ड आरक्षित किया गया है (2)	कुल वार्ड (3)	आरक्षित वार्डों के क्रमांक व नाम (4)
1	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	04	02 इंदिरा गांधी वार्ड 03 डॉ. अम्बेडकर वार्ड 08 सुभाषचन्द्र बोस वार्ड 09 संजय गांधी वार्ड
2	अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	निरंक	निरंक
3	अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षित कुल वार्ड	04	1 जवाहर वार्ड 5 महाराणा प्रताप वार्ड 11 शिवाजी वार्ड 15 महात्मा गांधी वार्ड
4	अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड	02	02 इंदिरा गांधी वार्ड 08 सुभाषचन्द्र बोस वार्ड
5	अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड	निरंक	निरंक
6	अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड	02	01 जवाहर वार्ड 15 महात्मा गांधी वार्ड
7	अनारक्षित महिलाओं के लिये (उक्त सरल क्रमांक 4, 5 व 6 के अलावा) आरक्षित कुल वार्ड.	03	6 मौलाना आजाद वार्ड 12 चन्द्रशेखर आजाद वार्ड 13 सरदार भगत सिंह वार्ड

अधि.सू-38 क्र. एफ-1-11-वार्ड आरक्षण-2013-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम 7 की अपेक्षा अनुसार नगर परिषद, बुदनी, जिला सीहोर के लिए आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है:—

अ. क्र. (1)	वर्ग जिसके लिए वार्ड आरक्षित किया गया है (2)	कुल वार्ड (3)	आरक्षित वार्डों का क्रमांक व नाम (4)
1	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	03	1 इंदिरा गांधी वार्ड 12 महारानी लक्ष्मी बाई वार्ड 15 अम्बेडकर वार्ड
2	अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	02	11 सरदार पटेल वार्ड 14 चन्द्रशेखर वार्ड
3	अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षित कुल वार्ड	04	2 महात्मा गांधी वार्ड 4 गुरुनानक वार्ड 5 लालबहादुर शास्त्री वार्ड 7 रविशंकर शुक्ला वार्ड
4	अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड	02	1 इंदिरा गांधी वार्ड 12 महारानी लक्ष्मी बाई वार्ड
5	अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड	01	11 सरदार पटेल वार्ड
6	अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड	02	5 लालबहादुर शास्त्री वार्ड 7 रविशंकर शुक्ला वार्ड
7	अनारक्षित महिलाओं के लिये (उक्त सरल क्रमांक 4, 5 व 6 के अलावा) आरक्षित वार्ड.	02	8 भगत सिंह वार्ड 9 डॉ. राजेन्द्र प्रसाद वार्ड

अधि. सू-38 क्र. एफ-1-11-वार्ड आरक्षण-2013-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम-7 की अपेक्षा अनुसार नगर परिषद, रेहटी, जिला सीहोर के लिए आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है:—

अ. क्र. (1)	वर्ग जिसके लिए वार्ड आरक्षित किया गया है (2)	कुल वार्ड (3)	आरक्षित वार्डों का क्रमांक व नाम (4)
1	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	01	4 डॉ. अम्बेडकर वार्ड
2	अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	01	15 स्वामी विवेकानन्द वार्ड
3	अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षित कुल वार्ड	04	1 लालबहादुर शास्त्री वार्ड 5 पं. जवाहरलाल नेहरू वार्ड 8 सुभाषचन्द्र बोस वार्ड 10 सरदार भगत सिंह वार्ड
4	अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड	0	निरंक
5	अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड	0	निरंक
6	अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड	02	1 लालबहादुर शास्त्री वार्ड 8 सुभाषचन्द्र बोस वार्ड



(1)	(2)	(3)	(4)
7	अनारक्षित महिलाओं के लिये (उक्त सरल क्रमांक 4, 5 व 6 के अलावा) आरक्षित कुल वार्ड.	05	3 जयप्रकाश नारायण वार्ड 6 डॉ. राजेन्द्र प्रसाद वार्ड 11 राजीव गांधी वार्ड 12 चंद्रशेखर आजाद वार्ड 14 महाराणाप्रताप सिंह वार्ड

अधि. सू-38 क्र. एफ-1-11-वार्ड आरक्षण-2013-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम-7 की अपेक्षा अनुसार नगर परिषद, नसरुल्लागंज, जिला सीहोर के लिए आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है:—

अ. क्र. (1)	वर्ग जिसके लिए वार्ड आरक्षित किया गया है (2)	कुल वार्ड (3)	आरक्षित वार्डों का क्रमांक व नाम (4)
1	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	02	1 सुभाषचन्द्र वार्ड 2 डॉ. अम्बेडकर वार्ड
2	अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	01	10 डॉ. राजेन्द्र प्रसाद वार्ड
3	अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षित कुल वार्ड	04	3 तिलक वार्ड 7 संजय वार्ड 9 राजीव गांधी वार्ड 12 इंदिरा वार्ड
4	अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड	01	2 डॉ. अम्बेडकर वार्ड
5	अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड	0	निरंक
6	अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड	02	9 राजीव गांधी वार्ड 12 इंदिरा वार्ड
7	अनारक्षित महिलाओं के लिये (उक्त सरल क्रमांक 4, 5, 6 के अलावा) आरक्षित कुल वार्ड.	04	4 सरदार बल्लभ भाई पटेल वार्ड 5 स्वामी विवेकानंद वार्ड 13 महात्मागांधी वार्ड 15 नेहरू वार्ड

अधि. सू-38 क्र. एफ-1-11-वार्ड आरक्षण-2013-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम-7 की अपेक्षा अनुसार नगर परिषद, इछावर, जिला सीहोर के लिए आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है:—

अ. क्र. (1)	वर्ग जिसके लिए वार्ड आरक्षित किया गया है (2)	कुल वार्ड (3)	आरक्षित वार्डों का क्रमांक व नाम (4)
1	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	03	10 शिवाजी वार्ड 11 अम्बेडकर वार्ड 12 ग्राम देवी वार्ड
2	अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	0	निरंक

(1)	(2)	(3)	(4)
3	अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षित कुल वार्ड	04	2 महाराणा प्रताप वार्ड 6 भगतसिंह वार्ड 14 आजाद वार्ड 15 किदवई वार्ड
4	अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड	02	10 शिवाजी वार्ड 11 अम्बेडकर वार्ड
5	अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड	0	निरंक
6	अन्य पिछड़ा वर्गों की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड	02	6 भगतसिंह वार्ड 15 किदवई वार्ड
7	अनारक्षित महिलाओं के लिये (उक्त सरल क्रमांक 4, 5 व 6 के अलावा) आरक्षित कुल वार्ड.	03	1 शास्त्री वार्ड 4 नेहरू वार्ड 5 नेताजी सुभाष वार्ड

अधि. सू-38 क्र. एफ-1-11-वार्ड आरक्षण-2013-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम 7 की अपेक्षा अनुसार नगर परिषद, कोठरी, जिला सीहोर के लिए आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है:—

अ. क्र. (1)	वर्ग जिसके लिए वार्ड आरक्षित किया गया है (2)	कुल वार्ड (3)	आरक्षित वार्डों का क्रमांक व नाम (4)
1	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	03	7 प. जवाहरलाल नेहरू वार्ड 14 डॉ. अम्बेडकर वार्ड 15 सुभाष चन्द्रबोस वार्ड
2	अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	0	निरंक
3	अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षित कुल वार्ड	04	1 लालबहादुर शास्त्री वार्ड 3 श्यामाप्रसाद मुखर्जी वार्ड 4 स्वामी विवेकानन्द वार्ड 9 रविन्द्रनाथ टैगोर वार्ड
4	अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड	02	07 पं. जवाहरलाल नेहरू वार्ड 15 सुभाषचन्द्र बोस वार्ड
5	अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड	0	निरंक
6	अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड	02	3 श्यामाप्रसाद मुखर्जी वार्ड 4 स्वामी विवेकानन्द वार्ड
7	अनारक्षित महिलाओं के लिये (उक्त सरल क्रमांक 4, 5 व 6 के अलावा) आरक्षित वार्ड.	03	1 राममनोहर लोहिया वार्ड 4 सरदार भगत सिंह वार्ड 5 चन्द्रशेखर आजाद वार्ड

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
के. के. कातिया, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 10 अक्टूबर 2014

अधि. सू. 39 क्र. एफ 1-11-13-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम 7 की अपेक्षा अनुसार नगरपालिका गंजबासौदा, जिला विदिशा के लिए आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है :—

क्र. (1)	वर्ग जिसके लिए वार्ड आरक्षित किया गया (2)	कुल वार्ड 24 (3)	आरक्षित वार्डों के क्रमांक एवं नाम (4)
1	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	04	04 संत रहदास वार्ड 09 नेताजी सुभाष वार्ड 10 अम्बेडकर वार्ड 15 लालबहादुर शास्त्री वार्ड
2	अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	निरंक	निरंक
3	अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षित कुल वार्ड-06	06	02 चन्द्रशेखर आजाद वार्ड 07 विवेकानन्द वार्ड 16 गुरुनानक वार्ड 17 महात्मागांधी वार्ड 18 छत्रपति शिवाजी वार्ड 19 महाराणा प्रताप वार्ड
4	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित वार्डों में से अनुसूचित जाति की महिलाओं के आरक्षित कुल वार्ड-2.	02	10 अम्बेडकर वार्ड 15 लालबहादुर शास्त्री वार्ड
5	अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित वार्डों में से अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिये आरक्षित वार्ड-निरंक.	निरंक	निरंक
6	अन्य पिछड़े वर्ग के लिये आरक्षित वार्डों में से अन्य पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिये आरक्षित वार्ड.	03	02 चन्द्रशेखर आजाद वार्ड 07 विवेकानन्द वार्ड 19 महाराणा प्रताप वार्ड
7	महिलाओं के लिये (उक्त सरल क्रमांक 4, 5 व 6 के अलावा) आरक्षित वार्ड.	07	3 पं. दीनदयाल उपाध्याय वार्ड 5 चाणक्य वार्ड 6 संजय गांधी वार्ड 20 डॉ. राजेन्द्र प्रसाद वार्ड 21 महावीर स्वामी वार्ड 22 नेहरू वार्ड 23 वीर सावरकर वार्ड

अधि. सू. 39 क्र. एफ 1-11-13-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम 7 की अपेक्षा अनुसार नगरपालिका सिरोंज, जिला विदिशा के लिए आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है :—

क्र. (1)	वर्ग जिसके लिए वार्ड आरक्षित किया गया (2)	कुल वार्ड 21 (3)	आरक्षित वार्डों के क्रमांक एवं नाम (4)
1	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	03	03 रहदार पथ वार्ड 16 कटरा वार्ड 21 शहीद भगत सिंह वार्ड
2	अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	निरंक	निरंक
3	अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षित कुल वार्ड	05	01 शास्त्री वार्ड 04 दरीवालान वार्ड 08 बोहरवाडी वार्ड 13 रोहिलपुरा वार्ड 18 सतखनी वार्ड
4	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित वार्डों में से अनुसूचित जाति की महिलाओं के आरक्षित कुल वार्ड.	02	16 कटरा वार्ड 21 शहीद भगत सिंह वार्ड
5	अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित वार्डों में से अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिये आरक्षित वार्ड.	निरंक	निरंक
6	अन्य पिछड़े वर्ग के लिये आरक्षित वार्डों में से अन्य पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिये आरक्षित वार्ड.	03	01 शास्त्री वार्ड 04 दरीवालान वार्ड 18 सतखनी वार्ड
7	महिलाओं के लिये (उक्त सरल क्रमांक 4, 5 व 6 के अलावा) आरक्षित वार्ड.	06	05 अहिल्याबाई वार्ड 06 तलैया वार्ड 14 सुभाष वार्ड 15 किड़ी वार्ड 17 राणापुर वार्ड 20 माता की मढ़ैया वार्ड

अधि. सू. 39 क्र. एफ 1-11-13-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम 7 की अपेक्षा अनुसार नगर परिषद् कुरवाई, जिला विदिशा के लिए आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है :—

क्र. (1)	वर्ग जिसके लिए वार्ड आरक्षित किया गया (2)	कुल वार्ड 15 (3)	आरक्षित वार्डों के क्रमांक एवं नाम (4)
1	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	03	03 बागड़ी वार्ड 08 संत कबीर वार्ड 15 रैदास वार्ड
2	अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	निरंक	निरंक
3	अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षित कुल वार्ड	04	05 आजाद वार्ड 16 राजेन्द्र वार्ड 10 मुरलीधर मंदिर वार्ड 13 बजरिया वार्ड
4	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित वार्डों में से अनुसूचित जाति की महिलाओं के आरक्षित कुल वार्ड.	02	03 बागड़ी वार्ड 15 रैदास वार्ड
5	अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित वार्डों में से अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिये आरक्षित वार्ड.	निरंक	निरंक
6	अन्य पिछड़े वर्ग के लिये आरक्षित वार्डों में से अन्य पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिये आरक्षित वार्ड.	02	05 आजाद वार्ड 10 मुरलीधर मंदिर वार्ड
7	महिलाओं के लिये (उक्त सरल क्रमांक 4, 5 व 6 के अलावा) आरक्षित वार्ड.	04	01 गांधी वार्ड 09 तलैया वार्ड 11 इंदिरा वार्ड 12 पुरानी तहसील वार्ड

अधि. सू. 39 क्र. एफ 1-11-13-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम 7 की अपेक्षा अनुसार नगर परिषद् लटेरी, जिला विदिशा के लिए आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है :—

क्र. (1)	वर्ग जिसके लिए वार्ड आरक्षित किया गया (2)	कुल वार्ड 15 (3)	आरक्षित वार्डों के क्रमांक एवं नाम (4)
1	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	02	01 लालबहादुर शास्त्री वार्ड 05 राजीव गांधी वार्ड
2	अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	01	02 डॉ. अम्बेडकर वार्ड
3	अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षित कुल वार्ड	04	07 अमीर खुसरो वार्ड 12 स्वामी विवेकानन्द वार्ड 13 डॉ. जाकीर हुसैन वार्ड 14 इंदिरा गांधी वार्ड
4	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित वार्डों में से अनुसूचित जाति की महिलाओं के आरक्षित कुल वार्ड.	01	01 लाल बहादुर शास्त्री वार्ड
5	अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित वार्डों में से अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिये आरक्षित वार्ड.	निरंक	निरंक
6	अन्य पिछड़े वर्ग के लिये आरक्षित वार्डों में से अन्य पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिये आरक्षित वार्ड.	02	12 स्वामी विवेकानन्द वार्ड 14 इंदिरा गांधी वार्ड
7	महिलाओं के लिये (उक्त सरल क्रमांक 4, 5 व 6 के अलावा) आरक्षित वार्ड.	05	03 महात्मा गांधी वार्ड 04 राजीव गांधी वार्ड 06 संत रविदार वार्ड 08 महाराणा प्रताप वार्ड 09 चाणक्य वार्ड

अधि. सू. 39 क्र. एफ 1-11-13-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम 7 की अपेक्षा अनुसार नगर परिषद् शमशाबाद, जिला विदिशा के लिए आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है :—

क्र. (1)	वर्ग जिसके लिए वार्ड आरक्षित किया गया (2)	कुल वार्ड 15 (3)	आरक्षित वार्डों के क्रमांक एवं नाम (4)
1	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	02	03 पं. जवाहरलाल नेहरू वार्ड 12 संत रैदास वार्ड
2	अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	01	15 चन्द्रशेखर आजाद वार्ड
3	अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षित कुल वार्ड	04	01 स्वामी विवेकानन्द वार्ड 05 लालबहादुर शास्त्री वार्ड 09 महाराणा प्रताप वार्ड 13 महावीर स्वामी वार्ड
4	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित वार्डों में से अनुसूचित जाति की महिलाओं के आरक्षित कुल वार्ड.	01	03 पं. जवाहरलाल नेहरू वार्ड
5	अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित वार्डों में से अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिये आरक्षित वार्ड.	निरंक	निरंक
6	अन्य पिछड़े वर्ग के लिये आरक्षित वार्डों में से अन्य पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिये आरक्षित वार्ड.	02	05 लालबहादुर शास्त्री वार्ड 09 महाराणा प्रताप वार्ड
7	महिलाओं के लिये (उक्त सरल क्रमांक 4, 5 व 6 के अलावा) आरक्षित वार्ड.	05	02 डॉ. अम्बेडकर वार्ड 06 शिवाजी वार्ड 07 सूर्य नगर वार्ड 10 नेता जी सुभाष वार्ड 11 भगत सिंह वार्ड

भोपाल, दिनांक 10 अक्टूबर 2014

अधि. सू. 39 क्र. एफ 1-11-13-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम 7 की अपेक्षा अनुसार नगर परिषद् टिमरनी, जिला हरदा के लिए आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है :—

क्र. (1)	वर्ग जिसके लिए वार्ड आरक्षित किया गया (2)	कुल वार्ड (3)	आरक्षित वार्डों का क्रमांक एवं नाम (4)
1	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित वार्ड	03	01 तिरक्यान बाबा वार्ड 02 इंदिरा वार्ड 15 अम्बेडकर वार्ड
2	अनुसूचित जाति महिलाओं के आरक्षित वार्ड	02	02 इंदिरा वार्ड 15 अम्बेडकर वार्ड
3	अनुसूचित जनजाति	01	07 ठाकुर बाबा वार्ड
4	अनुसूचित जनजाति महिला आरक्षित वार्ड	-	-
5.	अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षित वार्ड	04	06 हनुमानपुरा वार्ड 08 गांधीचौक वार्ड 12 शक्तिमाता वार्ड 14 हरदुल बाबा वार्ड
6	अन्य पिछड़ा वर्ग महिलाओं के आरक्षित वार्ड	02	12 शक्तिमाता वार्ड 14 हरदुल बाबा वार्ड
7	अनारक्षित वार्ड	07	03 स्टेशन वार्ड 04 दुर्गा चौक वार्ड 05 पं. नेहरु वार्ड 09 रामपुरा वार्ड 10 भैरों बाबा वार्ड 11 गढ़ी वार्ड 13 शीतला माता वार्ड
8	अनारक्षित महिला	04	03 स्टेशन वार्ड 09 रामपुरा वार्ड 11 गढ़ी वार्ड 13 शीतला माता वार्ड



अधि. सू. 39 क्र. एफ 1-11-13-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम 7 की अपेक्षा अनुसार नगर परिषद् खिरकिया, जिला हरदा के लिए आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है :—

क्र. (1)	वर्ग जिसके लिए वार्ड आरक्षित किया गया (2)	कुल वार्ड (3)	आरक्षित वार्डों का क्रमांक एवं नाम (4)
1	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित वार्ड	03	03 गुरूनानक वार्ड 05 संजय गांधी वार्ड 11 इंदिरा गांधी वार्ड
2	अनुसूचित जनजाति	01	01 गौमुख वार्ड
3	अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षित वार्ड	04	08 शिवाजी वार्ड 09 दान बाबा वार्ड 12 शास्त्री वार्ड 15 अम्बेडकर वार्ड
4	अनुसूचित जाति महिलाओं के आरक्षित वार्ड	02	05 संजय गांधी वार्ड 11 इंदिरा गांधी वार्ड
5.	अनुसूचित जनजाति महिला आरक्षित वार्ड	-	-
6	अन्य पिछड़ा वर्ग महिलाओं के आरक्षित वार्ड	02	12 शास्त्री वार्ड 15 अम्बेडकर वार्ड
7	महिलाओं के लिये (उक्त सरल क्रमांक 4, 5 व 6 के अलावा) आरक्षित वार्ड	04	02 खेड़ीपुरा वार्ड 10 राजीव गांधी वार्ड 13 बजरंगवली वार्ड 14 भारतीबाबा वार्ड

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
के. के. कातिया, उपसचिव.

## भोपाल, दिनांक 10 अक्टूबर 2014

अ. सू. 40 क्र. एफ 1-11-13-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम 7 की अपेक्षा अनुसार नगरपालिका परिषद् बैतूल जिला बैतूल के आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है :—

क्र. (1)	वर्ग जिसके लिए वार्ड आरक्षित किया गया (2)	कुल वार्ड (3)	आरक्षित वार्डों के क्रमांक एवं नाम (4)
1	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	04	01 सुभाष वार्ड 02 अर्जुन वार्ड 23 जयप्रकाश वार्ड 25 रामनगर वार्ड
2	अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	03	03 दुर्गा वार्ड 04 मालवीय वार्ड 30 लोहिया वार्ड
3	अन्य पिछड़ा वर्गों के लिये आरक्षित वार्ड	08	05 शिवाजी वार्ड 10 कृष्णपुरा वार्ड 18 पटेल वार्ड 19 शास्त्री वार्ड 26 जवाहर वार्ड 28 विकास वार्ड 31 विनोबा वार्ड 32 शंकर वार्ड
4	अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड	02	2 अर्जुन वार्ड 25 रामनगर वार्ड
5	अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	02	03 दुर्गा वार्ड 04 मालवीय वार्ड
6	अन्य पिछड़ा वर्गों की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड	04	10 कृष्णपुरा वार्ड 19 शास्त्री वार्ड 26 जवाहर वार्ड 28 विकास वार्ड
7	महिलाओं के लिये (उक्त सरल क्रमांक 4, 5 व 6 के अलावा) आरक्षित वार्ड	08	06 गांधी वार्ड 08 आजाद वार्ड 09 तिलक वार्ड 12 देशबंधु वार्ड 13 अंबेडकर वार्ड 15 इंदिरा वार्ड 17 भगतसिंह वार्ड 27 गणेश वार्ड

अ.सू. 40 क्र. एफ 1-11-13-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम 7 की अपेक्षा अनुसार नगरपालिका परिषद् आमला जिला बैतूल के आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है :-

क्र. (1)	वर्ग जिसके लिए वार्ड आरक्षित किया गया (2)	कुल वार्ड (3)	आरक्षित वार्डों का क्रमांक एवं नाम (4)
1	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	04	10 सरदार वल्लभाई पटेल वार्ड 12 रविन्द्रनाथ टैगोर वार्ड 13 भीमनगर वार्ड 15 गुरूनानक वार्ड
2	अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	01	01 रैदास वार्ड
3	अन्य पिछड़ा वर्गों के लिये आरक्षित वार्ड	04	03 लालबहादुर शास्त्री वार्ड 07 डॉ. जाकिर हुसैन वार्ड 09 भगतसिंह वार्ड 18 जवाहर वार्ड
4	अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	02	13 भीमनगर वार्ड 15 गुरूनानक वार्ड
5	अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	निरंक	निरंक
6	अन्य पिछड़ा वर्गों की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड	02	03 लालबहादुर शास्त्री वार्ड 09 भगत सिंह वार्ड
7	महिलाओं के लिये (उक्त सरल क्रमांक 4, 5 व 6 के अलावा) आरक्षित वार्ड	05	04 संत विनोबा भावे वार्ड 05 छत्रसाल वार्ड 06 सुभाष वार्ड 14 शिवाजी वार्ड 16 आजाद वार्ड

अ.सू. 40 क्र. एफ 1-11-13-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम 7 की अपेक्षा अनुसार नगरपालिका परिषद् मुलताई जिला बैतूल के आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है :-

क्र. (1)	वर्ग जिसके लिए वार्ड आरक्षित किया गया (2)	कुल वार्ड (3)	आरक्षित वार्डों का क्रमांक एवं नाम (4)
1	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	02	01 ताप्ती वार्ड 12 गांधी वार्ड
2	अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	निरंक	निरंक

(1)	(2)	(3)	(4)
3	अन्य पिछड़ा वर्गों के लिये आरक्षित वार्ड	04	04 सुभाष वार्ड 05 शास्त्री वार्ड 06 गुरूसाहब वार्ड 10 आजाद वार्ड
4	अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	01	12 गांधी वार्ड
5	अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	निरंक	निरंक
6	अन्य पिछड़ा वर्गों की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड	02	04 सुभाष वार्ड 05 शास्त्री वार्ड
7	महिलाओं के लिये (उक्त सरल क्रमांक 4, 5 व 6 के अलावा) आरक्षित वार्ड	04	02 तिलक वार्ड 09 नेहरू वार्ड 11 पटेल वार्ड 15 इंदिरा गांधी वार्ड

अ.सू. 40 क्र. एफ 1-11-13-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम 7 की अपेक्षा अनुसार नगर परिषद् बैतूलबाजार जिला बैतूल के आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है :—

क्र. (1)	वर्ग जिसके लिए वार्ड आरक्षित किया गया (2)	कुल वार्ड (3)	आरक्षित वार्डों का क्रमांक एवं नाम (4)
1	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	01	15 अंबेडकर वार्ड
2	अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	01	01 शिवाजी वार्ड
3	अन्य पिछड़ा वर्गों के लिये आरक्षित कुल वार्ड	04	04 सुभाष वार्ड 09 मालवी वार्ड 11 जवाहर वार्ड 13 गांधी वार्ड
4	अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	निरंक	निरंक
5	अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	निरंक	निरंक
6	अन्य पिछड़ा वर्गों की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड	02	11 जवाहर वार्ड 13 गांधी वार्ड
7	महिलाओं के लिये (उक्त सरल क्रमांक 4, 5 व 6 के अलावा) आरक्षित वार्ड	05	02 गणेश वार्ड 05 कृष्ण वार्ड 06 विष्णु वार्ड 07 तिलक वार्ड 10 शास्त्री वार्ड

भोपाल, दिनांक 10 अक्टूबर 2014

अधि. सू. 41 क्र. एफ 1-11-13-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम 7 की अपेक्षा अनुसार नगर पालिका/नगर परिषद् रायसेन, जिला रायसेन के लिए आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है :—

क्र. (1)	वर्ग जिसके लिए वार्ड आरक्षित किया गया (2)	कुल वार्ड (3)	आरक्षित वार्डों के क्रमांक एवं नाम (4)
1	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	03	01 श्रीराम वार्ड 06 महात्मा वार्ड 11 मुखजी वार्ड
2	अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	01	18 संजय वार्ड
3	अन्य पिछड़ा वर्गों के लिये आरक्षित कुल वार्ड	05	04 नेहरू वार्ड 13 शास्त्री वार्ड 02 अमीर भाई वार्ड 07 सुभाष वार्ड 14 राहुल नगर वार्ड
4	अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	02	11 मुखर्जी नगर वार्ड 06 महात्मा वार्ड
5	अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	निरंक	निरंक
6	अन्य पिछड़ा वर्गों की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड	03	04 नेहरू वार्ड 07 सुभाष वार्ड 13 शास्त्री वार्ड
7	महिलाओं के लिये (उक्त सरल क्रमांक 4, 5 व 6 के अलावा) आरक्षित वार्ड.	04	09 चन्द्रशेखर वार्ड 17 अम्बेडकर वार्ड 08 लक्ष्मी बाई वार्ड 16 डॉ. फाखरुद्दीन वार्ड

अधि. सू. 41 क्र. एफ 1-11-13-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम 7 की अपेक्षा अनुसार नगर पालिका/नगर परिषद् बेगमगंज, जिला रायसेन के लिए आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है :—

क्र. (1)	वर्ग जिसके लिए वार्ड आरक्षित किया गया (2)	कुल वार्ड (3)	आरक्षित वार्डों के क्रमांक एवं नाम (4)
1	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	02	01 इंद्रिरा वार्ड 13 दीनदयाल उपाध्याय वार्ड
2	अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	निरंक	—

(1)	(2)	(3)	(4)
3	अन्य पिछड़ा वर्गों के लिये आरक्षित कुल वार्ड	05	02 स्वामी विवेकानंद वार्ड 06 डॉ. अम्बेडकर वार्ड 10 सरदार भगत सिंह वार्ड 12 मौलाना आजाद वार्ड 15 लाल बहादुर शास्त्री वार्ड
4	अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	01	13 दीनदयाल उपाध्याय वार्ड
5	अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	निरंक	निरंक
6	अन्य पिछड़ा वर्गों की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड	03	02 स्वामी विवेकानंद वार्ड 12 मौलाना आजाद वार्ड 15 लाल बहरादुर शास्त्री वार्ड
7	महिलाओं के लिये (उक्त सरल क्रमांक 4, 5 व 6 के अलावा) आरक्षित वार्ड	05	03 जवाहर लाल नेहरू वार्ड 05 महात्मा गांधी वार्ड 08 आचार्य कृपलानी वार्ड 17 सुभाष चंद्र बोस वार्ड 18 जयप्रकाश नारायण वार्ड

अधि. सू. 41 क्र. एफ 1-11-13-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम 7 की अपेक्षा अनुसार नगर पालिका/नगर परिषद् गैरतगंज, जिला रायसेन के लिए आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है :—

क्र. (1)	वर्ग जिसके लिए वार्ड आरक्षित किया गया (2)	कुल वार्ड (3)	आरक्षित वार्डों के क्रमांक एवं नाम (4)
1	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	02	12 डॉ. राजेन्द्र प्रसाद वार्ड 14 सरदार वल्लभ पटेल वार्ड
2	अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	निरंक	—
3	अन्य पिछड़ा वर्गों के लिये आरक्षित कुल वार्ड	04	03 भगत सिंह वार्ड 05 रानी दुर्गावती वार्ड 08 महारानी लक्ष्मी वार्ड 15 श्यामाप्रसाद मुखर्जी वार्ड
4	अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	01	12 डॉ. राजेन्द्र प्रसाद वार्ड
5	अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	निरंक	—
6	अन्य पिछड़ा वर्गों की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड	02	05 रानी दुर्गावती वार्ड 08 महारानी लक्ष्मी वार्ड

(1)	(2)	(3)	(4)
7	महिलाओं के लिये (उक्त सरल क्रमांक 4, 5 व 6 के अलावा) आरक्षित वार्ड	04	01 महात्मा गांधी वार्ड 06 चन्द्रशेखर आजाद वार्ड 09 जवाहरलाल नेहरू वार्ड 10 महाराणा प्रताप वार्ड

अधि. सू. 41 क्र. एफ 1-11-13-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम 7 की अपेक्षा अनुसार नगर पालिका/नगर परिषद् औबेदुल्लागंज, जिला रायसेन के लिए आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है :—

क्र. (1)	वर्ग जिसके लिए वार्ड आरक्षित किया गया (2)	कुल वार्ड (3)	आरक्षित वार्डों के क्रमांक एवं नाम (4)
1	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	02	03 इंदिरा गांधी वार्ड 12 नेताजी सुभाष चन्द्र बोस वार्ड
2	अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	1	07 गुरूनानक वार्ड
3	अन्य पिछड़ा वर्गों के लिये आरक्षित कुल वार्ड	04	01 महात्मा गांधी वार्ड 02 राजा भोज वार्ड 08 लाल बहादुर शास्त्री वार्ड 15 सरदार वल्लभ भाई पटेल वार्ड
4	अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	01	12 नेताजी सुभाषचंद्र बोस वार्ड
5	अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	निरंक	—
6	अन्य पिछड़ा वर्गों की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड	02	08 लाल बहादुर शास्त्री वार्ड 15 सरदार वल्लभ भाई पटेल वार्ड
7	महिलाओं के लिये (उक्त सरल क्रमांक 4, 5 व 6 के अलावा) आरक्षित वार्ड	04	05 डॉ. जाकिर हुसैन वार्ड 09 चन्द्रशेखर आजाद वार्ड 11 भीमराव अम्बेडकर वार्ड 13 महाराणा प्रताप वार्ड

अधि. सू. 41 क्र. एफ 1-11-13-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम 7 की अपेक्षा अनुसार नगर पालिका/नगर परिषद् सिलवानी, जिला रायसेन के लिए आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है :—

क्र. (1)	वर्ग जिसके लिए वार्ड आरक्षित किया गया (2)	कुल वार्ड (3)	आरक्षित वार्डों के क्रमांक एवं नाम (4)
1	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	01	03 भीमराव अम्बेडकर वार्ड
2	अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	01	01 शास्त्री नगर वार्ड

(1)	(2)	(3)	(4)
3	अन्य पिछड़ा वर्गों के लिये आरक्षित कुल वार्ड	04	04 शिवाजी नगर वार्ड 07 गाँधी नगर वार्ड 11 नेताजी सुभाष चन्द्र बोस वार्ड 13 पंडित दीनदयाल वार्ड
4	अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	निरंक	—
5	अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	निरंक	—
6	अन्य पिछड़ा वर्गों की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड	02	07 गांधी नगर वार्ड 13 पंडित दीनदयाल उपाध्याय वार्ड
7	महिलाओं के लिये (उक्त सरल क्रमांक 4, 5 व 6 के अलावा) आरक्षित वार्ड	05	02 इंद्रिरा नगर वार्ड 05 भगत सिंह वार्ड 10 रानी दुर्गावती वार्ड 14 सरस्वती नगर वार्ड 15 महावीर नगर वार्ड

अधि. सू. 41 क्र. एफ 1-11-13-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम 7 की अपेक्षा अनुसार नगर पालिका/नगर परिषद् उदयपुरा, जिला रायसेन के लिए आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है :—

क्र. (1)	वर्ग जिसके लिए वार्ड आरक्षित किया गया (2)	कुल वार्ड (3)	आरक्षित वार्डों के क्रमांक एवं नाम (4)
1	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	02	09 महात्मा गांधी वार्ड 10 सुभाष वार्ड
2	अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	निरंक	—
3	अन्य पिछड़ा वर्गों के लिये आरक्षित कुल वार्ड	04	03 संजय वार्ड 08 शिवाजी वार्ड 13 गुरुगोविन्द वार्ड 14 पंडित दीनदयाल उपाध्याय वार्ड
4	अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	01	10 सुभाष वार्ड
5	अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	निरंक	—
6	अन्य पिछड़ा वर्गों की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड	02	03 संजय वार्ड 14 पंडित दीनदयाल उपाध्याय वार्ड
7	महिलाओं के लिये (उक्त सरल क्रमांक 4, 5 व 6 के अलावा) आरक्षित वार्ड	04	01 संतोषी माता वार्ड 02 भगत सिंह वार्ड 07 संत रहदास वार्ड 11 डॉ. अम्बेडकर वार्ड



अधि. सू. 41 क्र. एफ 1-11-13-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम 7 की अपेक्षा अनुसार नगर पालिका/नगर परिषद् बरेली, जिला रायसेन के लिए आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है :-

क्र. (1)	वर्ग जिसके लिए वार्ड आरक्षित किया गया (2)	कुल वार्ड (3)	आरक्षित वार्डों के क्रमांक एवं नाम (4)
1	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	02	02 मौलाना आजाद वार्ड 15 पं. जवाहर लाल नेहरू वार्ड
2	अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	निरंक	—
3	अन्य पिछड़ा वर्गों के लिये आरक्षित कुल वार्ड	04	03 महात्मा गांधी वार्ड 06 सिविल वार्ड 08 गल्ला मण्डी वार्ड 14 डॉ. अम्बेडकर वार्ड
4	अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	01	02 मौलाना आजाद वार्ड
5	अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	निरंक	—
6	अन्य पिछड़ा वर्गों की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड	02	03 महात्मा गांधी वार्ड 06 सिविल वार्ड
7	महिलाओं के लिये (उक्त सरल क्रमांक 4. 5 व 6 के अलावा) आरक्षित वार्ड	04	04 साकेत नगर वार्ड 07 सरदार पटेल वार्ड 09 बिदुआ कालोनी वार्ड 12 तिलक वार्ड

अधि. सू. 41 क्र. एफ 1-11-13-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम 7 की अपेक्षा अनुसार नगर पालिका/नगर परिषद् बाड़ी, जिला रायसेन के लिए आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है :-

क्र. (1)	वर्ग जिसके लिए वार्ड आरक्षित किया गया (2)	कुल वार्ड (3)	आरक्षित वार्डों के क्रमांक एवं नाम (4)
1	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	02	05 डॉ. भीमराव अम्बेडकर वार्ड 10 पं. जवाहर लाल नेहरू वार्ड
2	अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	1	03 महाराणा प्रताप वार्ड
3	अन्य पिछड़ा वर्गों के लिये आरक्षित कुल वार्ड	04	06 महात्मा गांधी वार्ड 07 गुरूनानक वार्ड 11 कवि कालीदास वार्ड 14 बजीरगंज वार्ड

(1)	(2)	(3)	(4)
4	अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	01	10 पंडित जवाहर लाल नेहरू वार्ड
5	अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	निरंक	—
6	अन्य पिछड़ा वर्गों की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड	02	11 कवि कालीदास वार्ड 14 बजीरगंज वार्ड
7	महिलाओं के लिये (उक्त सरल क्रमांक 4, 5 व 6 के अलावा) आरक्षित वार्ड	04	01 मंदिर वार्ड 02 पीर फतेह उल्ला वार्ड 04 चंद्रशेखर आजाद वार्ड 09 राजेन्द्र प्रसाद वार्ड

अधि. सू. 41 क्र. एफ 1-11-13-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम 7 की अपेक्षा अनुसार नगर पालिका/नगर परिषद् सुल्तानपुर, जिला रायसेन के लिए आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है :—

क्र. (1)	वर्ग जिसके लिए वार्ड आरक्षित किया गया (2)	कुल वार्ड (3)	आरक्षित वार्डों के क्रमांक एवं नाम (4)
1	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	02	05 नेहरू वार्ड 09 जवाहर वार्ड
2	अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	03	10 मौ. कलाम वार्ड 13 इंदिरा वार्ड 15 मोती वार्ड
3	अन्य पिछड़ा वर्गों के लिये आरक्षित कुल वार्ड	03	03 शास्त्री वार्ड 06 गांधी वार्ड 07 महाराणा प्रताप वार्ड
4	अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	01	05 नेहरू वार्ड
5	अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	02	10 मौ. कलाम वार्ड 15 मोती वार्ड
6	अन्य पिछड़ा वर्गों की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड	02	06 गांधी वार्ड 07 महाराणा प्रताप वार्ड
7	महिलाओं के लिये (उक्त सरल क्रमांक 4, 5 व 6 के अलावा) आरक्षित वार्ड	02	01 आजाद वार्ड 08 दीनदयाल वार्ड

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
के. के. कातिया, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 10 अक्टूबर 2014

अधि.सू. 42 क्र. एफ 1-11-2013-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम 7 की अपेक्षा अनुसार नगर पालिक निगम सागर, जिला सागर के लिए आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है :—

क्र. (1)	वर्ग जिसके लिए आरक्षण किया गया (2)	कुल वार्ड (3)	आरक्षित वार्ड के क्रमांक व नाम (4)
1	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	10	15 भगवानगंज वार्ड 16 विठ्ठलनगर वार्ड 37 संतकबीर वार्ड 48 अम्बेडकर वार्ड 44 काकागंज वार्ड 18 सुभाषनगर वार्ड 17 गुरुगोविंद सिंह वार्ड 22 संतरविदास वार्ड 24 वल्लभनगर वार्ड 45 पंतनगर वार्ड
2	अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	01	04 मधुकरशाह वार्ड
3	अन्य पिछड़ा वर्गों के लिये आरक्षित कुल वार्ड	12	32 रविशंकर वार्ड 07 वृन्दावन वार्ड 40 चकराघाट वार्ड 26 चन्द्रशेखर वार्ड 35 राजीव नगर वार्ड 21 संतकवरराम वार्ड 33 नरयावली नाका वार्ड 08 कृष्णगंज वार्ड 02 इन्द्रानगर वार्ड 19 तुलसीनगर वार्ड 23 भगतसिंह वार्ड 10 परकोटा वार्ड
4	अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	05	44 काकागंज वार्ड 18 सुभाष नगर वार्ड 45 पंतनगर वार्ड 37 संतकबीर वार्ड 16 विठ्ठलनगर वार्ड
5	अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड	निरंक	निरंक
6	अन्य पिछड़ा वर्गों की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	06	02 इन्द्रानगर वार्ड 10 परकोटा वार्ड 26 चन्द्रशेखर वार्ड

(1)	(2)	(3)	(4)
			35 राजीवनगर वार्ड
			32 रविशंकर वार्ड
			23 भगतसिंह वार्ड
7	महिलाओं के लिये (उक्त सरल क्रमांक 4, 5 व 6 के अलावा) आरक्षित वार्ड	13	6 गोपालगंज वार्ड
			9 शनीचरी वार्ड
			11 लाजपतपुरा वार्ड
			14 तिलकगंज वार्ड
			27 कटरा वार्ड
			29 रामपुरा वार्ड
			30 इतवारी वार्ड
			34 मोहननगर वार्ड
			36 विवेकानंद वार्ड
			46 तिली वार्ड
			47 बाघराज वार्ड
			5 शिवाजी नगर वार्ड
			1 डॉ. हरिसिंह गौर वार्ड

अधि.सू. 42 क्र. एफ 1-11-2013-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम 7 की अपेक्षा अनुसार नगरपालिका परिषद् खुरई, जिला सागर के लिए आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है :—

क्र. (1)	वर्ग जिसके लिए आरक्षण किया गया (2)	कुल वार्ड (3)	आरक्षित वार्ड के क्रमांक व नाम (4)
1	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	7	19 जगजीवनराम वार्ड 9 महात्मा गांधी वार्ड 5 अम्बेडकर वार्ड 21 लाल बहादुर शास्त्री वार्ड 23 मौलाना अबुल कलाम वार्ड 18 संतरविदास वार्ड 25 श्यामाप्रसाद मुखर्जी वार्ड
2	अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	1	22 श्रीमंत सेठ ऋषभ कुमार जैन वार्ड
3	अन्य पिछड़ा वर्गों के लिये आरक्षित कुल वार्ड	7	16 पं. कृष्णचंद्र शर्मा वार्ड 15 रानीदुर्गावती वार्ड 12 सुभाष वार्ड 7 गुरूनानक वार्ड 11 अब्दुल हमीद वार्ड 27 वीरांगना सहोदराबाई राय वार्ड 14 बिहारीजी वार्ड

(1)	(2)	(3)	(4)
4	अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	04	19 जगजीवनराम वार्ड 21 लाल बहादुर शास्त्री वार्ड 18 संतरविदास वार्ड 25 श्यामाप्रसाद मुखर्जी वार्ड
5	अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड	निरंक	निरंक
6	अन्य पिछड़ा वर्गों की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	04	07 गुरूनानक वार्ड 12 सुभाष वार्ड 14 बिहारीजी वार्ड 27 वीरांगना सहोद्राबाई राय वार्ड
7	महिलाओं के लिये आरक्षित वार्ड (उक्त सरल क्रमांक 4, 5 व 6 के अलावा) आरक्षित वार्ड.	06	4 रविन्द्रनाथ टैगोर वार्ड 17 कबीर वार्ड 1 पं. जवाहर लाल नेहरू वार्ड 20 महावीर वार्ड 13 महाराणा प्रताप वार्ड 10 शिवाजी वार्ड

अधि.सू. 42 क्र. एफ 1-11-2013-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम 7 की अपेक्षा अनुसार नगरपालिका परिषद् बीना इटावा, जिला सागर के लिए आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है :-

क्र. (1)	वर्ग जिसके लिए वार्ड आरक्षित किया गया (2)	कुल वार्ड (3)	आरक्षित वार्ड के क्रमांक व नाम (4)
1	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित वार्ड	6	21 भीम वार्ड 15 शिवाजी वार्ड 22 गनेश वार्ड 19 गांधी वार्ड 18 शिव वार्ड 2 मढ़िया वार्ड
2	अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित वार्ड	निरंक	निरंक
3	अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षित वार्ड	06	1 प्रताप वार्ड 3 खिरिया वार्ड 10 पाठक वार्ड 20 राजीव गांधी वार्ड 23 इंदिरा गांधी वार्ड 9 आचवल वार्ड
4	अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिये आरक्षित वार्ड	03	2 मढ़िया वार्ड 18 शिव वार्ड 22 गनेश वार्ड

(1)	(2)	(3)	(4)
5	अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित वार्ड	निरंक	निरंक
6	अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिये आरक्षित वार्ड	03	10 पाठक वार्ड 20 राजीव गांधी वार्ड 23 इंदिरा गांधी वार्ड
7	महिलाओं के लिये आरक्षित वार्ड (उक्त सरल क्रमांक 4, 5 व 6 के अलावा).	07	6 जवाहर वार्ड 8 वीर सावरकर वार्ड 11 मनोरमा वार्ड 13 बिलगैया वार्ड 24 नानक वार्ड 17 राम वार्ड 5 कटरा वार्ड

अधि.सू. 42 क्र. एफ 1-11-2013-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम 7 की अपेक्षा अनुसार नगरपालिका परिषद् रहली, जिला सागर के लिए आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है :-

क्र.	वर्ग जिसके लिए आरक्षण किया गया	कुल वार्ड	आरक्षित वार्ड के क्रमांक व नाम
(1)	(2)	(3)	(4)
1	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	3	1 बजरंग वार्ड 12 अम्बेडकर वार्ड 5 महात्मा गांधी वार्ड
2	अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	निल	निल
3	अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षित कुल वार्ड	04	4 इंदिरा गांधी वार्ड 14 महावीर वार्ड 2 जवाहरलाल नेहरू वार्ड 15 विध्याचंल वार्ड
4	अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	02	1 बजरंग वार्ड 12 अम्बेडकर वार्ड
5	अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड	निल	निल
6	अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	02	4 इंदिरा गांधी वार्ड 15 विध्याचंल वार्ड
7	महिलाओं के लिये (उक्त सरल क्रमांक 4, 5 व 6 के अलावा) आरक्षित वार्ड.	4	10 जगदीश वार्ड 9 रामेश्वर वार्ड 7 सरोजनी नायडू वार्ड 8 स्वामी विवेकानंद वार्ड

अधि.सू. 42 क्र. एफ 1-11-2013-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम 7 की अपेक्षा अनुसार नगरपालिका परिषद् देवरी, जिला सागर के लिए आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है :—

क्र. (1)	वर्ग जिसके लिए आरक्षित किया गया है (2)	कुल वार्ड (3)	आरक्षित वार्ड के क्रमांक व नाम (4)
1	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित वार्ड	2	2 अम्बेडकर वार्ड 14 पटैल वार्ड
2	अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित वार्ड	निरंक	निरंक
3	अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षित वार्ड	4	7 कौशलकिशोर वार्ड 8 सुभाष वार्ड 12 सुखचैन वार्ड 11 गांधी वार्ड
4	अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिये आरक्षित वार्ड	1	14 पटैल वार्ड
5	अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित वार्ड	निरंक	निरंक
6	अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिये आरक्षित वार्ड	2	7 कौशलकिशोर वार्ड 8 सुभाष वार्ड
7	महिलाओं के लिये (उक्त सरल क्रमांक 4, 5 व 6 के अलावा) आरक्षित वार्ड	5	1 बाजार वार्ड 3 शास्त्री वार्ड 4 तिलक वार्ड 9 महाकाली वार्ड 15 झुनकू वार्ड

अधि.सू. 42 क्र. एफ 1-11-2013-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम 7 की अपेक्षा अनुसार नगरपालिका परिषद् गढाकोटा, जिला सागर, म.प्र. के लिए आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है :—

क्र. (1)	वर्ग जिसके लिए आरक्षित किया गया (2)	कुल वार्ड (3)	आरक्षित वार्ड के क्रमांक व नाम (4)
1	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	3	12 अम्बेडकर वार्ड 3 कमला नेहरू वार्ड 4 टैगोर वार्ड
2	अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	निरंक	निरंक
3	अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षित कुल वार्ड	5	9 बजरंग वार्ड 17 साबूलाल वार्ड 2 गांधी वार्ड 5 विवेकानंद वार्ड 7 भगतसिंह वार्ड

(1)	(2)	(3)	(4)
4	अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	02	3 कमला नेहरू वार्ड 12 अम्बेडकर वार्ड
5	अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड	निरंक	निरंक
6	अन्य पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	03	9 बजरंग वार्ड 2 गांधी वार्ड 5 विवेकानंद वार्ड
7	महिलाओं के लिये (उक्त सरल क्रमांक 4, 5 व 6 के अलावा) आरक्षित वार्ड	04	13 महाराणा प्रताप वार्ड 16 तिलक वार्ड 8 जगदीश वार्ड 1 जवाहर वार्ड

अधि.सू. 42 क्र. एफ 1-11-2013-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम 7 की अपेक्षा अनुसार नगर परिषद् बण्डा, जिला सागर के लिए आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है :—

क्र. (1)	वर्ग जिसके लिए आरक्षित किया गया है (2)	कुल वार्ड (3)	आरक्षित वार्ड के क्रमांक व नाम (4)
1	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित वार्ड	03	15 डॉ. अम्बेडकर वार्ड 6 जवाहरलाल वार्ड 5 लालबहादुर शास्त्री वार्ड
2	अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित वार्ड	निरंक	निरंक
3	अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षित वार्ड	4	4 इंदिरा गांधी वार्ड 7 पंचमुखी हनुमान वार्ड 8 डॉ. जाकिर हुसैन वार्ड 9 महावीर वार्ड
4	अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिये आरक्षित वार्ड	02	5 लालबहादुर शास्त्री वार्ड 6 जवाहरलाल वार्ड
5	अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित वार्ड	निरंक	निरंक
6	अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	02	7 पंचमुखी हनुमान वार्ड 8 डॉ. जाकिर हुसैन वार्ड
7	महिलाओं के लिये (उक्त सरल क्रमांक 4, 5 व 6 के अलावा) आरक्षित वार्ड	04	2 राजीव गांधी वार्ड 11 डॉ. सर हरीसिंह गौर वार्ड 13 पंचमढ़ी वार्ड 3 संजय गांधी वार्ड



अधि.सू. 42 क्र. एफ 1-11-2013-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम 7 की अपेक्षा अनुसार नगर परिषद् राहतगढ़, जिला सागर के लिए आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है :—

स. क्र. (1)	वर्ग जिसके लिए आरक्षित किया गया है (2)	कुल वार्ड (3)	आरक्षित वार्ड के क्रमांक व नाम (4)
1	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित वार्ड	03	1 महावीर वार्ड 4 महात्मा गांधी वार्ड 15 इंदिरा गांधी वार्ड
2	अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित वार्ड	निरंक	निरंक
3	अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षित वार्ड	04	8 राममनोहर लोहिया वार्ड 6 चंद्रशेखर आजाद वार्ड 7 अशोक वार्ड 12 महारानी लक्ष्मीबाई वार्ड
4	अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिये आरक्षित वार्ड	02	1 महावीर वार्ड 15 इंदिरा गांधी वार्ड
5	अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित वार्ड	निरंक	निरंक
6	अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिये आरक्षित वार्ड	02	07 अशोक वार्ड 8 राम मनोहर लोहिया वार्ड
7	महिलाओं के लिये आरक्षित वार्ड (उक्त सरल क्रमांक 4, 5 व 6 के अलावा).	04	3 सुभाष चंद बोस वार्ड 5 पं. सेठोलेप्रसाद भाटिया वार्ड 11 जहाँगीर वार्ड 13 शिवाजी वार्ड

अधि.सू. 42 क्र. एफ 1-11-2013-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम 7 की अपेक्षा अनुसार नगर परिषद् शाहगढ़, जिला सागर के लिए आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है :—

स. क्र. (1)	वर्ग जिसके लिए आरक्षित किया गया (2)	कुल वार्ड (3)	आरक्षित वार्ड के क्रमांक व नाम (4)
1	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	03	9 डॉ. अम्बेडकर वार्ड 10 बाल्मीकि वार्ड 1 सुभाषचंद बोस वार्ड
2	अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	01	4 रानी लक्ष्मीबाई वार्ड
3	अन्य पिछड़ा वर्गों के लिये आरक्षित कुल वार्ड	04	11 महात्मा गांधी वार्ड 13 महाराजा बखतबली शाह वार्ड 14 चंद्रशेखर आजाद वार्ड वार्ड 6 इंदिरा प्रियदर्शनी वार्ड

(1)	(2)	(3)	(4)
4	अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	2	1 सुभाषचंद बोस वार्ड 10 बाल्मीकि वार्ड
5	अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड	निरंक	निरंक
6	अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	2	11 महात्मा गांधी वार्ड 13 महाराजा बखतबली शाह वार्ड
7	महिलाओं के लिये (उक्त सरल क्रमांक 4, 5 व 6 के अलावा) आरक्षित वार्ड	4	2 भगत सिंह वार्ड 3 महाराणा प्रताप वार्ड 5 लाल बहादुर शास्त्री वार्ड 8 सरदार पटेल वार्ड

अधि.सू. 42 क्र. एफ 1-11-2013-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम 7 की अपेक्षा अनुसार नगर परिषद् शाहपुर, जिला सागर के लिए आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है :-

क्र. (1)	वर्ग जिसके लिए आरक्षित किया गया है (2)	कुल वार्ड (3)	आरक्षित वार्ड के क्रमांक व नाम (4)
1	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित वार्ड	3	9 अम्बेडकर वार्ड 6 इंदिरा गांधी वार्ड 7 बजरंग वार्ड
2	अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित वार्ड	2	13 श्रीराम वार्ड 14 भगत सिंह वार्ड
3	अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षित वार्ड	4	15 लाल बहादुर शास्त्री वार्ड 4 संत गरीबदास वार्ड 5 संत रविदास वार्ड 12 कृष्णा वार्ड
4	अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिये आरक्षित वार्ड	2	6 इंदिरा गांधी वार्ड 9 अम्बेडकर वार्ड
5	अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित वार्ड	1	13 श्रीराम वार्ड
6	अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिये आरक्षित वार्ड	2	15 लालबहादुर शास्त्री वार्ड 4 गरीबदास वार्ड
7	महिलाओं के लिये (उक्त सरल क्रमांक 4, 5 व 6 के अलावा) आरक्षित वार्ड.	3	3 जवाहरलाल नेहरू वार्ड 10 सुभाष वार्ड 11 चन्द्रशेखर आजाद वार्ड

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
के. के. कातिया, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 10 अक्टूबर 2014

अधि.सू. 43 क्र. एफ 1-11-2013-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम 7 की अपेक्षानुसार नगरपालिका परिषद् दमोह, जिला दमोह के लिए आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है :—

स. क्र. (1)	वर्ग जिसके लिए आरक्षित किया गया (2)	कुल वार्ड (3)	आरक्षित वार्ड के क्रमांक व नाम (4)
1	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	8	34 आजाद वार्ड 38 कस्तूरबा वार्ड 16 जगजीवनराम वार्ड 35 डॉ. राजेन्द्र प्रसाद वार्ड 33 किदवई वार्ड 19 बाल्मीकि वार्ड 36 रानी दमयंती बाई वार्ड 20 भीमराव अंबेडकर वार्ड
2	अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	1	6 छत्रसाल वार्ड
3	अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षित कुल वार्ड	10	21 भरत वार्ड 30 जयप्रकाश नारायण वार्ड 4 संजय वार्ड 8 कृष्णा वार्ड 18 लाला लाजपतराय वार्ड 26 गुरू गोविंद सिंह वार्ड 23 गोविंद वल्लभपंत वार्ड 32 सुभाष वार्ड 2 रानी दुर्गावती वार्ड 12 महाराणा प्रताप वार्ड
4	अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	4	38 कस्तूरबा वार्ड 16 जगजीवनराम वार्ड 35 डॉ. राजेन्द्र प्रसाद वार्ड 36 रानी दमयंती बाई वार्ड
5	अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड	निरंक	निरंक
6	अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	5	4 संजय वार्ड 2 रानी दुर्गावती वार्ड 12 महाराणा प्रताप वार्ड 18 लाला लाजपतराय वार्ड 8 कृष्णा वार्ड

(1)	(2)	(3)	(4)
7	महिलाओं के लिये (उक्त सरल क्रमांक 4, 5 व 6 के अलावा) आरक्षित वार्ड.	11	14 सरदार भगतसिंह वार्ड 13 सरदार पटैल वार्ड 39 पृथ्वीराज वार्ड 10 गुरूनानक वार्ड 37 साकेत वार्ड 24 शिवाजी वार्ड 11 जवाहर वार्ड 3 लालबहादुर शास्त्री वार्ड 17 महात्मा गांधी वार्ड 27 तिलक वार्ड 7 रानी अवंतीबाई वार्ड

अधि.सू. 43 क्र. एफ 1-11-2013-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम 7 की अपेक्षानुसार नगरपालिका परिषद् हटा, जिला दमोह के लिए आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है :—

क्र. (1)	वर्ग जिसके लिए आरक्षित किया गया (2)	कुल वार्ड (3)	आरक्षित वार्ड के क्रमांक व नाम (4)
1	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	3	1 गौरीशंकर वार्ड 14 गांधी वार्ड 15 नवोदय वार्ड
2	अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	निरंक	निरंक
3	अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षित कुल वार्ड	4	7 सुभाष वार्ड 12 आजाद वार्ड 10 डॉ. लक्ष्मीप्रसाद रमाकवि वार्ड 5 हजारी वार्ड
4	अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	2	14 गांधी वार्ड 15 नवोदय वार्ड
5	अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड	निरंक	निरंक
6	अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	2	10 डॉ. लक्ष्मीप्रसाद रमाकवि वार्ड 12 आजाद वार्ड
7	महिलाओं के लिये (उक्त सरल क्रमांक 4, 5 व 6 के अलावा) आरक्षित वार्ड.	4	6 बालाजी बिहारी वार्ड 13 लालबहादुर शास्त्री वार्ड 2 रामगोपालजी वार्ड 11 कमला नेहरू वार्ड

अधि.सू. 43 क्र. एफ 1-11-2013-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम 7 की अपेक्षानुसार नगर परिषद् पथरिया, जिला दमोह के लिए आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है :—

क्र. (1)	वर्ग जिसके लिए आरक्षित किया गया (2)	कुल वार्ड (3)	आरक्षित वार्ड के क्रमांक व नाम (4)
1	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	3	14 इंदिरा गांधी वार्ड 5 अम्बेडकर वार्ड 7 महात्मा गांधी वार्ड
2	अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	निरंक	निरंक
3	अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षित कुल वार्ड	4	15 माधवराव सप्रे वार्ड 13 पं. रविशंकर शुक्ल वार्ड 11 वीर शिवाजी वार्ड 6 महावीर वार्ड
4	अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	2	14 इंदिरा गांधी वार्ड 5 अम्बेडकर वार्ड
5	अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड	निरंक	निरंक
6	अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	2	13 पं. रविशंकर शुक्ल वार्ड 6 महावीर वार्ड
7	महिलाओं के लिये (उक्त सरल क्रमांक 4, 5 व 6 के अलावा) आरक्षित वार्ड.	4	2 नेताजी सुभाषचंद्र वार्ड 8 विवेकानंद वार्ड 9 महारानी लक्ष्मीबाई वार्ड 10 महाराणा प्रताप वार्ड

अधि.सू. 43 क्र. एफ 1-11-2013-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम 7 की अपेक्षानुसार नगर परिषद् हिण्डोरिया, जिला दमोह के लिए आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है :—

क्र. (1)	वर्ग जिसके लिए आरक्षित किया गया (2)	कुल वार्ड (3)	आरक्षित वार्ड के क्रमांक व नाम (4)
1	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	3	10 डॉ. भीमराव अम्बेडकर 2 पं. जवाहरलाल नेहरू वार्ड 11 महात्मा गांधी वार्ड
2	अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	1	1 चंद्रशेखर वार्ड
3	अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षित कुल वार्ड	4	8 डॉ. जाकिर हुसैन वार्ड 13 लालबहादुर शास्त्री वार्ड 5 संजय गांधी वार्ड 9 विनोबा भावे वार्ड

(1)	(2)	(3)	(4)
4	अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	2	2 पं. जवाहरलाल नेहरू वार्ड 10 डॉ. भीमराव अम्बेडकर वार्ड
5	अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड	निरंक	निरंक
6	अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	2	5 संजय गांधी वार्ड 9 विनोबा भावे वार्ड
7	महिलाओं के लिये (उक्त सरल क्रमांक 4, 5 व 6 के अलावा) आरक्षित वार्ड.	4	3 राजीव गांधी वार्ड 7 मौलाना अब्दुल कलाम आजाद वार्ड 12 रघुराज वार्ड 4 भगतसिंह वार्ड

अधि.सू. 43 क्र. एफ 1-11-2013-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम 7 की अपेक्षानुसार नगर परिषद् तेंदूखेड़ा, जिला दमोह के लिए आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है :—

क्र. (1)	वर्ग जिसके लिए आरक्षित किया गया (2)	कुल वार्ड (3)	आरक्षित वार्ड के क्रमांक व नाम (4)
1	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	2	9 डॉ. राजेन्द्र प्रसाद वार्ड 5 महाराणा प्रताप वार्ड
2	अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	1	8 लालबहादुर शास्त्री वार्ड
3	अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षित कुल वार्ड	4	10 श्रीराम वार्ड 11 जवाहरलाल नेहरू वार्ड 6 सुभाषचंद्र वार्ड 1 इंदिरा गांधी वार्ड
4	अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	1	5 महाराणा प्रताप वार्ड
5	अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड	निरंक	निरंक
6	अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	2	6 सुभाषचंद्र वार्ड 1 इंदिरा गांधी वार्ड
7	महिलाओं के लिये (उक्त सरल क्रमांक 4, 5 व 6 के अलावा) आरक्षित वार्ड.	4	7 शिवाजी वार्ड 3 चंद्रशेखर वार्ड 2 महात्मा गांधी वार्ड 14 सरदार भगतसिंह वार्ड

अधि.सू. 43 क्र. एफ 1-11-2013-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम 7 की अपेक्षानुसार नगर परिषद् पटेरा, जिला दमोह के लिए आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है :—

क्र. (1)	वर्ग जिसके लिए आरक्षित किया गया (2)	कुल वार्ड (3)	आरक्षित वार्ड के क्रमांक व नाम (4)
1	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	4	2 महात्मा गांधी वार्ड 14 भीमराव अम्बेडकर वार्ड 7 विनोबा भावे वार्ड 13 शहीद भगतसिंह वार्ड
2	अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	2	15 रानी दुर्गावती वार्ड 9 मौलाना अब्दुल कलाम वार्ड
3	अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षित कुल वार्ड	3	1 चन्द्रशेखर वार्ड 11 सरदार वल्लभभाई पटेल वार्ड 6 लालबहादुर शास्त्री वार्ड
4	अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	2	13 शहीद भगतसिंह वार्ड 14 भीमराव अम्बेडकर वार्ड
5	अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड	1	9 मौलाना अब्दुल कलाम वार्ड
6	अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	2	11 सरदार वल्लभभाई पटेल वार्ड 6 लाल बहादुर शास्त्री वार्ड
7	महिलाओं के लिये (उक्त सरल क्रमांक 4, 5 व 6 के अलावा) आरक्षित वार्ड.	3	5 दीनदयाल उपाध्याय वार्ड 4 डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी वार्ड 3 पं. जवाहरलाल नेहरू वार्ड

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
के. के. कातिया, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 10 अक्टूबर 2014

अधि.सू. 44 क्र. एफ 1-11-2013-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम 7 की अपेक्षानुसार नगरपालिका परिषद् छतरपुर, जिला छतरपुर के आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है :—

क्र. (1)	वर्ग जिसके लिए आरक्षण किया गया (2)	कुल वार्ड (3)	आरक्षित वार्डों के क्रमांक व नाम (4)
1	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	5	18 वीरांगना अवन्ती बाई वार्ड 37 छत्रसाल वार्ड 12 डॉ. अम्बेडकर वार्ड 30 संत रविदास वार्ड 5 वीर सावरकर वार्ड

(1)	(2)	(3)	(4)
2	अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	निरंक	निरंक
3	अन्य पिछड़ा वर्गों के लिये आरक्षित कुल वार्ड	10	1 महारानी दुर्गावती वार्ड 7 संजय गांधी वार्ड 15 लक्ष्मी बाई वार्ड 16 किदवई वार्ड 26 चित्रगुप्त वार्ड 13 मालवीय वार्ड 9 विवेकानंद वार्ड 21 विनोबा भावे वार्ड 23 सुभाष वार्ड 8 संत तुलसीदास वार्ड
4	अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	3	12 डॉ. अम्बेडकर वार्ड 30 संत रविदास वार्ड 5 वीर सावरकर वार्ड
5	अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड	निरंक	निरंक
6	अन्य पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	5	13 मालवीय वार्ड 9 विवेकानंद वार्ड 21 विनोबा भावे वार्ड 23 सुभाष वार्ड 8 संत तुलसीदास वार्ड
7	महिलाओं के लिये (उक्त सरल क्रमांक 4, 5 व 6 के अलावा) आरक्षित वार्ड.	12	2 कुशाभाऊ ठाकरे वार्ड 3 डॉ. राजेन्द्र प्रसाद वार्ड 6 लोहिया वार्ड 17 भवानी सिंह जू देव वार्ड 19 महाराणा प्रताप वार्ड 24 शिवाजी वार्ड 25 अब्दुल रहमान वार्ड 27 सिद्धेश्वर वार्ड 31 ठक्कर बाबा वार्ड 32 लालबहादुर शास्त्री वार्ड 34 सरस्वती वार्ड 36 रविन्द्र नाथ टैगोर वार्ड



अधि.सू. 44 क्र. एफ 1-11-2013-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम 7 की अपेक्षानुसार नगरपालिका परिषद् नौगांव, जिला छतरपुर के आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है :—

क्र. (1)	वर्ग जिसके लिए आरक्षण किया गया (2)	कुल वार्ड (3)	आरक्षित वार्डों के क्रमांक व नाम (4)
1	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	3	18 अम्बेडकर वार्ड 17 रानी लक्ष्मी बाई वार्ड 19 मातेश्वरी वार्ड
2	अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	निरंक	निरंक
3	अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षित कुल वार्ड	5	5 दूल्हाबाबा वार्ड 20 महात्मा गांधी वार्ड 1 शिवाजी वार्ड 2 सरदार पटेल वार्ड 15 सुभाष वार्ड
4	अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	2	17 रानी लक्ष्मी बाई वार्ड 19 मातेश्वरी वार्ड
5	अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड	निरंक	निरंक
6	अन्य पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	3	1 शिवाजी वार्ड 2 सरदार पटेल वार्ड 15 सुभाष वार्ड
7	महिलाओं के लिये (उक्त सरल क्रमांक 4, 5 व 6 के अलावा) आरक्षित वार्ड.	5	7 गुरूनानक वार्ड 9 राजेन्द्र वार्ड 12 बिहारी जू वार्ड 13 मदन मोहन मालवीय वार्ड 14 चन्द्रशेखर वार्ड

अधि.सू. 44 क्र. एफ 1-11-2013-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम 7 की अपेक्षानुसार नगरपालिका परिषद् महाराजपुर, जिला छतरपुर के आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है :—

क्र. (1)	वर्ग जिसके लिए आरक्षण किया गया (2)	कुल वार्ड (3)	आरक्षित वार्डों के क्रमांक व नाम (4)
1	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	3	12 रविदास वार्ड 3 लाला बहादुर शास्त्री वार्ड 9 महात्मा गांधी वार्ड

(1)	(2)	(3)	(4)
2	अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	निरंक	निरंक
3	अन्य पिछड़ा वर्गों के लिये आरक्षित कुल वार्ड	4	2 शिवाजी वार्ड 7 भगत सिंह वार्ड 4 जवाहरलाल नेहरू वार्ड 11 चन्द्रशेखर वार्ड
4	अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	2	3 लालबहादुर शास्त्री वार्ड 9 महात्मा गांधी वार्ड
5	अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड	निरंक	निरंक
6	अन्य पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	2	4 जवाहरलाल नेहरू वार्ड 11 चन्द्रशेखर वार्ड
7	महिलाओं के लिये (उक्त सरल क्रमांक 4, 5 व 6 के अलावा) आरक्षित वार्ड.	4	5 विवेकानंद वार्ड 6 बजरंग वार्ड 13 हरदौल वार्ड 15 सावरी वार्ड

अधि.सू. 44 क्र. एफ 1-11-2013-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम 7 की अपेक्षानुसार नगर परिषद् हरपालपुर, जिला छतरपुर के लिए आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है :—

क्र. (1)	वर्ग जिसके लिए आरक्षण किया गया (2)	कुल वार्ड (3)	आरक्षित वार्डों के क्रमांक व नाम (4)
1	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	3	13 सुभाष वार्ड 3 मुखर्जी वार्ड 15 महात्मा गांधी वार्ड
2	अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	निरंक	निरंक
3	अन्य पिछड़ा वर्गों के लिये आरक्षित कुल वार्ड	4	5 लोहिया वार्ड 6 नेहरू वार्ड 2 अम्बेडकर वार्ड 10 सरस्वती वार्ड
4	अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	2	3 मुखर्जी वार्ड 15 महात्मा गांधी वार्ड
5	अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड	निरंक	निरंक
6	अन्य पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	2	2 अम्बेडकर वार्ड 10 सरस्वती वार्ड

(1)	(2)	(3)	(4)
7	महिलाओं के लिये (उक्त सरल क्रमांक 4, 5 व 6 के अलावा) आरक्षित वार्ड.	4	8 रघुराजगंज वार्ड 9 राजीव गांधी वार्ड 11 दुर्गा वार्ड 14 इंदिरा वार्ड

अधि.सू. 44 क्र. एफ 1-11-2013-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम 7 की अपेक्षानुसार नगर परिषद् लवकुशनगर (लौंडी), जिला छतरपुर के लिए आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है :—

क्र. (1)	वर्ग जिसके लिए आरक्षण किया गया (2)	कुल वार्ड (3)	आरक्षित वार्डों के क्रमांक व नाम (4)
1	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	4	1 लवकुश वार्ड 3 भीमराव अम्बेडकर वार्ड 7 बाल गंगाधर तिलक वार्ड 10 सरदार वल्लभ भाई पटेल वार्ड
2	अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	निरंक	निरंक
3	अन्य पिछड़ा वर्गों के लिये आरक्षित कुल वार्ड	4	5 चन्द्रशेखर आजाद वार्ड 14 संजय गांधी वार्ड 12 सरदार भगत सिंह वार्ड 13 महाराणा प्रताप वार्ड
4	अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	2	7 बाल गंगाधर तिलक वार्ड 10 सरदार वल्लभ भाई पटेल वार्ड
5	अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड	निरंक	निरंक
6	अन्य पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	2	12 सरदार भगत सिंह वार्ड 13 महाराणा प्रताप वार्ड
7	महिलाओं के लिये (उक्त सरल क्रमांक 4, 5 व 6 के अलावा) आरक्षित वार्ड.	4	2 जवाहरलाल नेहरू वार्ड 6 लालबहादुर शास्त्री वार्ड 11 माता बम्बर बैनी वार्ड 9 संत रविदास वार्ड

अधि.सू. 44 क्र. एफ 1-11-2013-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम 7 की अपेक्षानुसार नगर परिषद् राजनगर, जिला छतरपुर के लिए आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है :—

क्र. (1)	वर्ग जिसके लिए आरक्षण किया गया (2)	कुल वार्ड (3)	आरक्षित वार्डों के क्रमांक व नाम (4)
1	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	2	3 इंदिरा गांधी वार्ड 4 रानी लक्ष्मी बाई वार्ड

(1)	(2)	(3)	(4)
2	अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	निरंक	निरंक
3	अन्य पिछड़ा वर्गों के लिये आरक्षित कुल वार्ड	4	1 सरदार भगतसिंह वार्ड 9 महात्मा गांधी वार्ड 6 भरत वार्ड 13 विश्वकर्मा वार्ड
4	अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	1	4 रानी लक्ष्मी बाई वार्ड
5	अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड	निरंक	निरंक
6	अन्य पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	2	6 भरत वार्ड 13 विश्वकर्मा वार्ड
7	महिलाओं के लिये (उक्त सरल क्रमांक 4, 5 व 6 के अलावा) आरक्षित वार्ड.	5	10 सुभाष वार्ड 11 शिवाजी वार्ड 12 राजीव गांधी वार्ड 5 लालबहादुर शास्त्री वार्ड 8 हरिहर वार्ड

अधि.सू. 44 क्र. एफ 1-11-2013-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम 7 की अपेक्षानुसार नगर परिषद् बड़ामलहरा, जिला छतरपुर के लिए आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है :—

क्र. (1)	वर्ग जिसके लिए आरक्षण किया गया (2)	कुल वार्ड (3)	आरक्षित वार्डों के क्रमांक व नाम (4)
1	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	3	15 डॉ. अम्बेडकर वार्ड 9 महाराणा प्रताप वार्ड 13 घासीराम वार्ड
2	अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	1	2 महात्मा गांधी वार्ड
3	अन्य पिछड़ा वर्गों के लिये आरक्षित कुल वार्ड	4	5 लालबहादुर शास्त्री वार्ड 8 मौलाना आजाद वार्ड 1 महारानी दुर्गावती वार्ड 10 नेताजी सुभाषचन्द्र बोस वार्ड
4	अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	2	9 महाराणा प्रताप वार्ड 13 घासीराम वार्ड
5	अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड	निरंक	निरंक
6	अन्य पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	2	1 महारानी दुर्गावती वार्ड 10 नेताजी सुभाषचन्द्र बोस वार्ड

(1)	(2)	(3)	(4)
7	महिलाओं के लिये (उक्त सरल क्रमांक 4, 5 व 6 के अलावा) आरक्षित वार्ड.	4	3 जवाहरलाल नेहरू वार्ड 6 छत्रपति शिवाजी वार्ड 7 गणेशवर्णी वार्ड 12 राजीव गांधी वार्ड

अधि.सू. 44 क्र. एफ 1-11-2013-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम 7 की अपेक्षानुसार नगर परिषद् गढ़ीमलहरा, जिला छतरपुर के लिए आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है :—

क्र. (1)	वर्ग जिसके लिए आरक्षण किया गया (2)	कुल वार्ड (3)	आरक्षित वार्डों के क्रमांक व नाम (4)
1	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	3	5 जवाहरलाल नेहरू वार्ड 14 संत रविदास वार्ड 15 गुरु घासीदास वार्ड
2	अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	निरंक	निरंक
3	अन्य पिछड़ा वर्गों के लिये आरक्षित कुल वार्ड	4	2 भगत सिंह वार्ड 10 सुभाष वार्ड 9 धनुषधारी वार्ड 4 तिलक वार्ड
4	अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	2	14 संत रविदास वार्ड 15 गुरु घासीदास वार्ड
5	अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड	निरंक	निरंक
6	अन्य पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	2	9 धनुषधारी वार्ड 4 तिलक वार्ड
7	महिलाओं के लिये (उक्त सरल क्रमांक 4, 5 व 6 के अलावा) आरक्षित वार्ड.	4	1 चन्द्रशेखर वार्ड 8 बड़ी देवी वार्ड 12 काली माई वार्ड 13 हरदौल वार्ड

अधि.सू. 44 क्र. एफ 1-11-2013-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम 7 की अपेक्षानुसार नगर परिषद् घुवारा, जिला छतरपुर के लिए आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है :—

क्र. (1)	वर्ग जिसके लिए आरक्षण किया गया (2)	कुल वार्ड (3)	आरक्षित वार्डों के क्रमांक व नाम (4)
1	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	3	9 शंकर वार्ड 12 भगत सिंह वार्ड 14 रविदास वार्ड

(1)	(2)	(3)	(4)
2	अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	निरंक	निरंक
3	अन्य पिछड़ा वर्गों के लिये आरक्षित कुल वार्ड	4	11 हनुमान वार्ड 13 अम्बेडकर वार्ड 3 अबार देवी वार्ड 4 महाराणा प्रताप वार्ड
4	अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	2	12 भगत सिंह वार्ड 14 रविदास वार्ड
5	अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड	निरंक	निरंक
6	अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	2	3 अबार देवी वार्ड 4 महाराणा प्रताप वार्ड
7	महिलाओं के लिये (उक्त सरल क्रमांक 4, 5 व 6 के अलावा) आरक्षित वार्ड.	4	1 जगदीश स्वामी वार्ड 5 चन्द्रशेखर आजाद वार्ड 6 सुभाषचन्द्र बोस वार्ड 7 गायत्री वार्ड

अधि.सू. 44 क्र. एफ 1-11-2013-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम 7 की अपेक्षानुसार नगर परिषद् चंदला, जिला छतरपुर के लिए आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है :—

क्र. (1)	वर्ग जिसके लिए आरक्षण किया गया (2)	कुल वार्ड (3)	आरक्षित वार्डों के क्रमांक व नाम (4)
1	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	4	3 तिलक वार्ड 9 नरसिंह वार्ड 1 लक्ष्मी बाई वार्ड 12 शिमला वार्ड
2	अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	निरंक	निरंक
3	अन्य पिछड़ा वर्गों के लिये आरक्षित कुल वार्ड	4	8 महात्मा गांधी वार्ड 10 हिमालय वार्ड 2 बाबूराम चतुर्वेदी वार्ड 6 आजाद वार्ड
4	अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	2	1 लक्ष्मी बाई वार्ड 12 शिमला वार्ड
5	अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड	निरंक	निरंक
6	अन्य पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	2	2 बाबूराम चतुर्वेदी वार्ड 6 आजाद वार्ड
7	महिलाओं के लिये (उक्त सरल क्रमांक 4, 5 व 6 के अलावा) आरक्षित वार्ड.	4	4 शास्त्री वार्ड 11 संजय गांधी वार्ड 13 इंदिरा गांधी वार्ड 14 राजीव गांधी वार्ड

अधि.सू. 44 क्र. एफ 1-11-2013-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम 7 की अपेक्षानुसार नगर परिषद् बारीगढ़, जिला छतरपुर के लिए आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है :—

क्र. (1)	वर्ग जिसके लिए आरक्षण किया गया (2)	कुल वार्ड (3)	आरक्षित वार्डों के क्रमांक व नाम (4)
1	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	5	5 महात्मा गांधी वार्ड 13 राजीव गांधी वार्ड 9 संजय गांधी वार्ड 11 डॉ. एच. जे. भाभा वार्ड 12 डॉ. भीमराव अम्बेडकर वार्ड
2	अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	निरंक	निरंक
3	अन्य पिछड़ा वर्गों के लिये आरक्षित कुल वार्ड	4	2 लक्ष्मी बाई वार्ड 7 पंडित जवाहरलाल नेहरी वार्ड 3 स्वामी विवेकानंद वार्ड 14 जुझार नगर वार्ड
4	अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	3	9 संजय गांधी वार्ड 11 डॉ. एच. जे. भाभा वार्ड 12 डॉ. भीमराव अम्बेडकर वार्ड
5	अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड	निरंक	निरंक
6	अन्य पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	2	3 स्वामी विवेकानंद वार्ड 14 जुझार नगर वार्ड
7	महिलाओं के लिये (उक्त सरल क्रमांक 4, 5 व 6 के अलावा) आरक्षित वार्ड.	3	8 डॉ. राजेन्द्रप्रसाद वार्ड 10 भगत सिंह वार्ड 15 लालबहादुर शास्त्री वार्ड

अधि.सू. 44 क्र. एफ 1-11-2013-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम 7 की अपेक्षानुसार नगर परिषद् सटई, जिला छतरपुर के लिए आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है :—

क्र. (1)	वर्ग जिसके लिए आरक्षण किया गया (2)	कुल वार्ड (3)	आरक्षित वार्डों के क्रमांक व नाम (4)
1	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	3	15 जवाहरलाल नेहरू वार्ड 8 विन्ध्यांचल वार्ड 13 राजीव गांधी वार्ड
2	अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	1	2 महात्मा गांधी वार्ड
3	अन्य पिछड़ा वर्गों के लिये आरक्षित कुल वार्ड	4	3 सुभाष वार्ड 5 शिवाजी वार्ड 1 सरदार पटेल वार्ड 9 मौलाना आजाद वार्ड
4	अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	2	8 विन्ध्यांचल वार्ड 13 राजीव गांधी वार्ड

(1)	(2)	(3)	(4)
5	अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड	निरंक	निरंक
6	अन्य पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	2	1 सरदार पटेल वार्ड 9 मौलाना आजाद वार्ड
7	महिलाओं के लिये (उक्त सरल क्रमांक 4, 5 व 6 के अलावा) आरक्षित वार्ड.	4	4 इंदिरा वार्ड 6 तिलक वार्ड 10 गुरूनानक वार्ड 11 रानी दुर्गावती

अधि.सू. 44 क्र. एफ 1-11-2013-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम 7 की अपेक्षानुसार नगर परिषद् बिजावर जिला छतरपुर के लिए आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है :—

क्र. (1)	वर्ग जिसके लिए आरक्षण किया गया (2)	कुल वार्ड (3)	आरक्षित वार्डों के क्रमांक व नाम (4)
1	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	3	9 अम्बेडकर वार्ड 2 सावन्त वार्ड 5 जवाहर वार्ड
2	अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	01	10 पटेल वार्ड
3	अन्य पिछड़ा वर्गों के लिये आरक्षित कुल वार्ड	4	3 अटल वार्ड 14 मौलाना आजाद वार्ड 1 इंदिरा वार्ड 6 शास्त्री वार्ड
4	अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	2	2 सावन्त वार्ड 5 जवाहर वार्ड
5	अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड	निरंक	निरंक
6	अन्य पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	2	1 इंदिरा वार्ड 6 शास्त्री
7	महिलाओं के लिये (उक्त सरल क्रमांक 4, 5 व 6 के अलावा) आरक्षित वार्ड.	4	4 छत्रसाल वार्ड 7 भगत सिंह वार्ड 8 महात्मा गांधी वार्ड 11 चन्द्रशेखर वार्ड

अधि.सू. 44 क्र. एफ 1-11-2013-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम 7 की अपेक्षानुसार नगर परिषद् खजुराहो, जिला छतरपुर के लिए आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है :—

क्र. (1)	वर्ग जिसके लिए आरक्षण किया गया (2)	कुल वार्ड (3)	आरक्षित वार्डों के क्रमांक व नाम (4)
1	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	2	8 भीमराव अम्बेडकर वार्ड 4 लाल बहादुर शास्त्री वार्ड



(1)	(2)	(3)	(4)
2	अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	निरंक	निरंक
3	अन्य पिछड़ा वर्गों के लिये आरक्षित कुल वार्ड	4	2 अहिल्या बाई वार्ड 11 महाराणा प्रताप वार्ड 15 सुभाषचन्द्र बोस वार्ड 14 सरदार वल्लभ भाई पटेल वार्ड
4	अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	1	4 लाल बहादुर शास्त्री वार्ड
5	अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड	निरंक	निरंक
6	अन्य पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	2	15 सुभाष चन्द्र बोस वार्ड 14 सरदार वल्लभ भाई पटेल वार्ड
7	महिलाओं के लिये (उक्त सरल क्रमांक 4, 5 व 6 के अलावा) आरक्षित वार्ड.	5	6 राजीव गांधी वार्ड 12 चन्द्रशेखर वार्ड 13 जवाहर लाल नेहरू वार्ड 10 महात्मा गांधी वार्ड 5 लक्ष्मी बाई वार्ड

अधि.सू. 44 क्र. एफ 1-11-2013-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम 7 की अपेक्षानुसार नगर परिषद् बकस्वाहा, जिला छतरपुर के लिए आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है :-

क्र. (1)	वर्ग जिसके लिए आरक्षण किया गया (2)	कुल वार्ड (3)	आरक्षित वार्डों के क्रमांक व नाम (4)
1	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	3	10 टैगौर वार्ड 14 महात्मा गांधी वार्ड 15 डॉ. अम्बेडकर वार्ड
2	अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	निरंक	निरंक
3	अन्य पिछड़ा वर्गों के लिये आरक्षित कुल वार्ड	4	5 महावीर वार्ड 13 भगत सिंह वार्ड 1 लाल बहादुर शास्त्री वार्ड 4 गणेशवर्णी वार्ड
4	अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	2	14 महात्मा गांधी वार्ड 15 डॉ. अम्बेडकर वार्ड
5	अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड	निरंक	निरंक
6	अन्य पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	2	1 लाल बहादुर शास्त्री वार्ड 4 गणेशवर्णी वार्ड
7	महिलाओं के लिये (उक्त सरल क्रमांक 4, 5 व 6 के अलावा) आरक्षित वार्ड.	4	2 छत्रसाल वार्ड 7 जवाहरलाल नेहरू वार्ड 8 राजीव गांधी वार्ड 9 रानी दुर्गावती वार्ड

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
के. के. कातिया, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 10 अक्टूबर 2014

अधि.सू. 45 क्र. एफ 1-11-2013-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम 7 की अपेक्षानुसार नगरपालिका परिषद् टीकमगढ़, जिला टीकमगढ़ के लिए आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है :—

क्र. (1)	वर्ग जिसके लिए आरक्षण किया गया (2)	कुल वार्ड (3)	आरक्षित वार्डों के क्रमांक व नाम (4)
1	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	4	13 कूरेमाते रामआसरे वार्ड 11 वाल्मीकी वार्ड 26 डॉ. राजेन्द्र प्रसाद वार्ड 5 शंभूदयाल दीक्षित वार्ड
2	अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	निरंक	निरंक
3	अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षित कुल वार्ड	7	4 चतुर्भुज वार्ड 17 नेताजी सुभाषचंद्र बोस वार्ड 20 इंदिरा गांधी वार्ड 21 जानकी बाग वार्ड 8 गांधी वार्ड 14 लालबहादुर वार्ड 16 भगवान महावीर वार्ड
4	अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	2	13 कूरेमाते रामआसरे वार्ड 11 वाल्मीकी वार्ड
5	अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड	निरंक	निरंक
6	अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	3	21 जानकी बाग वार्ड 8 गांधी वार्ड 17 नेताजी सुभाषचंद्र बोस वार्ड
7	महिलाओं के लिये (उक्त सरल क्रमांक 4, 5 व 6 के अलावा) आरक्षित वार्ड.	8	3 सरदार सिंह वार्ड 7 धनुषधारी वार्ड 15 जवाहरलाल नेहरू वार्ड 18 राजीव गांधी वार्ड 24 मौलाना अब्दुल कलाम आजाद वार्ड 2 पुरानी टेहरी वार्ड 22 गुरूनानक वार्ड 9 वावू प्रेमनारायण वार्ड

अधि.सू. 45 क्र. एफ 1-11-2013-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम 7 की अपेक्षानुसार नगर परिषद् कारी, जिला टीकमगढ़ के लिए आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है :—

क्र. (1)	वर्ग जिसके लिए आरक्षण किया गया (2)	कुल वार्ड (3)	आरक्षित वार्डों के क्रमांक व नाम (4)
1	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	3	7 अम्बेडकर वार्ड 3 भगतसिंह वार्ड 14 लाल बहादुर शास्त्री वार्ड
2	अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	1	8 वाल्मीकी वार्ड
3	अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षित कुल वार्ड	4	4 चन्द्रशेखर आजाद वार्ड 11 रामराजा वार्ड 2 सुभाष वार्ड 12 नारायणदास खरे वार्ड
4	अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	1	3 भगतसिंह वार्ड
5	अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड	निरंक	निरंक
6	अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	2	4 चन्द्रशेखर आजाद वार्ड 11 रामराजा वार्ड
7	महिलाओं के लिये (उक्त सरल क्रमांक 4, 5 व 6 के अलावा) आरक्षित वार्ड.	4	10 अब्दुल कलाम वार्ड 5 महावीर वार्ड 9 मंडल वार्ड 15 इंदिरा गांधी वार्ड

अधि.सू. 45 क्र. एफ 1-11-2013-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम 7 की अपेक्षानुसार नगर परिषद् बडागांव (धसान), जिला टीकमगढ़ के लिए आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है :—

क्र. (1)	वर्ग जिसके लिए आरक्षण किया गया (2)	कुल वार्ड (3)	आरक्षित वार्डों के क्रमांक व नाम (4)
1	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	3	10 इंदिरा गांधी वार्ड 9 महात्मा गांधी वार्ड 7 सुभाष चंद्र बोस वार्ड
2	अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	1	5 अम्बेडकर वार्ड
3	अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षित कुल वार्ड	4	4 विवेकानंद वार्ड 6 वाल्मीकी वार्ड 2 जवाहरलाल नेहरू वार्ड 15 रानीदुर्गावती वार्ड

(1)	(2)	(3)	(4)
4	अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	1	9 महात्मा गांधी वार्ड
5	अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड	निरंक	निरंक
6	अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	2	6 वाल्मीकी वार्ड 15 रानी दुर्गावती वार्ड
7	महिलाओं के लिये (उक्त सरल क्रमांक 4, 5 व 6 के अलावा) आरक्षित वार्ड.	4	8 नारायणदास खरे वार्ड 13 संजय गांधी वार्ड 3 सरदार सिंह वार्ड 12 भगतसिंह वार्ड

अधि.सू. 45 क्र. एफ 1-11-2013-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम 7 की अपेक्षानुसार नगर परिषद् वल्लेवगढ़, जिला टीकमगढ़ के लिए आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है :—

क्र. (1)	वर्ग जिसके लिए आरक्षण किया गया (2)	कुल वार्ड (3)	आरक्षित वार्डों के क्रमांक व नाम (4)
1	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	2	7 सरदार सिंह वार्ड 1 विन्ध्यवासिनी वार्ड
2	अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	1	12 इंदिरा गांधी वार्ड
3	अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षित कुल वार्ड	4	2 जवाहर वार्ड 13 चंद्रशेखर वार्ड 3 गांधी वार्ड 6 डॉ. अम्बेडकर वार्ड
4	अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	1	7 सरदार सिंह वार्ड
5	अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड	निरंक	निरंक
6	अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	2	2 जवाहर वार्ड 6 डॉ. अम्बेडकर वार्ड
7	महिलाओं के लिये (उक्त सरल क्रमांक 4, 5 व 6 के अलावा) आरक्षित वार्ड.	4	4 सुभाष वार्ड 5 मौलाना आजाद वार्ड 9 सरदार पटेल वार्ड 11 लाल बहादुर शास्त्री वार्ड

अधि.सू. 45 क्र. एफ 1-11-2013-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम 7 की अपेक्षानुसार नगर परिषद् खरगापुर, जिला टीकमगढ़ के लिए आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है :—

क्र. (1)	वर्ग जिसके लिए आरक्षण किया गया (2)	कुल वार्ड (3)	आरक्षित वार्डों के क्रमांक व नाम (4)
1	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	4	12 अम्बेडकर वार्ड 7 कबीर वार्ड 6 जवाहर वार्ड 1 गांधी वार्ड
2	अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	निरंक	निरंक
3	अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षित कुल वार्ड	4	10 महावीर वार्ड 15 हरदौल वार्ड 5 सुभाष वार्ड 13 देसाई वार्ड
4	अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	2	1 गांधी वार्ड 12 अम्बेडकर वार्ड
5	अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड	निरंक	निरंक
6	अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	2	15 हरदौल वार्ड 13 देसाई वार्ड
7	महिलाओं के लिये (उक्त सरल क्रमांक 4, 5 व 6 के अलावा) आरक्षित वार्ड.	3	14 प्रताप वार्ड 9 राजेन्द्र वार्ड 2 राजीव वार्ड

अधि.सू. 45 क्र. एफ 1-11-2013-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम 7 की अपेक्षानुसार नगर परिषद् पलेरा, जिला टीकमगढ़ के लिए आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है :—

क्र. (1)	वर्ग जिसके लिए आरक्षण किया गया (2)	कुल वार्ड (3)	आरक्षित वार्डों के क्रमांक व नाम (4)
1	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	5	15 महात्मा गांधी वार्ड 14 शिवाजी वार्ड 8 अम्बेडकर वार्ड 12 मौलाना आजाद वार्ड 13 देवी शीतला वार्ड
2	अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	1	3 पटेश्वरी वार्ड

(1)	(2)	(3)	(4)
3	अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षित कुल वार्ड	4	2 हनुमान वार्ड 9 इंदिरा वार्ड 10 जवाहर वार्ड 5 केदारेश्वर वार्ड
4	अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	2	13 देवी शीतला वार्ड 12 मौलाना आजाद वार्ड
5	अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड	निरंक	निरंक
6	अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	2	2 हनुमान वार्ड 9 इंदिरा वार्ड
7	महिलाओं के लिये (उक्त सरल क्रमांक 4, 5 व 6 के अलावा) आरक्षित वार्ड.	3	11 लालबहादुर वार्ड 4 भगतसिंह वार्ड 1 विवेकानंद वार्ड

अधि.सू. 45 क्र. एफ 1-11-2013-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम 7 की अपेक्षानुसार नगर परिषद् जतारा, जिला टीकमगढ़ के लिए आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है :—

क्र. (1)	वर्ग जिसके लिए आरक्षण किया गया (2)	कुल वार्ड (3)	आरक्षित वार्डों के क्रमांक व नाम (4)
1	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	3	6 अम्बेडकर वार्ड 2 रानी दुर्गावती वार्ड 3 इंदिरा वार्ड
2	अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड.	निरंक	निरंक
3	अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षित कुल वार्ड	4	4 शहीद नारायणदास वार्ड 7 हरदौल वार्ड 10 शहीद भगतसिंह वार्ड 5 सुभाष वार्ड
4	अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	1	3 इंदिरा वार्ड
5	अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड	निरंक	निरंक
6	अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	2	10 शहीद भगतसिंह वार्ड 7 हरदौल वार्ड
7	महिलाओं के लिये (उक्त सरल क्रमांक 4, 5 व 6 के अलावा) आरक्षित वार्ड.	4	8 चंद्रशेखर आजाद वार्ड 13 महारानी लक्ष्मीबाई वार्ड 14 महाराज छत्रसाल वार्ड 15 नरसिंह वार्ड

अधि.सू. 45 क्र. एफ 1-11-2013-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम 7 की अपेक्षानुसार नगर परिषद् लिथौराखास, जिला टीकमगढ़ के लिए आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है :—

क्र. (1)	वर्ग जिसके लिए आरक्षण किया गया (2)	कुल वार्ड (3)	आरक्षित वार्डों के क्रमांक व नाम (4)
1	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	4	10 रैदास वार्ड 2 डॉ. अम्बेडकर वार्ड 4 आजाद वार्ड 14 श्यामलाल माते वार्ड
2	अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	निरंक	निरंक
3	अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षित कुल वार्ड	4	13 चिवेकानंद वार्ड 15 महात्मा गांधी वार्ड 5 प्रियदर्शिनी वार्ड 1 भूतेश्वर वार्ड
4	अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	2	14 श्यामलाल माते वार्ड 2 डॉ. अम्बेडकर वार्ड
5	अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड	निरंक	निरंक
6	अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	2	1 भूतेश्वर वार्ड 5 प्रियदर्शिनी वार्ड
7	महिलाओं के लिये (उक्त सरल क्रमांक 4, 5 व 6 के अलावा) आरक्षित वार्ड.	3	8 भगतसिंह वार्ड 11 लक्ष्मीबाई वार्ड 3 सुभाष वार्ड

अधि.सू. 45 क्र. एफ 1-11-2013-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम 7 की अपेक्षानुसार नगर परिषद् पृथ्वीपुर, जिला टीकमगढ़ के लिए आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है :—

क्र. (1)	वर्ग जिसके लिए आरक्षण किया गया (2)	कुल वार्ड (3)	आरक्षित वार्डों के क्रमांक व नाम (4)
1	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	4	7 डॉ. भीमराव अम्बेडकर वार्ड 12 अमरसिंह राठौर वार्ड 4 हरदौल वार्ड 5 रामराजा वार्ड
2	अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	निरंक	निरंक
3	अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षित कुल वार्ड	4	8 सुभाष वार्ड 9 इंदिरा गांधी वार्ड 10 डॉ. राममनोहर लोहिया वार्ड 15 राजीव गांधी वार्ड
4	अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	2	4 हरदौल वार्ड 7 डॉ. भीमराव अम्बेडकर वार्ड
5	अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड	निरंक	निरंक

(1)	(2)	(3)	(4)
6	अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	2	15 राजीव गांधी वार्ड 9 इंदिरा गांधी वार्ड
7	महिलाओं के लिये (उक्त सरल क्रमांक 4, 5 व 6 के अलावा) आरक्षित वार्ड.	3	3 महारानी लक्ष्मीबाई वार्ड 6 मौलाना अब्दुल कलाम आजाद वार्ड 11 शिवाजी वार्ड

अधि.सू. 45 क्र. एफ 1-11-2013-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम 7 की अपेक्षानुसार नगर परिषद् जेरौनखालसा, जिला टीकमगढ़ के लिए आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है :—

क्र. (1)	वर्ग जिसके लिए आरक्षण किया गया (2)	कुल वार्ड (3)	आरक्षित वार्डों के क्रमांक व नाम (4)
1	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	2	15 डॉ. अम्बेडकर वार्ड 8 आजाद वार्ड
2	अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	1	14 भगत सिंह वार्ड
3	अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षित कुल वार्ड	4	1 नेहरू वार्ड 3 विवेकानंद वार्ड 9 इंदिरा गांधी वार्ड 11 गांधी वार्ड
4	अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	1	8 आजाद वार्ड
5	अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड	निरंक	निरंक
6	अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	2	9 इंदिरा गांधी वार्ड 1 नेहरू वार्ड
7	महिलाओं के लिये (उक्त सरल क्रमांक 4, 5 व 6 के अलावा) आरक्षित वार्ड.	4	7 सुभाष वार्ड 10 संजय वार्ड 13 खेरापति वार्ड 4 अजयपार वार्ड

अधि.सू. 45 क्र. एफ 1-11-2013-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम 7 की अपेक्षानुसार नगर परिषद् निवाडी, जिला टीकमगढ़ के लिए आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है :—

क्र. (1)	वर्ग जिसके लिए आरक्षण किया गया (2)	कुल वार्ड (3)	आरक्षित वार्डों के क्रमांक व नाम (4)
1	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	5	10 अम्बेडकर वार्ड 6 अहिल्याबाई वार्ड 4 नेहरू वार्ड 1 शक्ति वार्ड 2 महात्मा गांधी वार्ड
2	अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	निरंक	निरंक



(1)	(2)	(3)	(4)
3	अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षित कुल वार्ड	4	11 रामराजा वार्ड 15 रानी दुर्गावती वार्ड 3 सुभाष वार्ड 7 चंद्रशेखर वार्ड
4	अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	2	6 अहिल्याबाई वार्ड 10 अम्बेडकर वार्ड
5	अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड	निरंक	निरंक
6	अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	2	3 सुभाष वार्ड 11 रामराजा वार्ड
7	महिलाओं के लिये (उक्त सरल क्रमांक 4, 5 व 6 के अलावा) आरक्षित वार्ड.	3	5 भगतसिंह वार्ड 13 शास्त्री वार्ड 9 छोटबाजार वार्ड

अधि.सू. 45 क्र. एफ 1-11-2013-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम 7 की अपेक्षानुसार नगर परिषद् तरीचरकलां, जिला टीकमगढ़ के लिए आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है :—

क्र. (1)	वर्ग जिसके लिए आरक्षण किया गया (2)	कुल वार्ड (3)	आरक्षित वार्डों के क्रमांक व नाम (4)
1	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	5	4 सुभाष वार्ड 5 संतरविदास वार्ड 13 जगजीवन वार्ड 12 इंदिरा गांधी वार्ड 14 सागर सिंह वार्ड
2	अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	निरंक	निरंक
3	अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षित कुल वार्ड	4	1 संत कबीर वार्ड 7 महात्मा गांधी वार्ड 6 पालेश्वर वार्ड 9 शास्त्री वार्ड
4	अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	2	12 इंदिरा गांधी वार्ड 14 सागर सिंह वार्ड
5	अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड	निरंक	निरंक
6	अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	2	6 पालेश्वर वार्ड 7 महात्मा गांधी वार्ड
7	महिलाओं के लिये (उक्त सरल क्रमांक 4, 5 व 6 के अलावा) आरक्षित वार्ड.	3	2 चंद्रशेखर वार्ड 3 संजय वार्ड वार्ड 8 अम्बेडकर वार्ड

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
के. के. कातिया, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 10 अक्टूबर 2014

अधि.सू. 46 क्र. एफ 1-11-2013-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम 7 की अपेक्षानुसार नगरपालिका पन्ना, जिला पन्ना के लिए आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है :—

क्र. (1)	वर्ग जिसके लिए आरक्षण किया गया (2)	कुल वार्ड (3)	आरक्षित वार्डों के क्रमांक व नाम (4)
1	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	2	4 भगत सिंह वार्ड 8 शिवाजी वार्ड
2	अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	1	7 पदमावती वार्ड
3	अन्य पिछड़ा वर्गों के लिये आरक्षित कुल वार्ड	6	6 प्राणनाथ वार्ड 11 राघवेन्द्र वार्ड 14 लालबहादुर शास्त्री वार्ड 16 गोविन्द वार्ड 18 नेहरू वार्ड 21 रानीलक्ष्मी बाई वार्ड
4	अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	1	4 भगतसिंह वार्ड
5	अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड	निरंक	निरंक
6	अन्य पिछड़ा वर्गों की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	3	11 राघवेन्द्र वार्ड 14 लालबहादुर शास्त्री वार्ड 18 नेहरू वार्ड
7	महिलाओं के लिये (उक्त सरल क्रमांक 4, 5 व 6 के अलावा) आरक्षित वार्ड.	7	3 बजरंग वार्ड 5 रामगंज वार्ड 9 वियोगी हरि वार्ड 13 छत्रसाल वार्ड 15 बल्देव वार्ड 17 मदार टेकरी वार्ड 22 यादवेन्द्र वार्ड

अधि.सू. 46 क्र. एफ 1-11-2013-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम 7 की अपेक्षानुसार नगर परिषद् अजयगढ़, जिला पन्ना के लिए आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है :—

क्र. (1)	वर्ग जिसके लिए आरक्षण किया गया (2)	कुल वार्ड (3)	आरक्षित वार्डों के क्रमांक व नाम (4)
1	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	3	1 महात्मा गांधी वार्ड 7 अजयपाल वार्ड 13 छत्रसाल वार्ड
2	अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	1	8 नेताजी सुभाष वार्ड

(1)	(2)	(3)	(4)
3	अन्य पिछड़ा वर्गों के लिये आरक्षित कुल वार्ड	4	3 लालबहादुर शास्त्री वार्ड 4 मौलाना अबुल कलाम वार्ड 11 शिवाजी वार्ड 15 महारानी लक्ष्मी बाई वार्ड
4	अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	2	1 महात्मा गांधी वार्ड 7 अजयपाल वार्ड
5	अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड	निरंक	निरंक
6	अन्य पिछड़ा वर्गों की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	2	3 लालबहादुर शास्त्री वार्ड 15 महारानी लक्ष्मी बाई वार्ड
7	महिलाओं के लिये (उक्त सरल क्रमांक 4, 5 व 6 के अलावा) आरक्षित वार्ड.	4	2 नेहरू वार्ड 5 डॉ. अम्बेडकर वार्ड 12 रानी दुर्गावती वार्ड 14 लोहिया वार्ड

अधि.सू. 46 क्र. एफ 1-11-2013-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम 7 की अपेक्षानुसार नगर परिषद् देवेन्द्रनगर, जिला पन्ना के लिए आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है :-

क्र. (1)	वर्ग जिसके लिए आरक्षण किया गया (2)	कुल वार्ड (3)	आरक्षित वार्डों के क्रमांक व नाम (4)
1	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	3	1 अम्बेडकर वार्ड 4 गांधी वार्ड 10 राम वार्ड
2	अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	1	6 राजीव वार्ड
3	अन्य पिछड़ा वर्गों के लिये आरक्षित कुल वार्ड	4	7 शास्त्री वार्ड 8 महावीर वार्ड 14 राजेन्द्र वार्ड 15 पटेल वार्ड
4	अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	2	1 अम्बेडकर वार्ड 4 गांधी वार्ड
5	अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड	निरंक	निरंक
6	अन्य पिछड़ा वर्गों की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	2	7 शास्त्री वार्ड 8 महावीर वार्ड
7	महिलाओं के लिये (उक्त सरल क्रमांक 4, 5 व 6 के अलावा) आरक्षित वार्ड.	4	2 जवाहर वार्ड 5 देवेन्द्रविजय वार्ड 9 छत्रसाल वार्ड 11 भगतसिंह वार्ड

अधि.सू. 46 क्र. एफ 1-11-2013-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम 7 की अपेक्षानुसार नगर परिषद् अमानगंज, जिला पन्ना के लिए आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है :—

क्र. (1)	वर्ग जिसके लिए आरक्षण किया गया (2)	कुल वार्ड (3)	आरक्षित वार्डों के क्रमांक व नाम (4)
1	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	3	6 अम्बेडकर वार्ड 10 कस्तूरबा वार्ड 14 शास्त्री वार्ड
2	अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	1	3 इंदिरा वार्ड
3	अन्य पिछड़ा वर्गों के लिये आरक्षित कुल वार्ड	4	4 ज्वालादेवी वार्ड 8 संजय वार्ड 13 अमान सिंह वार्ड 15 पटेल वार्ड
4	अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	2	6 अम्बेडकर वार्ड 14 शास्त्री वार्ड
5	अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड	निरंक	निरंक
6	अन्य पिछड़ा वर्गों की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	2	4 ज्वालादेवी वार्ड 15 पटेल वार्ड
7	महिलाओं के लिये (उक्त सरल क्रमांक 4, 5 व 6 के अलावा) आरक्षित वार्ड.	4	7 गांधी वार्ड 9 बालाजी वार्ड 11 छत्रसाल वार्ड 12 नेहरू वार्ड

अधि.सू. 46 क्र. एफ 1-11-2013-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम 7 की अपेक्षानुसार नगर परिषद् ककरहटी, जिला पन्ना के लिए आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है :—

क्र. (1)	वर्ग जिसके लिए आरक्षण किया गया (2)	कुल वार्ड (3)	आरक्षित वार्डों के क्रमांक व नाम (4)
1	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	2	2 महात्मा गांधी वार्ड 5 गोरीशंकर वार्ड
2	अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	1	13 रहमान वार्ड
3	अन्य पिछड़ा वर्गों के लिये आरक्षित कुल वार्ड	2	7 सुभाष वार्ड 9 रविदास वार्ड
4	अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	3	4 राजीव गांधी वार्ड 6 इंदिरा गांधी वार्ड 15 आजाद वार्ड

(1)	(2)	(3)	(4)
5	अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड	निरंक	निरंक
6	अन्य पिछड़ा वर्गों की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	2	8 चर्तुभुज वार्ड 14 विवेकानन्द वार्ड
7	महिलाओं के लिये (उक्त सरल क्रमांक 4, 5 व 6 के अलावा) आरक्षित वार्ड.	3	1 लक्ष्मीनारायण वार्ड 10 जवाहर वार्ड 12 जगदीश स्वामी वार्ड

अधि.सू. 46 क्र. एफ 1-11-2013-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम 7 की अपेक्षानुसार नगर परिषद् पवई, जिला पन्ना के लिए आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है :-

क्र. (1)	वर्ग जिसके लिए आरक्षण किया गया (2)	कुल वार्ड (3)	आरक्षित वार्डों के क्रमांक व नाम (4)
1	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	5	4 चंद्रशेखर वार्ड 5 छत्रसाल वार्ड 7 महारानी लक्ष्मी बाई वार्ड 8 छत्रपति शिवाजी वार्ड 14 डॉ. भीमराव अम्बेडकर वार्ड
2	अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	1	6 लालबहादुर शास्त्री वार्ड
3	अन्य पिछड़ा वर्गों के लिये आरक्षित कुल वार्ड	4	1 महारानी दुर्गावती वार्ड 10 महारानी अहिल्या बाई वार्ड 11 महात्मा गांधी वार्ड 13 मॉ कलेही वार्ड
4	अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	3	4 चंद्रशेखर वार्ड 8 छत्रपति शिवाजी वार्ड 14 डॉ. भीमराव अम्बेडकर वार्ड
5	अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड	निरंक	निरंक
6	अन्य पिछड़ा वर्गों की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	2	10 महारानी अहिल्या बाई वार्ड 13 मॉ कलेही वार्ड
7	महिलाओं के लिये (उक्त सरल क्रमांक 4, 5 व 6 के अलावा) आरक्षित वार्ड.	3	2 सरदार बल्लभ भाई पटेल वार्ड 3 स्वामी विवेकानन्द वार्ड 12 जवाहरलाल नेहरू वार्ड

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
के. के. कातिया, उपसचिव.

## भोपाल, दिनांक 10 अक्टूबर 2014

अधि.सू. 47 क्र. एफ-1-11-2013-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम 7 की अपेक्षा अनुसार नगरपालिक निगम, इंदौर के लिए आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है:—

क्र. (1)	वर्ग जिसके लिए आरक्षण किया गया (2)	कुल वार्ड (3)	आरक्षित वार्ड के क्रमांक व नाम (4)
1	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	13	46 सोमनाथ वार्ड 61 तात्या सरवटे वार्ड 45 डॉ. भीमराव अम्बेडकर वार्ड 59 हरसिद्धि वार्ड 18 संत कबीर वार्ड 76 मण्डला नायता वार्ड 24 संत बालीजी नाथ महाराज वार्ड 30 संत रविदास वार्ड 54 रेसीडेंसी वार्ड 26 जीण माता वार्ड 35 लसूड़िया मोरी वार्ड 36 निपानिया वार्ड 47 सरदार वल्लभभाई वार्ड
2	अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	03	77 बिलावली वार्ड 75 पालदा वार्ड 79 सुख निवास वार्ड
3	अन्य पिछड़ा वर्गों के लिये आरक्षित कुल वार्ड	21	70 लोकनायक नगर वार्ड 55 साउथ तुकोगंज वार्ड 28 मां तुलजा भवानी वार्ड 48 गीता भवन वार्ड 04 सुखदेव नगर वार्ड 69 जवाहर मार्ग वार्ड 62 रावजी बाजार वार्ड 33 सुखलिया वार्ड 52 मूसाखेड़ी वार्ड 05 राजनगर वार्ड 82 सुदामा नगर वार्ड 81 अन्नपूर्णा वार्ड 51 भगवती नगर वार्ड 22 पं. दीनदयाल उपाध्याय वार्ड 56 स्नेहलतागंज वार्ड 27 पशुपति नाथ वार्ड 68 बम्बई बाजार वार्ड 57 देवी अहिल्याबाई वार्ड 10 बाणगंगा वार्ड 64 चितावद 50 ब्रजेश्वरी

(1)	(2)	(3)	(4)
4	अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड	07	24 संत बालीजी नाथ महाराज वार्ड 30 संत रविदास वार्ड 54 रेसीडेंसी वार्ड 26 जीण माता वार्ड 35 लसूडिया मोरी वार्ड 36 निपानिया वार्ड 47 सरदार वल्लभभाई वार्ड
5	अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड	02	75 पालदा वार्ड 79 सुख निवास वार्ड
6	अन्य पिछड़ा वर्गों की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड	11	82 सुदामानगर वार्ड 81 अन्नपूर्णा वार्ड 51 भगवती नगर वार्ड 22 पं. दीनदयाल उपाध्याय वार्ड 56 स्नेहलतागंज वार्ड 27 पशुपति नाथ वार्ड 68 बम्बई बाजार वार्ड 57 देवी अहिल्याबाई वार्ड 10 बाणगंगा वार्ड 64 चितावद वार्ड 50 ब्रजेश्वरी वार्ड
7	महिलाओं के लिये (उक्त सरल क्रमांक 4, 5 व 6 के अलावा) आरक्षित वार्ड.	22	78 चोईथराम वार्ड 29 डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी वार्ड 83 गुमास्ता नगर वार्ड 11 भागीरथपुरा वार्ड 49 तिलकनगर वार्ड 13 संगम नगर वार्ड 85 प्रजापत नगर वार्ड 31 महाराजा छत्रसाल वार्ड 19 विश्वकर्मा वार्ड 01 सिरपुर वार्ड 21 श्यामनगर वार्ड 09 वृन्दावन वार्ड 32 अटल बिहारी वाजपेयी वार्ड 66 शहीद हेमू कालानी वार्ड 65 संत कंवरराम वार्ड 17 कुशवाह नगर वार्ड 58 इमली बाजार वार्ड 72 लोकमान्य नगर वार्ड 40 खजराना गणेश वार्ड 63 नवलखा वार्ड 53 डॉ. मौलाना आजाद नगर वार्ड 14 अशोक नगर वार्ड

अधि.सू. 47 क्र. एफ-1-11-2013-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम-7 की अपेक्षा अनुसार नगर परिषद, सांवेर जिला इन्दौर के लिए आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है:—

क्र. (1)	वर्ग जिसके लिए आरक्षण किया गया (2)	कुल वार्ड (3)	आरक्षित वार्ड के क्रमांक व नाम (4)
1	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	03	15 रविदास वार्ड 01 अम्बेडकर वार्ड 11 तेजाजी वार्ड
2	अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	निरंक	निरंक
3	अन्य पिछड़ा वर्गों के लिये आरक्षित कुल वार्ड	04	08 इन्दिरा गांधी वार्ड 14 श्री राम वार्ड 07 माँ चामुण्डा वार्ड 13 श्री कृष्ण वार्ड
4	अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड	02	01 अम्बेडकर वार्ड 11 तेजाजी वार्ड
5	अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड	निरंक	निरंक
6	अन्य पिछड़ा वर्गों की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड	02	07 माँ चामुण्डा वार्ड 13 श्री कृष्ण वार्ड
7	महिलाओं के लिये (उक्त सरल क्रमांक 4, 5 व 6 के अलावा) आरक्षित वार्ड.	03	04 जवाहर वार्ड 10 राजीव वार्ड 12 दयानंद वार्ड

अधि.सू. 47 क्र. एफ-1-11-2013-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम-7 की अपेक्षा अनुसार नगर परिषद, हातोद जिला इन्दौर के लिए आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है:—

क्र. (1)	वर्ग जिसके लिए आरक्षण किया गया (2)	कुल वार्ड (3)	आरक्षित वार्ड के क्रमांक व नाम (4)
1	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	03	07 देवजी वार्ड 01 डॉ. अम्बेडकर वार्ड 03 लालबहादुर शास्त्री वार्ड
2	अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	01	4 देवी अहिल्या वार्ड



(1)	(2)	(3)	(4)
3	अन्य पिछड़ा वर्गों के लिये आरक्षित कुल वार्ड	04	09 शिवाजी वार्ड 12 चन्द्रशेखर वार्ड 10 महाराणा वार्ड 15 मौलाना आजाद वार्ड
4	अनुसूचित जाति महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड	02	1 डॉ. अम्बेडकर वार्ड 3 लालबहादुर शास्त्री वार्ड
5	अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड	निरंक	निरंक
6	अन्य पिछड़ा वर्गों की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड	02	10 महाराणा वार्ड 15 मौलाना आजाद वार्ड
7	महिलाओं के लिये (उक्त सरल क्रमांक 4, 5 व 6 के अलावा) आरक्षित वार्ड.	03	02 महात्मा गांधी वार्ड 06 तिलक वार्ड 08 सुभाष वार्ड

अधि.सू. 47 क्र. एफ-1-11-2013-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम-7 की अपेक्षा अनुसार नगर परिषद, महूगांव जिला इन्दौर के लिए आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है:—

क्र. (1)	वर्ग जिसके लिए आरक्षण किया गया (2)	कुल वार्ड (3)	आरक्षित वार्ड के क्रमांक व नाम (4)
1	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	03	9 डॉ. अम्बेडकर वार्ड 8 डॉ. राजेन्द्र प्रसाद वार्ड 15 महारानी लक्ष्मीबाई वार्ड
2	अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	01	5 राजीव गांधी वार्ड
3	अन्य पिछड़ा वर्गों के लिये आरक्षित कुल वार्ड	04	3 जवाहरलाल नेहरू वार्ड 10 महात्मा गांधी वार्ड 6 मौलाना आजाद वार्ड 12 सुभाषचन्द्र बोस वार्ड
4	अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड	02	8 डॉ. राजेन्द्र प्रसाद वार्ड 15 महारानी लक्ष्मीबाई वार्ड
5	अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड	निरंक	निरंक
6	अन्य पिछड़ा वर्गों की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड	02	6 मौलाना आजाद वार्ड 12 सुभाषचन्द्र बोस वार्ड
7	महिलाओं के लिये (उक्त सरल क्रमांक 4, 5 व 6 के अलावा) आरक्षित वार्ड.	03	02 विवेकानंद वार्ड 11 इंदिरा गांधी वार्ड 13 सरदार वल्लभभाई पटेल वार्ड

अधि.सू. 47 क्र. एफ-1-11-2013-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम-7 की अपेक्षा अनुसार नगर परिषद, देपालपुर, जिला इन्दौर के लिए आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है:—

क्र. (1)	वर्ग जिसके लिए आरक्षण किया गया (2)	कुल वार्ड (3)	आरक्षित वार्ड के क्रमांक व नाम (4)
1	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	02	10 मोतीलाल वार्ड 6 रविदास वार्ड
2	अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	01	8 फिरोज गांधी वार्ड
3	अन्य पिछड़ा वर्गों के लिये आरक्षित कुल वार्ड	04	1 सरदार पटेल वार्ड 4 गणेश वार्ड 12 महात्मा गांधी वार्ड 15 शिवाजी वार्ड
4	अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड	01	6 रविदास वार्ड
5	अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड	निरंक	निरंक
6	अन्य पिछड़ा वर्गों की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड	02	12 महात्मा गांधी वार्ड 15 शिवाजी वार्ड
7	महिलाओं के लिये (उक्त सरल क्रमांक 4, 5 व 6 के अलावा) आरक्षित वार्ड.	04	02 राम मनोहर लोहिया वार्ड 05 मंगलेश्वर वार्ड 07 राजीव गांधी वार्ड 09 नेहरू वार्ड

अधि.सू. 47 क्र. एफ-1-11-2013-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम-7 की अपेक्षा अनुसार नगर परिषद, राऊ, जिला इन्दौर के लिए आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है:—

क्र. (1)	वर्ग जिसके लिए आरक्षण किया गया (2)	कुल वार्ड (3)	आरक्षित वार्ड के क्रमांक व नाम (4)
1	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	02	13 संजय गांधी वार्ड 2 डॉ. अम्बेडकर वार्ड
2	अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	01	5 नेहरू वार्ड
3	अन्य पिछड़ा वर्गों के लिये आरक्षित कुल वार्ड	04	12 नानक वार्ड 15 सराय वार्ड 6 वाल्मिकी वार्ड 8 इंदिरा गांधी वार्ड

(1)	(2)	(3)	(4)
4	अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड	01	2 डॉ. अम्बेडकर वार्ड
5	अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड	निरंक	निरंक
6	अन्य पिछड़ा वर्गों की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड	02	6 वाल्मिकी वार्ड 8 इंदिरा गांधी वार्ड
7	महिलाओं के लिये (उक्त सरल क्रमांक 4, 5 व 6 के अलावा) आरक्षित वार्ड.	04	3 रैदास वार्ड 4 श्रमिक वार्ड 10 भगतसिंह वार्ड 14 राजीव गांधी वार्ड

अधि.सू. 47 क्र. एफ-1-11-2013-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम-7 की अपेक्षा अनुसार नगर परिषद, बेटमा जिला इन्दौर के लिए आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है:—

क्र. (1)	वर्ग जिसके लिए आरक्षण किया गया (2)	कुल वार्ड (3)	आरक्षित वार्ड के क्रमांक व नाम (4)
1	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	02	11 शिवाजी वार्ड 09 आजाद वार्ड
2	अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	01	02 महात्मा गांधी वार्ड
3	अन्य पिछड़ा वर्गों के लिये आरक्षित कुल वार्ड	04	03 सुभाष वार्ड 06 देवी अहिल्या वार्ड 08 डॉ. जाकिर हुसैन वार्ड 12 महाराणा प्रताप वार्ड
4	अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड	01	09 आजाद वार्ड
5	अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड	निरंक	निरंक
6	अन्य पिछड़ा वर्गों की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड	02	08 डॉ. जाकिर हुसैन वार्ड 12 महाराणा प्रताप वार्ड
7	महिलाओं के लिये (उक्त सरल क्रमांक 4, 5 व 6 के अलावा) आरक्षित वार्ड.	04	01 जवाहर वार्ड 04 शास्त्री वार्ड 07 इंदिरा वार्ड 10 वाल्मिकी वार्ड

अधि.सू-47 क्र. एफ-1-11-2013-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम 7 की अपेक्षा अनुसार नगर परिषद, गौतमपुरा, जिला इन्दौर के लिए आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है:—

क्र. (1)	वर्ग जिसके लिए आरक्षण किया गया (2)	कुल वार्ड (3)	आरक्षित वार्ड के क्रमांक व नाम (4)
1	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	02	12 डॉ अम्बेडकर वार्ड 15 वाल्मिकी वार्ड
2	अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	01	14 रैदास वार्ड
3	अन्य पिछड़ा वर्गों के लिये आरक्षित कुल वार्ड	04	06 महात्मा गांधी वार्ड 11 शास्त्री वार्ड 7 पंडित दीनदयाल वार्ड 13 राजीव वार्ड
4	अनुसूचित जाति महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड	01	15 वाल्मिकी वार्ड
5	अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड	निरंक	निरंक
6	अन्य पिछड़ा वर्गों की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड	02	7 पंडित दीनदयाल वार्ड 13 राजीव वार्ड
7	महिलाओं के लिये (उक्त सरल क्रमांक 4, 5, 6 के अलावा) आरक्षित कुल वार्ड.	04	1 मौलाना आजाद वार्ड 5 इंदिरा वार्ड 8 डॉ. जाकिर हुसैन वार्ड 10 सुभाष वार्ड

अधि.सू-47 क्र. एफ-1-11-2013-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम 7 की अपेक्षा अनुसार नगर परिषद, मानपुर जिला इन्दौर के लिए आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है:—

क्र. (1)	वर्ग जिसके लिए आरक्षण किया गया (2)	कुल वार्ड (3)	आरक्षित वार्ड के क्रमांक व नाम (4)
1	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	03	6 राजीव गांधी वार्ड 5 हरिहरेश वार्ड 7 सरदार वल्लभभाई वार्ड
2	अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	01	4 लालबहादुर शास्त्री वार्ड
3	अन्य पिछड़ा वर्गों के लिये आरक्षित कुल वार्ड	04	12 डॉ राजेन्द्र प्रसाद वार्ड 14 सुभाषचन्द्र बोस वार्ड 8 जयप्रकाश वार्ड 9 डॉ. राधाकृष्णन वार्ड
4	अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड	निरंक	निरंक

(1)	(2)	(3)	(4)
5	अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड	02	5 हरिहरेश वार्ड 7 सरदार वल्लभभाई वार्ड
6	अन्य पिछड़ा वर्गों की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड	02	8 जयप्रकाश वार्ड 9 डॉ. राधाकृष्णन वार्ड
7	महिलाओं के लिये (उक्त सरल क्रमांक 4, 5 व 6 के अलावा) आरक्षित वार्ड.	03	1 महात्मा गांधी वार्ड 2 डॉ. अम्बेडकर वार्ड 10 मानसिंह वार्ड

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
के. के. कातिया, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 10 अक्टूबर 2014

अधि.सू-48 क्र. एफ-1-11-2013-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम 7 की अपेक्षा अनुसार नगर परिषद, बटनावर जिला धार के लिए आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है:—

क्र. (1)	वर्ग जिसके लिए आरक्षित किया गया (2)	कुल वार्ड (3)	आरक्षित वार्ड के क्रमांक व नाम (4)
1	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	01	14 वीरसावरकर वार्ड
2	अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	02	5 सरदार पटेल वार्ड 7 भगतसिंह वार्ड
3	अन्य पिछड़ा वर्गों के लिये आरक्षित कुल वार्ड	04	8 सुभाष वार्ड 15 रविदास वार्ड 3 मुखर्जी वार्ड 12 महात्मागांधी वार्ड
4	अनुसूचित जाति महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड	-	-
5	अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड	01	7 भगतसिंह वार्ड
6	अन्य पिछड़ा वर्गों की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड	02	3 मुखर्जी वार्ड 12 महात्मागांधी वार्ड
7	महिलाओं के लिये (उक्त सरल क्रमांक 4, 5 व 6 के अलावा) आरक्षित कुल वार्ड.	04	1 लाला लाजपतराय वार्ड 2 लक्ष्मीबाई वार्ड 10 जवाहर वार्ड 13 डॉ अम्बेडकर वार्ड

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
के. के. कातिया, उपसचिव.

## भोपाल, दिनांक 10 अक्टूबर 2014

अधि.सू-49 क्र. एफ-1-11-2013-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम 7 की अपेक्षा अनुसार नगरपालिक निगम खण्डवा जिला खण्डवा के लिए आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है:—

अ. क्र. (1)	वर्ग जिसके लिए आरक्षण किया गया (2)	संख्या (3)	आरक्षित वार्ड के क्रमांक व नाम (4)
1	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	07	3 सूरजकुंड वार्ड 9 डॉ. अम्बेडकर वार्ड 10 संत रैयदास वार्ड 26 स्व. प्रेमचंद जैन वार्ड 34 रानी दुर्गावती वार्ड 44 जवाहरगंज वार्ड 46 महात्मा गांधी वार्ड
2	अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	02	5 किशोरकुमार गांगुली वार्ड 7 संत विनोबाभावे वार्ड
3	अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षित कुल वार्ड	13	6 लोक नायक जयप्रकाश वार्ड 8 साईराम नगर वार्ड 13 सरदार भगतसिंह वार्ड 14 छत्रपति शिवाजी वार्ड 19 राष्ट्रकवि रसखान वार्ड 30 भैरोतालाब वार्ड 31 स्वामी विवेकानंद वार्ड 32 संतोषी माता वार्ड 36 हजरत खानशाहवली वार्ड 39 महारानी लक्ष्मीबाई वार्ड 43 पं. रामनारायण उपाध्याय वार्ड 48 लालबहादुर शास्त्री वार्ड 49 नेताजी सुभाषचंद्र बोस वार्ड
4	अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित वार्डों में से अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड.	04	3 सूरजकुंड वार्ड 10 संत रैयदास वार्ड 44 जवाहरगंज वार्ड 46 महात्मा गांधी वार्ड
5	अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित वार्डों में से अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड.	01	5 किशोरकुमार गांगुली वार्ड
6	अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षित वार्डों में से अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड.	07	8 साईराम नगर वार्ड 14 छत्रपति शिवाजी वार्ड 30 भैरोतालाब वार्ड 39 महारानी लक्ष्मीबाई वार्ड 43 पं. रामनारायण उपाध्याय वार्ड 48 लालबहादुर शास्त्री वार्ड 49 नेताजी सुभाषचंद्र बोस वार्ड

(1)	(2)	(3)	(4)
7	महिलाओं के लिये (उक्त सरल क्रमांक 4, 5 एवं 6 के अतिरिक्त) आरक्षित कुल वार्ड.	13	1 गणेशगंज वार्ड 2 रणजीत वार्ड 11 सरोजनी नायडू वार्ड 15 गुरू नानक वार्ड 16 डॉ. राजेन्द्र प्रसाद वार्ड 22 हाटकेश्वर वार्ड 23 डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी वार्ड 24 कुण्डलेश्वर वार्ड 28 संजय गांधी वार्ड 29 पदमकुंड वार्ड 33 लोकमान्य तिलक वार्ड 35 महालक्ष्मी माता वार्ड 50 आनंद नगर वार्ड

अधि.सू-49 क्र. एफ-1-11-2013-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम 7 की अपेक्षा अनुसार नगर परिषद्, मूंदी जिला खण्डवा के लिए आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है:—

अ. क्र. (1)	वर्ग जिसके लिए आरक्षण किया गया (2)	संख्या (3)	आरक्षित वार्ड का क्रमांक व नाम (4)
1	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	01	8 डॉ. बाबा अम्बेडकर वार्ड
2	अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	02	5 भगतसिंह वार्ड 12 माखनलाल चतुर्वेदी वार्ड
3	अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षित कुल वार्ड	04	2 चन्द्रशेखर वार्ड 7 संजय गांधी वार्ड 10 जवाहरलाल नेहरू वार्ड 15 राजीवगांधी वार्ड
4	अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित वार्डों में से अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड.	निरंक	निरंक
5	अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित वार्डों में से अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड.	01	12 माखनलाल चतुर्वेदी वार्ड
6	अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित वार्डों में से अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड.	02	7 संजय गांधी वार्ड 15 राजीवगांधी वार्ड
7	महिलाओं के लिये (उक्त सरल क्रमांक 4, 5 व 6 के अलावा) आरक्षित कुल वार्ड.	05	1 महात्मागांधी वार्ड 6 इंदिरागांधी वार्ड 9 सुभाष वार्ड 11 जयप्रकाश वार्ड 13 लक्ष्मीबाई वार्ड

अधि.सू-49 क्र. एफ-1-11-2013-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम 7 की अपेक्षा अनुसार नगर परिषद्, पंधाना जिला खण्डवा के लिए आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है:—

क्र. (1)	वर्ग जिसके लिए आरक्षण किया गया (2)	कुल वार्ड (3)	आरक्षित वार्ड के क्रमांक व नाम (4)
1	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	02	8 डॉ. बाबा अम्बेडकर वार्ड 15 कुण्डलेश्वर वार्ड
2	अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	03	4 इंदिरा गांधी वार्ड 13 नेहरू वार्ड 14 सुदामा वार्ड
3	अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षित कुल वार्ड	04	2 मौलाना आजाद वार्ड 6 डॉ. जाकिर हुसैन वार्ड 11 महात्मागांधी वार्ड 12 स्वामी विवेकानंद वार्ड
4	अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित वार्डों में से अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड.	01	15 कुण्डलेश्वर वार्ड
5	अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित वार्डों में से अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड.	02	4 इंदिरा गांधी वार्ड 14 सुदामा वार्ड
6	अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षित वार्डों में से अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड.	02	6 डॉ. जाकिर हुसैन वार्ड 12 स्वामी विवेकानंद वार्ड
7	महिलाओं के लिये (उक्त सरल क्रमांक 4, 5 व 6 के अलावा) आरक्षित कुल वार्ड.	03	1 सरदार पटेल वार्ड 7 डॉ. राजेन्द्र प्रसाद वार्ड 10 शास्त्री वार्ड

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
के. के. कातिया, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 10 अक्टूबर 2014

अधि.सू-50 क्र. एफ-1-11-2013-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम 7 की अपेक्षा अनुसार नगरपालिका निगम, बुरहानपुर, जिला बुरहानपुर के लिए आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है:—

क्र. (1)	वर्ग जिसके लिए आरक्षण किया गया है वर्ष 2014 (2)	कुल वार्ड (3)	आरक्षित वार्ड के क्रमांक व नाम (4)
1	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	03	8 डॉ. अम्बेडकर वार्ड 17 आलमगंज वार्ड 47 शिवाजी वार्ड



(1)	(2)	(3)	(4)
2	अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	निरंक	निरंक
3	अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षित कुल वार्ड	12	7 तिलक वार्ड 10 चाचा फकीरचंद वार्ड 11 शास्त्री चौक वार्ड 18 सरदार पटेल वार्ड 22 मालीवाड़ा 25 लोहारमंडी 27 दाउदपुरा वार्ड 28 अब्दुल कादर, सिद्दीकी वार्ड 33 खानका वार्ड 35 राजपुरा वार्ड 41 इंदिरा वार्ड 46 गांधी कालोनी वार्ड
4	अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित वार्डों में से अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड.	02	08 डॉ. अम्बेडकर वार्ड 47 शिवाजी वार्ड
5	अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित वार्डों में से अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड.	निरंक	निरंक
6	अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित वार्डों में से अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड.	06	10 चाचा फकीरचंद वार्ड 11 शास्त्री चौक वार्ड 18 सरदार पटेल वार्ड 22 मालीवाड़ा वार्ड 25 लोहारमंडी वार्ड 35 राजपुरा वार्ड
7	महिलाओं के लिये (उक्त सरल क्रमांक 4, 5 एवं 6 के अलावा) आरक्षित कुल वार्ड.	16	1 महाजनापेठ वार्ड 2 नेहरू नगर वार्ड 6 महर्षि दयानंद वार्ड 9 शाह बाजार वार्ड 16 मालवीय वार्ड 19 इंतवारा वार्ड 20 सिंधीपुरा वार्ड 21 बुधवारा वार्ड 26 डॉ. राजेन्द्रप्रसाद वार्ड 32 शनवारा वार्ड 36 डाकवाडी वार्ड 37 न्यामतपुरा वार्ड 39 राजीव वार्ड 42 रूईकर वार्ड 43 लालबाग वार्ड 45 गुलाबगंज वार्ड

अधि.सू-50 क्र. एफ-1-11-2013-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम-7 की अपेक्षा अनुसार नगर परिषद, शाहपुर जिला बुरहानपुर के लिए आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है:—

अ. क्र. (1)	वर्ग जिसके लिए आरक्षण किया गया है वर्ष 2014 (2)	संख्या (3)	आरक्षित वार्डों का क्रमांक व नाम (4)
1	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	02	2 डॉ. अम्बेडकर वार्ड 1 स्वामी विवेकानंद वार्ड
2	अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	01	15 रानी लक्ष्मीबाई वार्ड
3	अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षित कुल वार्ड	04	3 श्री कृष्ण मंदिर वार्ड 11 तानाजी वार्ड 4 लाल बहादुर शास्त्री वार्ड 5 सरदार पटेल वार्ड
4	अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित वार्डों में से अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड.	01	2 डॉ. अम्बेडकर वार्ड
5	अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित वार्डों में से अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड.	निरंक	निरंक
6	अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित वार्डों में से अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड.	02	4 लाल बहादुर शास्त्री वार्ड 11 तानाजी वार्ड
7	महिलाओं के लिये (उक्त सरल क्रमांक 4, 5 एवं 6 के अतिरिक्त) आरक्षित कुल वार्ड.	04	8 चन्द्रशेखर वार्ड 9 सावता माली वार्ड 10 शिवाजी वार्ड 14 मौलाना आजाद वार्ड

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
के. के. कातिया, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 10 अक्टूबर 2014

अधि.सू-51 क्र. एफ-1-11-2013-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के 7 की अपेक्षा अनुसार नगर पालिका, खरगोन जिला खरगोन के लिए आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है:—

अ. क्र. (1)	वर्ग जिसके लिए आरक्षण किया गया (2)	कुल वार्ड (3)	आरक्षित वार्डों का क्रमांक एवं नाम (4)
1	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित वार्ड	03	2 नाग मंदिर वार्ड 21 अयोध्या बस्ती वार्ड 33 दामखेड़ा मंदिर वार्ड

(1)	(2)	(3)	(4)
2	अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित वार्ड	03	14 बलवंत गंज वार्ड 29 विश्वसखा कालोनी वार्ड 31 संतोषीमाता मंदिर वार्ड
3	अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षित वार्ड	08	3 सरस्वती विद्या मंदिर वार्ड 4 सर्किट हाउस वार्ड 7 बजरंग मंदिर वार्ड 8 डीआरपी लाईन वार्ड 9 रविन्द्र नगर वार्ड 13 सिद्धि विनायक वार्ड 19 श्री कृष्ण वार्ड 28 सहकारी बैंक वार्ड
4	अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए आरक्षित वार्ड	02	2 नाग मंदिर वार्ड 33 दामखेड़ा मंदिर वार्ड
5	अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित वार्ड	02	29 विश्वसखा कालोनी वार्ड 31 संतोषी माता मंदिर वार्ड
6	अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित वार्ड	04	4 सर्किट हाउस वार्ड 8 डीआरपी लाईन वार्ड 9 रविन्द्र नगर वार्ड 13 सिद्धि विनायक वार्ड
7	महिलाओं के लिये (उक्त सरल क्रमांक 4, 5 व 6 के अलावा) आरक्षित वार्ड.	08	11 डॉ अम्बेडकर वार्ड 12 सदभावना वार्ड 17 कहारवाड़ी वार्ड 22 इंदिरा नगर वार्ड 23 हनुमान मंदिर वार्ड 24 संजय नगर वार्ड 25 आजाद नगर वार्ड 32 नवग्रह मंदिर वार्ड

अधि.सू-51 क्र. एफ-1-11-2013-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के 7 की अपेक्षा अनुसार नगर पालिका सनावद जिला खरगोन के लिए आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है:—

स. क्र. (1)	वर्ग जिसके लिए आरक्षण किया गया (2)	कुल वार्ड (3)	आरक्षित वार्डों के क्रमांक एवं नाम (4)
1	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित वार्ड	02	3 डॉ अम्बेडकर वार्ड 12 लाल बहादुर शास्त्री वार्ड

(1)	(2)	(3)	(4)
2	अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित वार्ड	01	18 महात्मा गांधी वार्ड
3	अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षित वार्ड	05	1 सरदार भगतसिंह वार्ड 4 मौलाना आजाद वार्ड 8 दानवीर मयाचंद वार्ड 13 चन्द्रशेखर आजाद वार्ड 14 छत्रपति शिवाजी वार्ड
4	अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए आरक्षित वार्ड	01	03 डॉ. अम्बेडकर वार्ड
5	अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित वार्ड	-	-
6	अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित वार्ड	03	1 सरदार भगतसिंह वार्ड 8 दानवीर मयाचंद वार्ड 13 चन्द्रशेखर आजाद वार्ड
7	महिलाओं के लिये (उक्त सरल क्रमांक 4, 5 व 6 के अलावा) आरक्षित वार्ड.	05	2 गुरूनानक वार्ड 7 रानी लक्ष्मीबाई वार्ड 9 डॉ. लोहिया वार्ड 11 बलवंत वार्ड 15 गोस्वामी तुलसीदास वार्ड

अधि.सू-51 क्र. एफ-1-11-2013-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के 7 की अपेक्षा अनुसार नगर पालिका बड़वाह जिला खरगोन के लिए आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है:—

क्र. (1)	वर्ग जिसके लिए आरक्षित किया गया (2)	कुल वार्ड (3)	आरक्षित वार्ड के क्रमांक एवं नाम (4)
1	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित वार्ड	01	4 विनोबा वार्ड
2	अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित वार्ड	01	07 डॉ राजेन्द्र प्रसाद वार्ड
3	अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षित वार्ड	05	6 महावीर वार्ड 9 जवाहर वार्ड 10 शिवाजी वार्ड 14 महात्मागांधी वार्ड 18 नागेश्वर वार्ड
4	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित वार्डों में से अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिये आरक्षित वार्ड.	-	-
5	अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित वार्डों में से अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिये आरक्षित वार्ड.	-	-
6	अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षित वार्डों में से अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिये आरक्षित वार्ड.	03	10 शिवाजी वार्ड 14 महात्मा गांधी वार्ड 18 नागेश्वर वार्ड

(1)	(2)	(3)	(4)
7	महिलाओं के लिये (उक्त सरल क्रमांक 4, 5 व 6 के अलावा) आरक्षित वार्ड.	06	1 सरदार वल्लभ भाई पटेल वार्ड 5 कस्तुरबा वार्ड 8 तिलक वार्ड 11 लक्ष्मीबाई वार्ड 12 मौलाना आजाद वार्ड 17 मिर्जा गालिब वार्ड

अधि.सू-51 क्र. एफ-1-11-2013-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के 7 की अपेक्षा अनुसार नगर परिषद, कसरावद जिला खरगोन के लिए आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है:—

क्र. (1)	वर्ग जिसके लिए आरक्षित किया गया (2)	कुल वार्ड (3)	आरक्षित वार्ड के क्रमांक एवं नाम (4)
1	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित वार्ड	03	1 महात्मा गंधी वार्ड 2 स्वामी विवेकानंद वार्ड 15 डॉ. भीमराव अम्बेडकर वार्ड
2	अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित वार्ड	02	6 सरदार वल्लभभाई पटेल वार्ड 8 रानी लक्ष्मीबाई वार्ड
3	अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षित वार्ड	03	5 वीर शिवाजी वार्ड 10 चन्द्रशेखर आजाद वार्ड 12 महाराणा प्रताप वार्ड
4	अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए आरक्षित वार्ड	02	2 स्वामी विवेकानंद वार्ड 15 डॉ. भीमराव अम्बेडकर वार्ड
5	अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित वार्ड	01	8 रानी लक्ष्मीबाई वार्ड
6	अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित वार्ड	02	10 चन्द्रशेखर आजाद वार्ड 12 महाराणा प्रताप वार्ड
7	महिलाओं के लिये (उक्त सरल क्रमांक 4, 5 व 6 के अलावा) आरक्षित वार्ड.	02	7 शहीद भगतसिंह वार्ड 9 पं. जवाहरलाल नेहरू वार्ड

अधि.सू-51 क्र. एफ-1-11-2013-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के 7 की अपेक्षा अनुसार नव गठित नगर परिषद, करही-पाड़ल्या जिला खरगोन के लिए आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है:—

क्र. (1)	वर्ग जिसके लिए आरक्षित किया गया (2)	कुल वार्ड (3)	आरक्षित वार्डों के क्रमांक एवं नाम (4)
1	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित वार्ड	03	9 चन्द्रशेखर आजाद वार्ड 12 दीनदयाल उपाध्याय वार्ड 15 स्वामी विवेकानंद वार्ड
2	अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित वार्ड	01	2 महाराणा प्रताप वार्ड
3	अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षित वार्ड	04	3 सरदार पटेल वार्ड 4 भगतसिंह वार्ड 5 महावीर वार्ड 7 रानी लक्ष्मीबाई वार्ड
4	अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए आरक्षित वार्ड	02	9 चन्द्रशेखर आजाद वार्ड 12 दीनदयाल उपाध्याय वार्ड
5	अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित वार्ड	-	- -
6	अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित वार्ड	02	4 भगतसिंह वार्ड 7 रानी लक्ष्मीबाई वार्ड
7	महिलाओं के लिये उक्त सरल क्रमांक 4, 5 एवं 6 के अलावा आरक्षित वार्ड.	03	8 लोकमान्य तिलकवार्ड 10 वीर सावरकार वार्ड 11 श्यामा प्रसाद मुखर्जी वार्ड

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
के. के. कातिया, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 10 अक्टूबर 2014

अधि. सू. 52 क्र. एफ 1-11-13-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम 7 की अपेक्षा अनुसार नगर पालिका परिषद, गुना, जिला गुना के लिए आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है:—

क्र. (1)	वर्ग जिसके लिए वार्ड आरक्षित किया गया (2)	कुल वार्ड (3)	आरक्षित वार्ड के क्रमांक एवं नाम (4)
1	अनु. जाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	06	20 परशुराम वार्ड 21 चन्द्रशेखर आजाद वार्ड 23 विनोवाभावे वार्ड 24 डॉ. अम्बेडकर वार्ड 34 शिवाजी वार्ड 37 महर्षि अरविंद वार्ड
2	अनु. जनजाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	01	30 संत कबीर वार्ड
3	अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षित कुल वार्ड	09	05 स्वामी विवेकानंद वार्ड 08 रैदास वार्ड 09 महाराणा प्रताप वार्ड 10 मदनमोहन वार्ड 12 महारानी लक्ष्मीबाई वार्ड 16 लालबहादुर शास्त्री वार्ड 22 जगजीवन वार्ड 27 लोकमान्य तिलक वार्ड 33 पं. दीनदयाल वार्ड
4	अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	03	20 परशुराम वार्ड 21 चन्द्रशेखर आजाद वार्ड 24 डॉ. अम्बेडकर वार्ड
5	अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	निरंक	निरंक निरंक
6	अन्य पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	05	05 स्वामी विवेकानंद वार्ड 09 महाराणा प्रताप वार्ड 10 मदनमोहन वार्ड 16 लालबहादुर शास्त्री वार्ड 27 लोकमान्य तिलक वार्ड
7	महिलाओं के लिये (उक्त सरल क्रमांक 04, 05, 06 के अलावा) आरक्षित वार्ड	10	02 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वार्ड 04 विद्यार्थी गणेशशंकर वार्ड 06 शीतलामाता वार्ड 14 सुभाष चन्द्र बोस वार्ड 15 अशोक वार्ड 17 शहीद भगत सिंह वार्ड 19 तात्याटोपे वार्ड 25 कमला नेहरू वार्ड 26 राजीव गांधी वार्ड 31 संजय गांधी वार्ड

अधि. सू. 52 क्र. एफ 1-11-13-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम 7 की अपेक्षा अनुसार नगर पालिका परिषद, कुंभराज, जिला गुना के लिए आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है:—

क्र. (1)	वर्ग जिसके लिए वार्ड आरक्षित किया गया (2)	कुल वार्ड (3)	आरक्षित वार्ड के क्रमांक एवं नाम (4)
1	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	02	01 अम्बेडकर वार्ड 02 संजय वार्ड
2	अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	01	08 महाराणा प्रताप वार्ड
3	अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षित कुल वार्ड	04	04 महात्मा गांधी वार्ड 07 लक्ष्मीबाई वार्ड 14 पंचायती मंदिर वार्ड 15 इंदिरा गांधी वार्ड
4	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित वार्डों में से अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	01	02 संजय वार्ड
5	अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित वार्डों में से अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	निरंक	निरंक
6	अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षित वार्डों में से अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	02	14 पंचायती मंदिर वार्ड 15 इंदिरा गांधी वार्ड
7	महिलाओं के उक्त सरल क्रमांक (4) (5) एवं (6) के अतिरिक्त आरक्षित कुल वार्ड.	04	10 सुभाष वार्ड 11 चन्द्रशेखर वार्ड 12 जवाहर वार्ड 13 खेडापति वार्ड

अधि. सू. 52 क्र. एफ 1-11-13-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम 7 की अपेक्षा अनुसार नगर परिषद, चाचौड़ा बीनागंज, जिला गुना के लिए आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है:—

क्र. (1)	वर्ग जिसके लिए वार्ड आरक्षित किया गया (2)	कुल वार्ड (3)	आरक्षित वार्ड के क्रमांक एवं नाम (4)
1	अनु. जाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	02	14 कबीर वार्ड 15 लक्ष्मीबाई वार्ड
2	अनु. जनजाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	निरंक	निरंक
3	अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षित कुल वार्ड	04	07 भगत सिंह वार्ड 09 राजीव गांधी वार्ड 11 राधाकृष्ण वार्ड 12 राजेन्द्र वार्ड
4	अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	01	15 लक्ष्मीबाई वार्ड



(1)	(2)	(3)	(4)
5	अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	निरंक	निरंक
6	अन्य पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	02	09 राजीव गांधी वार्ड 11 राधाकृष्ण वार्ड
7	महिलाओं के लिये (उक्त सरल क्रमांक 04, 05, 06 के अलावा आरक्षित वार्ड)	04	01 बागवागेश्वर वार्ड 02 अशोक वार्ड 05 गांधी वार्ड 08 दीनदयाल वार्ड

अधि. सू. 52 क्र. एफ 1-11-13-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम 7 की अपेक्षा अनुसार नगर परिषद्, आरोन, जिला गुना के लिए आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है:—

क्र. (1)	वर्ग जिसके लिए वार्ड आरक्षित किया गया (2)	कुल वार्ड (3)	आरक्षित वार्ड के क्रमांक एवं नाम (4)
1	अनु. जाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	03	13 वायपास कॉलोनी, सरदार भगत सिंह वार्ड 14 बरबटपुरा सियाराम वार्ड 15 संत रविदास वार्ड
2	अनु. जनजाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	निरंक	निरंक निरंक
3	अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षित कुल वार्ड	04	01 आदिवासीपुरा, संत कबीरदास वार्ड 02 छोटा हरिजनपुरा, अम्बेडकर वार्ड 06 महादेव मोहल्ला, महाराणा प्रताप वार्ड 12 गांधी नगर, दत्तात्रय वार्ड
4	अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	02	13 वायपास कॉलोनी, सरदार भगत सिंह वार्ड 14 बरबटपुरा सियाराम वार्ड
5	अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	निरंक	निरंक निरंक
6	अन्य पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	02	01 आदिवासीपुरा, संत कबीरदास वार्ड 02 छोटा हरिजनपुरा, अम्बेडकर वार्ड
7	महिलाओं के लिये (उक्त सरल क्रमांक 04, 05, 06 के अलावा) आरक्षित वार्ड.	03	04 प्रतापमार्ग स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वार्ड 09 नारायण कालोनी, सुभाषचन्द्र बोस वार्ड 10 सरस्वती कालोनी, जवाहरलाल नेहरू वार्ड

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
के. के. कातिया, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 10 अक्टूबर 2014

अधि.सू. 53 क्र. एफ 1-11-13-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम 7 की अपेक्षा अनुसार नगर पालिका, सबलगढ़, जिला मुरैना के लिए आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है:—

क्र. (1)	वर्ग जिसके लिए वार्ड आरक्षित किया गया (2)	कुल वार्ड (3)	आरक्षित वार्ड के क्रमांक एवं नाम (4)
1	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	03	01 पटेल वार्ड 12 अम्बेडकर वार्ड 13 मालवीय वार्ड
2	अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	निल	निल
3	अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षित कुल वार्ड	05	03 लालबहादुर शास्त्री वार्ड 05 भगत सिंह वार्ड 07 आजाद वार्ड 10 राजेन्द्र वार्ड 11 कबीर वार्ड
4	अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	01	01 पटेल वार्ड
5	अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	निल	निल
6	अन्य पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	03	03 लालबहादुर शास्त्री वार्ड 07 आजाद वार्ड 10 राजेन्द्र वार्ड
7	महिलाओं के लिये (उक्त सरल क्रमांक 4, 5 व 6 के अलावा) आरक्षित वार्ड.	05	04 गांधी वार्ड 09 अन्नपूर्णा वार्ड 14 तिलक वार्ड 16 गुरूनानक वार्ड 17 अवन्तीबाई वार्ड

अधि.सू. 53 क्र. एफ 1-11-13-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम 7 की अपेक्षा अनुसार नगर पालिका, अम्बाह, जिला मुरैना के लिए आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है:—

क्र. (1)	वर्ग जिसके लिए वार्ड आरक्षित किया गया (2)	कुल वार्ड (3)	आरक्षित वार्ड के क्रमांक एवं नाम (4)
1	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	03	10 राजीव वार्ड 11 अम्बेडकर वार्ड 17 किला वार्ड
2	अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	निल	निल
3	अन्य पिछड़ा वर्गों के लिये आरक्षित कुल वार्ड	05	02 इंदिरा गांधी वार्ड 04 बाबा दशरथ वार्ड 06 महात्मा गांधी वार्ड 09 गुरूद्वारा वार्ड 16 महावीर वार्ड

(1)	(2)	(3)	(4)
4	अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	01	17 किला वार्ड
5	अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	निरंक	निरंक
6	अन्य पिछड़ा वर्गों की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	03	02 इंदिरा गांधी वार्ड 04 बाबा दशरथ वार्ड 09 गुरुद्वारा वार्ड
7	महिलाओं के लिये (उक्त सरल क्रमांक 4, 5 व 6 के अलावा) आरक्षित वार्ड.	05	05 तिलक वार्ड 07 सुभाष वार्ड 08 बिस्मिल वार्ड 13 चन्द्रशेखर आजाद वार्ड 15 महाराणा प्रताप वार्ड

अधि. सू. 53 क्र. एफ 1-11-13-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम 7 की अपेक्षा अनुसार नगर पालिका, पोरसा, जिला मुरैना के लिए आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है:—

क्र. (1)	वर्ग जिसके लिए वार्ड आरक्षित किया गया (2)	कुल वार्ड (3)	आरक्षित वार्ड के क्रमांक एवं नाम (4)
1	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	03	02 श्रीमती इंदिरा गांधी वार्ड 09 रामनगर वार्ड 10 शिवाजी वार्ड
2	अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	निल	निल
3	अन्य पिछड़ा वर्गों के लिये आरक्षित कुल वार्ड	04	03 मौलाना आजाद वार्ड 11 राममनोहर लोहिया वार्ड 12 जवाहर लाल नेहरू वार्ड 15 अम्बेडकर वार्ड
4	अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	02	02 श्रीमती इंदिरा गांधी वार्ड 09 रामनगर वार्ड
5	अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	निल	निल
6	अन्य पिछड़ा वर्गों की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	02	12 जवाहर लाल नेहरू वार्ड 15 अम्बेडकर वार्ड
7	महिलाओं के लिये (उक्त सरल क्रमांक 4, 5 व 6 के अलावा) आरक्षित वार्ड.	04	05 लाल बहादुर शास्त्री वार्ड 06 सुभाष चन्द्रबोस वार्ड 08 विवेकानंद वार्ड 14 तिलक वार्ड

अधि. सू. 53 क्र. एफ 1-11-13-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम 7 की अपेक्षा अनुसार नगर परिषद, कैलारस, जिला भुरैना के लिए आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है:—

क्र. (1)	वर्ग जिसके लिए वार्ड आरक्षित किया गया (2)	कुल वार्ड (3)	आरक्षित वार्ड के क्रमांक एवं नाम (4)
1	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	03	02 महात्मा गांधी वार्ड 03 झलकारी बाई वार्ड 09 लक्ष्मीबाई वार्ड
2	अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	निल	निल
3	अन्य पिछड़ा वर्गों के लिये आरक्षित कुल वार्ड	04	04 अम्बेडकर वार्ड 05 पंडित दीनदयाल वार्ड 11 रामप्रसाद बिस्मिल वार्ड 13 रानीदुर्गावती वार्ड
4	अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	01	03 झलकारी बाई वार्ड
5	अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	निल	निल
6	अन्य पिछड़ा वर्गों की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	02	11 रामप्रसाद बिस्मिल वार्ड 13 रानीदुर्गावती वार्ड
7	महिलाओं के लिये (उक्त सरल क्रमांक 4, 5 व 6 के अलावा) आरक्षित वार्ड.	04	01 असफाक उल्ला खाँ वार्ड 06 चन्द्रशेखर आजाद वार्ड 10 डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी वार्ड 12 राजमाता विजयाराजे सिंधिया वार्ड

अधि.सू. 53 क्र. एफ 1-11-13-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम 7 की अपेक्षा अनुसार नगर परिषद, झुण्डपुरा, जिला भुरैना के लिए आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है:—

क्र. (1)	वर्ग जिसके लिए वार्ड आरक्षित किया गया (2)	कुल वार्ड (3)	आरक्षित वार्ड के क्रमांक एवं नाम (4)
1	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	03	06 लालबहादुर शास्त्री वार्ड 07 विवेकानंद वार्ड 15 बाल्मिकी वार्ड
2	अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	निल	निल
3	अन्य पिछड़ा वर्गों के लिये आरक्षित कुल वार्ड	04	04 सुभाष वार्ड 05 लक्ष्मीबाई वार्ड 09 रविन्द्रनाथ टैगोर वार्ड 14 डॉ. राजेन्द्र प्रसाद वार्ड
4	अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	01	06 लालबहादुर शास्त्री वार्ड
5	अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	निल	निल

(1)	(2)	(3)	(4)
6	अन्य पिछड़ा वर्गों की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	02	04 सुभाष वार्ड 14 डॉ. राजेन्द्र प्रसाद वार्ड
7	महिलाओं के लिये (उक्त सरल क्रमांक 4, 5 व 6 के अलावा) आरक्षित वार्ड	04	02 महात्मा गांधी वार्ड 08 शिवाजी वार्ड 10 डॉ. भीमराव अम्बेडकर वार्ड 11 तात्याटोपे वार्ड

अधि. सू. 53 क्र. एफ 1-11-13-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम 7 की अपेक्षा अनुसार नगर परिषद, जौरा, जिला मुरैना के लिए आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है:—

क्र. (1)	वर्ग जिसके लिए वार्ड आरक्षण आरक्षित किया गया (2)	कुल वार्ड (3)	आरक्षित वार्ड के क्रमांक एवं नाम (4)
1	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	04	03 अम्बेडकर वार्ड 16 महाराज अग्रसेन वार्ड 17 माधव वार्ड 18 पंडित दीनदयाल वार्ड
2	अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	निल	निल
3	अन्य पिछड़ा वर्गों के लिये आरक्षित कुल वार्ड	05	05 चन्द्रशेखर आजाद वार्ड 08 महाराणा प्रताप वार्ड 10 गांधी वार्ड 13 बाल्मिक वार्ड 14 शिवाजी वार्ड
4	अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	02	16 महाराज अग्रसेन वार्ड 18 पंडित दीनदयाल वार्ड
5	अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	निल	निल
6	अन्य पिछड़ा वर्गों की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	02	13 बाल्मिक वार्ड 14 शिवाजी वार्ड
7	महिलाओं के लिये (उक्त सरल क्रमांक 4, 5 व 6 के अलावा) आरक्षित वार्ड.	05	01 रामप्रसाद बिस्मिल वार्ड 06 रविन्द्रनाथ टैगोर वार्ड 09 शास्त्री वार्ड 11 लक्ष्मीबाई वार्ड 15 भगत सिंह वार्ड

अधि. सू. 53 क्र. एफ 1-11-13-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम 7 की अपेक्षा अनुसार नगर पालिका, बानमोर, जिला मुरैना के लिए आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है:—

क्र. (1)	वर्ग जिसके लिए वार्ड आरक्षित किया गया (2)	कुल वार्ड (3)	आरक्षित वार्ड के क्रमांक एवं नाम (4)
1	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	04	06 रविदास वार्ड 08 सुभाष वार्ड 13 विवेकानंद वार्ड 14 अम्बेडकर वार्ड
2	अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	निल	निल
3	अन्य पिछड़ा वर्गों के लिये आरक्षित कुल वार्ड	04	01 गांधी वार्ड 07 आजाद वार्ड 10 नेहरू वार्ड 12 टैगोर वार्ड
4	अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	02	06 रविदास वार्ड 08 सुभाष वार्ड
5	अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	निल	निल
6	अन्य पिछड़ा वर्गों की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	02	07 आजाद वार्ड 10 नेहरू वार्ड
7	महिलाओं के लिये (उक्त सरल क्रमांक 4, 5 व 6 के अलावा) आरक्षित वार्ड.	04	03 महावीर वार्ड 04 शीलता वार्ड 09 तिलक वार्ड 11 तुलसी वार्ड

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
के. के. कातिया, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 10 अक्टूबर 2014

अधि. सू. 54 क्र. एफ 1-11-13-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम 7 की अपेक्षा अनुसार नगर पालिका निगम, ग्वालियर, जिला ग्वालियर के लिए आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है:—

क्र. (1)	वर्ग जिसके लिए वार्ड आरक्षण किया गया (2)	कुल वार्ड (3)	आरक्षित वार्ड के क्रमांक एवं नाम (4)
1	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	11	05 तामेश्वर वार्ड 16 लाल बहादुर शास्त्री वार्ड 20 डॉ. हरि रामचन्द्र दिवेकर वार्ड 21 पंचशील वार्ड 22 कबीर वार्ड 23 द्वारिकाधीश वार्ड 28 शांति निकेतन वार्ड

(1)	(2)	(3)	(4)
			37 उस्ताद हाफिज अली खा. वार्ड
			38 अंबेडकर वार्ड
			60 पं. रविशंकर वार्ड
			61 सिरौल वार्ड
2	अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	01	06 मंगलेश्वर वार्ड
3	अन्य पिछड़ा वर्गों के लिये आरक्षित कुल वार्ड	17	07 इन्द्रा वार्ड
			08 श्रमिक वार्ड
			11 चन्द्रशेखर आजाद वार्ड
			14 सेवानगर वार्ड
			18 तिलक वार्ड
			25 शहीद भगत सिंह वार्ड
			30 कैप्टन रूपसिंह वार्ड
			33 संत रविदास वार्ड
			40 ढोलीबुआ महाराज वार्ड
			41 शहीद हेमू कालानी वार्ड
			42 संत झूलेलाल वार्ड
			49 महात्मा ज्योतिवा फुले वार्ड
			54 जवाहर वार्ड
			55 मकबूल अहमद वार्ड
			57 संजय गांधी वार्ड
			58 महादजी सिंधिया वार्ड
			66 नौगांव वार्ड
4	अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	06	05 तामेश्वर वार्ड
			16 लाल बहादुर शास्त्री वार्ड
			22 कबीर वार्ड
			23 द्वारिकाधीश वार्ड
			60 पं. रविशंकर वार्ड
			61 सिरौल वार्ड
5	अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	निरंक	निरंक
6	अन्य पिछड़ा वर्गों की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	09	08 श्रमिक वार्ड
			25 शहीद भगत सिंह वार्ड
			30 कैप्टन रूपसिंह वार्ड
			41 शहीद हेमू कालानी वार्ड
			49 महात्मा ज्योतिवा फुले वार्ड
			54 जवाहर वार्ड
			55 मकबूल अहमद वार्ड
			57 संजय गांधी वार्ड
			58 महादजी सिंधिया वार्ड
7	महिलाओं के लिये (उक्त सरल क्रमांक 4, 5 व 6 के अलावा) आरक्षित वार्ड	18	03 शब्दप्रताप आश्रम वार्ड
			04 कोटेश्वर वार्ड

(1)	(2)	(3)	(4)
			15 माधवी वार्ड
			17 छत्रपति शिवाजी वार्ड
			29 स्वामी विवेकानन्द वार्ड
			32 वीरांगना लक्ष्मीबाई वार्ड
			34 महात्मा गांधी वार्ड
			35 लाला लाजपत राय वार्ड
			39 तात्या टोपे वार्ड
			43 शहीद अमरचंद बाठिया वार्ड
			45 अचलेश्वर वार्ड
			47 पं. कृष्णराव शंकरराव वार्ड
			50 मंसूरशाह दाता वार्ड
			53 मेजर करतार सिंह वार्ड
			59 हरि सिंह दर्शन सिंह वार्ड
			63 जमाहर वार्ड
			64 पुरानी छावनी वार्ड
			65 गिरवई वार्ड

अधि. सू. 54 क्र. एफ 1-11-13-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम 7 की अपेक्षा अनुसार नगर परिषद, आंतरी, जिला ग्वालियर के लिए आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है:—

क्र. (1)	वर्ग जिसके लिए वार्ड आरक्षित किया गया (2)	कुल वार्ड (3)	आरक्षित वार्ड के क्रमांक एवं नाम (4)
1	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	02	07 भगत सिंह वार्ड 14 अम्बेडकर वार्ड
2	अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	निरंक	निरंक
3	अन्य पिछड़ा वर्गों के लिये आरक्षित कुल वार्ड	04	01 शीतला माता वार्ड 10 राजीव गांधी वार्ड 11 स्वामी विवेकानन्द वार्ड 15 रानी दुर्गावती वार्ड
4	अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	01	14 अम्बेडकर वार्ड
5	अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	निरंक	निरंक
6	अन्य पिछड़ा वर्गों की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	02	01 शीतला माता वार्ड 11 स्वामी विवेकानन्द वार्ड
7	महिलाओं के लिये (उक्त सरल क्रमांक 4, 5 व 6 के अलावा) आरक्षित वार्ड	04	03 महात्मा गांधी वार्ड 04 नेहरू वार्ड 05 अब्दुल फजल वार्ड 08 मार्केण्डेश्वर वार्ड 12 महारानी लक्ष्मीबाई वार्ड



अधि. सू. 54 क्र. एफ 1-11-13-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम 7 की अपेक्षा अनुसार नगर परिषद, बिलौआ, जिला खालियर के लिए आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है:—

क्र. (1)	वर्ग जिसके लिए वार्ड आरक्षित किया गया (2)	कुल वार्ड (3)	आरक्षित वार्ड के क्रमांक एवं नाम (4)
1	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	03	02 डॉ. अम्बेडकर वार्ड 03 महात्मा गांधी वार्ड 15 रविन्द्रनाथ टैगोर वार्ड
2	अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	निरंक	निरंक
3	अन्य पिछड़ा वर्गों के लिये आरक्षित कुल वार्ड	04	01 चन्द्रशेखर आजाद वार्ड 05 लाल बहादुर शास्त्री वार्ड 08 महारानी लक्ष्मीबाई वार्ड 09 इन्दिरा गांधी वार्ड
4	अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	02	03 महात्मा गांधी वार्ड 15 रविन्द्रनाथ टैगोर वार्ड
5	अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	निरंक	निरंक
6	अन्य पिछड़ा वर्गों की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	02	05 लाल बहादुर शास्त्री वार्ड 09 इन्दिरा गांधी वार्ड
7	महिलाओं के लिये (उक्त सरल क्रमांक 4, 5 व 6 के अलावा) आरक्षित वार्ड	04	04 पण्डित जवाहरलाल नेहरू वार्ड 07 शिवाजी वार्ड 10 सुभाष चन्द्र बोस वार्ड 14 सरदार बल्लभ भाई पटेल वार्ड

अधि. सू. 54 क्र. एफ 1-11-13-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम 7 की अपेक्षा अनुसार नगर परिषद, भितरवार, जिला खालियर के लिए आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है:—

क्र. (1)	वर्ग जिसके लिए वार्ड आरक्षित किया गया (2)	कुल वार्ड (3)	आरक्षित वार्ड के क्रमांक एवं नाम (4)
1	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	03	03 अम्बेडकर वार्ड 04 आजाद वार्ड 05 महात्मा गांधी वार्ड
2	अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	निरंक	निरंक
3	अन्य पिछड़ा वर्गों के लिये आरक्षित कुल वार्ड	04	06 जवाहर वार्ड 10 इन्दिरा गांधी वार्ड 11 लाल बहादुर शास्त्री वार्ड 15 राजेन्द्र प्रसाद वार्ड
4	अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	02	04 आजाद वार्ड 05 महात्मा गांधी वार्ड

(1)	(2)	(3)	(4)
5	अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	निरंक	निरंक
6	अन्य पिछड़ा वर्गों की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	02	10 इंदिरा गांधी वार्ड 15 डॉ. राजेन्द्र प्रसाद वार्ड
7	महिलाओं के लिये (उक्त सरल क्रमांक 4, 5 व 6 के अलावा) आरक्षित वार्ड	04	01 महारानी लक्ष्मीबाई वार्ड 08 सुभाष वार्ड 09 भगत सिंह वार्ड 12 मौ. अब्दुल कलाम वार्ड

अधि. सू. 54 क्र. एफ 1-11-13-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम 7 की अपेक्षा अनुसार नगर परिषद्, पिछौर, जिला ग्वालियर के लिए आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है:—

क्र. (1)	वर्ग जिसके लिए वार्ड आरक्षित किया गया (2)	कुल वार्ड (3)	आरक्षित वार्ड के क्रमांक एवं नाम (4)
1	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	03	01 कालिन्दी वार्ड 04 महात्मा गांधी वार्ड 09 डॉ. अम्बेडकर वार्ड
2	अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	निरंक	निरंक
3	अन्य पिछड़ा वर्गों के लिये आरक्षित कुल वार्ड	04	06 चन्द्रशेखर वार्ड 07 डॉ. राजेन्द्र प्रसाद वार्ड 11 मौलाना आजाद वार्ड 13 भगतसिंह वार्ड
4	अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	02	01 कालिन्दी वार्ड 04 महात्मा गांधी वार्ड
5	अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	निरंक	निरंक
6	अन्य पिछड़ा वर्गों की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	02	07 डॉ. राजेन्द्र प्रसाद वार्ड 11 मौलाना आजाद वार्ड
7	महिलाओं के लिये (उक्त सरल क्रमांक 4, 5 व 6 के अलावा) आरक्षित वार्ड	04	03 शास्त्री वार्ड 05 विवेकानन्द वार्ड 08 डॉ. जाकिर हुसैन वार्ड 10 नेहरू वार्ड

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
के. के. कातिया, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 10 अक्टूबर 2014

अधि.सू. 55 क्र. एफ 1-11-13-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम 7 की अपेक्षा अनुसार नगर पालिका परिषद्, श्योपुर, जिला श्योपुर के लिए आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है:—

क्र. (1)	वर्ग जिसके लिए आरक्षण किया गया (2)	कुल वार्ड (3)	आरक्षित वार्ड के क्रमांक व नाम (4)
1	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	03	11 डॉ. अम्बेडकर वार्ड 20 मालवीय वार्ड 10 लोकमान्य तिलक वार्ड
2	अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	01	17 महात्मा गांधी वार्ड
3	अन्य पिछड़ा वर्गों के लिये आरक्षित कुल वार्ड	06	09 पटेल वार्ड 07 शास्त्री वार्ड 03 महावीर स्वामी वार्ड 06 राजेन्द्र वार्ड 08 सुभाष वार्ड 04 जवाहर वार्ड
4	अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	01	11 डॉ. अम्बेडकर वार्ड
5	अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिये कुल वार्ड	कोई नहीं	कोई नहीं
6	अन्य पिछड़ा वर्गों की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	03	09 पटेल वार्ड 07 शास्त्री वार्ड 06 राजेन्द्र वार्ड
7	महिलाओं के लिये (उक्त सरल क्रमांक 4, 5 व 6 के अलावा) आरक्षित वार्ड.	07	05 स्वामी विवेकानन्द वार्ड 15 टैगोर वार्ड 22 संजय वार्ड 13 संत विनोबा भावे वार्ड 21 गणेश वार्ड 14 शिवाजी वार्ड 01 मौलाना आजाद वार्ड

अधि.सू. 55 क्र. एफ 1-11-13-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम 7 की अपेक्षा अनुसार नगर परिषद्, बडौदा, जिला श्योपुर के लिए आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है:—

क्र. (1)	वर्ग जिसके लिए वार्ड आरक्षण किया गया (2)	कुल वार्ड (3)	आरक्षित वार्ड के क्रमांक व नाम (4)
1	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	03	05 महात्मा गांधी वार्ड 15 शिवाजी वार्ड 12 डॉ. अम्बेडकर वार्ड
2	अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	01	14 संजय गांधी वार्ड

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3	अन्य पिछड़ा वर्गों के लिये आरक्षित कुल वार्ड		04	06	डॉ. राधाकृष्णन वार्ड 09 डॉ. जाकिर हुसैन वार्ड 11 लक्ष्मी बाई वार्ड 01 इन्दिरा गांधी वार्ड
4	अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड		01	15	शिवाजी वार्ड
5	अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड		कोई नहीं	कोई नहीं	
6	अन्य पिछड़ा वर्गों की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड		02	09	डॉ. जाकिर हुसैन वार्ड 01 इन्दिरा गांधी वार्ड
7	महिलाओं के लिये (उक्त सरल क्रमांक 4, 5 व 6 के अलावा) आरक्षित वार्ड.		04	08	सुभाष चन्द्र वार्ड 07 राजा भवानी सिंह वार्ड 13 महाराणा प्रताप वार्ड 10 राजीव गांधी वार्ड

अधि.सू. 55 क्र. एफ 1-11-13-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम 7 की अपेक्षा अनुसार नगर परिषद्, विजयपुर, जिला श्योपुर के लिए आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है:—

क्र. (1)	वर्ग जिसके लिए वार्ड आरक्षण किया गया (2)	कुल वार्ड (3)	आरक्षित वार्ड के क्रमांक व नाम (4)
1	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	03	07 विनोवा भावे वार्ड 15 डॉ. राजेन्द्र प्रसाद वार्ड 01 डॉ. अम्बेडकर वार्ड
2	अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	01	03 वाल्मिक वार्ड
3	अन्य पिछड़ा वर्गों के लिये आरक्षित कुल वार्ड	04	11 गांधी वार्ड 10 नेहरू वार्ड 06 लक्ष्मी बाई वार्ड 12 सुभाष वार्ड
4	अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	01	15 डॉ. राजेन्द्र प्रसाद वार्ड
5	अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिये कुल वार्ड	कोई नहीं	कोई नहीं
6	अन्य पिछड़ा वर्गों की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	02	12 सुभाष वार्ड 11 गांधी वार्ड
7	महिलाओं के लिये (उक्त सरल क्रमांक 4, 5 व 6 के अलावा) आरक्षित वार्ड	04	05 इन्दिरा गांधी वार्ड 08 तिलक वार्ड 02 ईसामसीह वार्ड 14 चन्द्रशेखर वार्ड

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
के. के. कातिया, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 10 अक्टूबर 2014

अधि.सू. 56 क्र. एफ 1-11-13-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम 7 की अपेक्षा अनुसार नगरपालिका, भिण्ड, जिला भिण्ड के लिए आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है:—

क्र. (1)	वर्ग जिसके लिए आरक्षण किया गया (2)	कुल वार्ड (3)	आरक्षित वार्ड के क्रमांक व नाम (4)
1	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	08	04 संत कबीर वार्ड 07 डॉ. राममनोहर लोहिया वार्ड 10 महर्षि दयानंद सरस्वती वार्ड 11 डॉ. अम्बेडकर वार्ड 24 जगजीवन राम वार्ड 25 यदुनाथ सिंह चतुर्वेदी वार्ड 26 भक्त रविदास वार्ड 39 महात्मा गांधी वार्ड
2	अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	-	निरंक
3	अन्य पिछड़ा वर्गों के लिये आरक्षित कुल वार्ड	10	02 दिगम्बर जैन नसिया वार्ड 06 गुरूनानक वार्ड 14 सुभाष चंद्र वार्ड 18 महारानी लक्ष्मीबाई वार्ड 21 सरोजनी नायडू वार्ड 22 डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी वार्ड 30 वल्लभ भाई पटेल वार्ड 31 महाकवि निराला वार्ड 32 जयप्रकाश नारायण वार्ड 33 सर्वोदय वार्ड
4	अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	04	07 डॉ. राममनोहर लोहिया वार्ड 11 डॉ. अम्बेडकर वार्ड 24 जगजीवन राम वार्ड 25 यदुनाथ सिंह चतुर्वेदी वार्ड
5	अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	-	निरंक
6	अन्य पिछड़ा वर्गों की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	05	06 गुरूनानक वार्ड 21 सरोजनी नायडू वार्ड 22 डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी वार्ड 31 महाकवि निराला वार्ड 32 जयप्रकाश नारायण वार्ड
7	महिलाओं के लिये (उक्त सरल क्रमांक 4, 5 व 6 के अलावा) आरक्षित वार्ड.	10	01 बजरंगी वार्ड 03 रविन्द्र नाथ टैगोर वार्ड 09 लालबहादुर शास्त्री वार्ड 12 पं. जवाहर लाल नेहरू वार्ड 13 महावीर स्वामी वार्ड 15 स्वामी विवेकानंद वार्ड 19 चन्द्रशेखर वार्ड 27 भगत सिंह वार्ड 34 चैत्यालय जैन मंदिर वार्ड 36 रघुवीर सिंह कुशवाह वार्ड

अधि.सू. 56 क्र. एफ 1-11-13-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम 7 की अपेक्षा अनुसार नगरपालिका, गोहद, जिला भिण्ड के लिए आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है:—

क्र. (1)	वर्ग जिसके लिए आरक्षण किया गया (2)	कुल वार्ड (3)	आरक्षित वार्ड के क्रमांक व नाम (4)
1	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	05	01 अम्बेडकर वार्ड 03 लालबहादुर शास्त्री वार्ड 04 गांधी वार्ड 16 पं. दीनदयाल वार्ड 17 शहीद हरीसिंह दर्शन सिंह वार्ड
2	अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	-	निरंक
3	अन्य पिछड़ा वर्गों के लिये आरक्षित कुल वार्ड	04	11 लक्ष्मण वार्ड 12 जवाहर वार्ड 14 नगरपालिका वार्ड 15 संजय वार्ड
4	अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिये कुल आरक्षित वार्ड	03	03 लालबहादुर शास्त्री वार्ड 04 गांधी वार्ड 16 पं. दीनदयाल वार्ड
5	अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	-	निरंक
6	अन्य पिछड़ा वर्गों की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	02	12 जवाहर वार्ड 14 नगरपालिका वार्ड
7	महिलाओं के लिये (उक्त सरल क्रमांक 4, 5 व 6 के अलावा) आरक्षित वार्ड.	04	05 सुभाष वार्ड 06 सरदार पटेल वार्ड 09 नरसिंह वार्ड 13 इंदिरा वार्ड

अधि.सू. 56 क्र. एफ 1-11-13-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम 7 की अपेक्षा अनुसार नगर परिषद, मेहगांव, जिला भिण्ड के लिए आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है:—

क्र. (1)	वर्ग जिसके लिए आरक्षण किया गया (2)	कुल वार्ड (3)	आरक्षित वार्ड के क्रमांक व नाम (4)
1	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	03	05 हनुमान वार्ड 13 राजीव वार्ड 15 नाथूबाबा वार्ड
2	अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	-	निरंक
3	अन्य पिछड़ा वर्गों के लिये आरक्षित कुल वार्ड	04	03 गांधी वार्ड 07 लालबहादुर शास्त्री वार्ड 10 सरदार पटेल वार्ड 14 विक्रम वार्ड

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4	अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड		01	05	हनुमान वार्ड
5	अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड		-		निरंक
6	अन्य पिछड़ा वर्गों की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड		02	03	गांधी वार्ड
				14	विक्रम वार्ड
7	महिलाओं के लिये (उक्त सरल क्रमांक 4, 5 व 6 के अलावा) आरक्षित वार्ड.		04	02	आजाद वार्ड
				04	जवाहर वार्ड
				11	विवेकानन्द वार्ड
				12	ईदिरा वार्ड

अधि.सू. 56 क्र. एफ 1-11-13-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम 7 की अपेक्षा अनुसार नगर परिषद, गोरमी, जिला भिण्ड के लिए आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है:—

क्र. (1)	वर्ग जिसके लिए आरक्षण किया गया (2)	कुल वार्ड (3)	आरक्षित वार्ड के क्रमांक एवं नाम (4)
1	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	03	01 पं. जवाहरलाल नेहरू वार्ड 03 लालबहादुर शास्त्री वार्ड 09 डॉ. अम्बेडकर वार्ड
2	अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	-	निरंक
3	अन्य पिछड़ा वर्गों के लिये आरक्षित कुल वार्ड	04	02 तिलक वार्ड 12 लक्ष्मीबाई वार्ड 13 सुभाष चन्द्र बोस वार्ड 14 राजेन्द्र प्रसाद वार्ड
4	अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिये कुल आरक्षित वार्ड	01	01 पं. जवाहर लाल नेहरू वार्ड
5	अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	-	निरंक
6	अन्य पिछड़ा वर्गों की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	02	12 लक्ष्मीबाई वार्ड 14 राजेन्द्र प्रसाद वार्ड
7	महिलाओं के लिये (उक्त सरल क्रमांक 4, 5 व 6 के अलावा) आरक्षित वार्ड	04	04 आजाद चन्द्रशेखर वार्ड 07 गौतम वार्ड 08 महात्मा गांधी वार्ड 15 पं. दीनदयाल उपाध्याय वार्ड

अधि.सू. 56 क्र. एफ 1-11-13-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम 7 की अपेक्षा अनुसार नगर परिषद, फूप, जिला भिण्ड के लिए आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है:—

क्र. (1)	वर्ग जिसके लिए आरक्षण किया गया (2)	कुल वार्ड (3)	आरक्षित वार्ड के क्रमांक एवं नाम (4)
1	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	03	07 डॉ. राजेन्द्र प्रसाद वार्ड 08 इंदिरा गांधी वार्ड 15 डॉ. अम्बेडकर वार्ड
2	अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	-	निरंक
3	अन्य पिछड़ा वर्गों के लिये आरक्षित कुल वार्ड	04	02 नेताजी सुभाषचन्द्र बोस वार्ड 05 बजरंग वार्ड 09 जवाहर लाल नेहरू वार्ड 14 राजीव गांधी वार्ड
4	अनुसूचित जाति की महिलाओं के कुल लिये आरक्षित वार्ड	01	08 इंदिरा गांधी वार्ड
5	अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	-	निरंक
6	अन्य पिछड़ा वर्गों की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	02	02 नेताजी सुभाषचन्द्र बोस वार्ड 14 राजीव गांधी वार्ड
7	महिलाओं के लिये (उक्त सरल क्रमांक 4, 5 व 6 के अलावा) आरक्षित वार्ड.	04	01 सरदार पटेल वार्ड 10 लाल बहादुर शास्त्री वार्ड 11 चन्द्रशेखर आजाद वार्ड 12 लक्ष्मीबाई वार्ड

अधि.सू. 56 क्र. एफ 1-11-13-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम 7 की अपेक्षा अनुसार नगर परिषद, अकोड़ा, जिला भिण्ड के लिए आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है:—

क्र. (1)	वर्ग जिसके लिए आरक्षण किया गया (2)	कुल वार्ड (3)	आरक्षित वार्ड के क्रमांक एवं नाम (4)
1	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	03	02 अम्बेडकर वार्ड 03 गांधी वार्ड 13 शिवाजी वार्ड
2	अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	-	निरंक
3	अन्य पिछड़ा वर्गों के लिये आरक्षित कुल वार्ड	04	01 सुभाष नगर वार्ड 06 चन्द्रशेखर वार्ड



			14 शास्त्री वार्ड
			15 विक्रमादित्य वार्ड
4 अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	01	13 शिवाजी वार्ड	
5 अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	-	निरंक	
6 अन्य पिछड़ा वर्गों की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	02	14 शास्त्री वार्ड	
		15 विक्रमादित्य वार्ड	
7 महिलाओं के लिये (उक्त सरल क्रमांक 4, 5 व 6 के अलावा) आरक्षित वार्ड	04	05 रामजानकी वार्ड	
		07 तात्या टोपे वार्ड	
		09 डॉ. राजेन्द्र प्रसाद वार्ड	
		11 सर्वोदय वार्ड	

अधि.सू. 56 क्र. एफ 1-11-13-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम 7 की अपेक्षा अनुसार नगर परिषद, मिहोना, जिला भिण्ड के लिए आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है:—

क्र. (1)	वर्ग जिसके लिए आरक्षण किया गया (2)	कुल वार्ड (3)	आरक्षित वार्ड के क्रमांक एवं नाम (4)
1	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	03	04 शास्त्री वार्ड 11 सिद्धार्थ वार्ड 15 अम्बेडकर वार्ड
2	अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	-	निरंक
3	अन्य पिछड़ा वर्गों के लिये आरक्षित कुल वार्ड	04	06 संजय वार्ड 07 सुभाष वार्ड 08 भगत सिंह वार्ड 09 गांधी वार्ड
4	अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिये कुल आरक्षित वार्ड	01	15 अम्बेडकर वार्ड
5	अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	-	निरंक
6	अन्य पिछड़ा वर्गों की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	02	07 सुभाष वार्ड 08 भगत सिंह वार्ड
7	महिलाओं के लिये (उक्त सरल क्रमांक 4, 5 व 6 के अलावा) आरक्षित वार्ड.	04	03 आजाद वार्ड 05 इंदिरा वार्ड 10 नेहरू वार्ड 14 सरदार पटेल वार्ड

अधि.सू. 56 क्र. एफ 1-11-13-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम 7 की अपेक्षा अनुसार नगर परिषद, लहार, जिला भिण्ड के लिए आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है:—

क्र. (1)	वर्ग जिसके लिए आरक्षण किया गया (2)	कुल वार्ड (3)	आरक्षित वार्ड के क्रमांक एवं नाम (4)
1	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	03	12 अम्बेडकर वार्ड 14 संत रविदास वार्ड 15 महात्मा गांधी वार्ड
2	अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	-	निरंक
3	अन्य पिछड़ा वर्गों के लिये आरक्षित कुल वार्ड	04	01 जवाहर वार्ड 06 कमला नेहरू वार्ड 07 लाल बहादुर शास्त्री वार्ड 09 इंदिरा गांधी वार्ड
4	अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिये कुल आरक्षित वार्ड	01	14 संत रविदास वार्ड
5	अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	-	निरंक
6	अन्य पिछड़ा वर्गों की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	02	01 जवाहर वार्ड 09 इंदिरा गांधी वार्ड
7	महिलाओं के लिये (उक्त सरल क्रमांक 4, 5 व 6 के अलावा) आरक्षित वार्ड.	04	02 मंगला देवी वार्ड 03 सुभाष वार्ड 04 महावीर वार्ड 13 राजेन्द्र प्रसाद वार्ड

अधि.सू. 56 क्र. एफ 1-11-13-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम 7 की अपेक्षा अनुसार नगर परिषद, दबोह, जिला भिण्ड के लिए आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है:—

क्र. (1)	वर्ग जिसके लिए आरक्षण किया गया (2)	कुल वार्ड (3)	आरक्षित वार्ड के क्रमांक एवं नाम (4)
1	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	03	01 सुभाष नगर वार्ड 02 गांधी नगर वार्ड 06 शिवाजी नगर वार्ड
2	अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	-	निरंक
3	अन्य पिछड़ा वर्गों के लिये आरक्षित कुल वार्ड	04	04 चन्द्रशेखर नगर वार्ड 09 मुरली मनोहर नगर वार्ड 12 रामकृष्ण नगर वार्ड 14 फिरोज नगर वार्ड
4	अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिये कुल आरक्षित वार्ड	01	02 गांधी नगर वार्ड
5	अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	-	निरंक
6	अन्य पिछड़ा वर्गों की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	02	09 मुरली मनोहर नगर वार्ड 14 फिरोज नगर वार्ड
7	महिलाओं के लिये (उक्त सरल क्रमांक 4, 5 व 6 के अलावा) आरक्षित वार्ड.	04	03 अम्बेडकर नगर वार्ड 08 शास्त्री नगर वार्ड 11 राहुल नगर वार्ड 15 पं. दीनदयाल नगर वार्ड

अधि.सू. 56 क्र. एफ 1-11-13-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम 7 की अपेक्षा अनुसार नगर परिषद्, आलमपुर, जिला भिण्ड के लिए आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है:—

क्र. (1)	वर्ग जिसके लिए आरक्षण किया गया (2)	कुल वार्ड (3)	आरक्षित वार्ड के क्रमांक एवं नाम (4)
1	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	02	02 शिवाजी नगर वार्ड 05 नेहरू नगर वार्ड
2	अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	-	निरंक
3	अन्य पिछड़ा वर्गों के लिये आरक्षित कुल वार्ड	04	04 सरस्वती नगर वार्ड 07 तिलक नगर वार्ड 13 राघव नगर वार्ड 15 प्रताप नगर वार्ड
4	अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिये कुल आरक्षित वार्ड	01	05 नेहरू नगर वार्ड
5	अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	-	निरंक
6	अन्य पिछड़ा वर्गों की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	02	07 तिलक नगर वार्ड 13 राघव नगर वार्ड
7	महिलाओं के लिये (उक्त सरल क्रमांक 4, 5 व 6 के अलावा) आरक्षित वार्ड	04	09 टैगोर नगर वार्ड 11 गोविन्द नगर वार्ड 12 भैरव नगर वार्ड 14 सुभाष नगर वार्ड

अधि.सू. 56 क्र. एफ 1-11-13-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम 7 की अपेक्षा अनुसार नगर परिषद्, मों, जिला भिण्ड के लिए आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है:—

क्र. (1)	वर्ग जिसके लिए आरक्षण किया गया (2)	कुल वार्ड (3)	आरक्षित वार्ड के क्रमांक एवं नाम (4)
1	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	02	04 अम्बेडकर वार्ड 13 लाला लाजपत वार्ड
2	अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	-	निरंक
3	अन्य पिछड़ा वर्गों के लिये आरक्षित कुल वार्ड	04	01 संजय वार्ड 02 गांधी वार्ड 07 तिलक वार्ड 12 नरसिंह वार्ड
4	अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिये कुल आरक्षित वार्ड	01	13 लाला लाजपत वार्ड
5	अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	-	निरंक
6	अन्य पिछड़ा वर्गों की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	02	01 संजय वार्ड 02 गांधी वार्ड
7	महिलाओं के लिये (उक्त सरल क्रमांक 4, 5 व 6 के अलावा) आरक्षित वार्ड.	04	03 भगत सिंह वार्ड 05 सुभाष वार्ड 09 इंदिरा वार्ड 11 सरदार पटेल वार्ड

## भोपाल, दिनांक 10 अक्टूबर 2014

अधि.सू. 57 क्र. एफ 1-11-13-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम 7 की अपेक्षा अनुसार नगरपालिका, दतिया, जिला दतिया के लिए आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है:—

क्र. (1)	वर्ग जिसके लिए आरक्षण किया गया (2)	कुल वार्ड (3)	आरक्षित वार्ड के क्रमांक एवं नाम (4)
1	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित वार्ड	06	03 लक्ष्मण वार्ड 36 अशोक वार्ड 27 शास्त्री वार्ड 02 अम्बेडकर वार्ड 23 श्री भगवानदास महौर वार्ड 29 राजगढ़ वार्ड
2	अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित वार्ड	01	33 माँ पीताम्बरा वार्ड
3	अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षित वार्ड	09	08 अवधविहारी वार्ड 12 भैरव जी वार्ड 35 पंडित दीनदयाल वार्ड 26 सुभाष वार्ड 15 साहनीपुरा वार्ड 21 रामलला वार्ड 24 गोविन्दगंज वार्ड 04 बैंक घर की हवैली वार्ड 07 शिवगिर वार्ड
4	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित वार्डों में से अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिये 50 प्रतिशत आरक्षित वार्ड.	03	02 अम्बेडकर वार्ड 03 लक्ष्मण वार्ड 36 अशोक वार्ड
5	अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित वार्डों में से अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिये 50 प्रतिशत आरक्षित वार्ड.	निरंक	निरंक
6	अन्य पिछड़े वर्ग के लिये आरक्षित वार्डों में से अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिये 50 प्रतिशत आरक्षित वार्ड.	04	04 बैंक घर की हवैली वार्ड 12 भैरव जी वार्ड 24 गोविन्दगंज वार्ड 35 पंडित दीनदयाल वार्ड
7	अनारक्षित वार्डों में से महिलाओं के लिये उक्त सरल क्रमांक 04, 05 06 के अलावा आरक्षित वार्ड.	10	01 राधासागर वार्ड 05 संजय वार्ड 06 शिवाजी वार्ड 09 आनंद वार्ड 13 चूनगर फाटक वार्ड 14 विहारी जी वार्ड 20 दुर्गा जी वार्ड 22 हरदौल जी वार्ड 28 राव वार्ड 30 श्री हनुमान गढ़ी वार्ड

अधि.सू. 57 क्र. एफ 1-11-13-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम 7 की अपेक्षा अनुसार नगर परिषद, भाण्डेर, जिला दतिया के लिए आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है:—

क्र. (1)	वर्ग जिसके लिए आरक्षण किया गया (2)	कुल वार्ड (3)	आरक्षित वार्ड के क्रमांक एवं नाम (4)
1	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित वार्ड	03	03 गांधी वार्ड 04 सुभाष चन्द्र वार्ड 07 महारानी लक्ष्मीबाई वार्ड
2	अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित वार्ड	निरंक	निरंक
3	अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षित वार्ड	04	01 स्वामी विवेकानंद वार्ड 05 जवाहर वार्ड 06 राधावल्लभ वार्ड 10 चन्द्रशेखर वार्ड
4	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित वार्डों में से अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिये 50 प्रतिशत आरक्षित वार्ड.	01	04 सुभाष चन्द्र वार्ड
5	अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित वार्डों में से अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिये 50 प्रतिशत आरक्षित वार्ड.	निरंक	निरंक
6	अन्य पिछड़े वर्ग के लिये आरक्षित वार्डों में अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिये 50 प्रतिशत आरक्षित वार्ड.	02	01 स्वामी विवेकानंद वार्ड 10 चन्द्रशेखर वार्ड
7	अनारक्षित वार्डों में से महिलाओं के लिये उक्त सरल क्रमांक 04, 05 06 के अलावा आरक्षित वार्ड.	04	02 राधा गोविन्द वार्ड 08 संकट मोचन वार्ड 11 शास्त्री वार्ड 15 भगत सिंह वार्ड

अधि.सू. 57 क्र. एफ 1-11-13-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम 7 की अपेक्षा अनुसार नगर परिषद, इन्दरगढ़, जिला दतिया के लिए आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है:—

क्र. (1)	वर्ग जिसके लिए आरक्षण किया गया (2)	कुल वार्ड (3)	आरक्षित वार्ड के क्रमांक एवं नाम (4)
1	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित वार्ड	04	07 बजरंग वार्ड 15 गौपुरुष वार्ड 13 राजीव वार्ड 05 डॉ. अम्बेडकर वार्ड
2	अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित वार्ड	निरंक	निरंक
3	अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षित वार्ड	04	03 हरीशंकरी वार्ड 08 राजेश्वरी वार्ड 12 लाल बहादुर वार्ड 14 विवेकानंद वार्ड

(1)	(2)	(3)	(4)
4	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित वार्डों में से अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिये 50 प्रतिशत आरक्षित वार्ड.	02	05 डॉ. अम्बेडकर वार्ड 07 बजरंग वार्ड
5	अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित वार्डों में से अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिये 50 प्रतिशत आरक्षित वार्ड.	निरंक	निरंक
6	अन्य पिछड़े वर्ग के लिये आरक्षित वार्डों में अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिये 50 प्रतिशत आरक्षित वार्ड.	02	03 हरीशंकरी वार्ड 14 विवेकानन्द वार्ड
7	अनारक्षित वार्डों में से महिलाओं के लिये उक्त सरल क्रमांक 04, 05, 06 के अलावा आरक्षित वार्ड.	03	02 कोटेश्वर वार्ड 04 माँ शीतला वार्ड 06 महावीर वार्ड

अधि.सू. 57 क्र. एफ 1-11-13-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम 7 की अपेक्षा अनुसार नगर परिषद, सेंवड़ा, जिला दतिया के लिए आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है:—

क्र. (1)	वर्ग जिसके लिए आरक्षण किया गया (2)	कुल वार्ड (3)	आरक्षित वार्ड के क्रमांक एवं नाम (4)
1	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित वार्ड	03	12 शीतला वार्ड 09 विवेकानंद वार्ड 10 डॉ. अम्बेडकर वार्ड
2	अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित वार्ड	निरंक	निरंक
3	अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षित वार्ड	04	02 इन्द्रा वार्ड 05 सुभाष चन्द्रबोस वार्ड 06 राजीव गांधी वार्ड 08 लाल बहादुर शास्त्री वार्ड
4	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित वार्डों में से अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिये 50 प्रतिशत आरक्षित वार्ड.	01	09 विवेकानन्द वार्ड
5	अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित वार्डों में से अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिये 50 प्रतिशत आरक्षित वार्ड.	निरंक	निरंक
6	अन्य पिछड़े वर्ग के लिये आरक्षित वार्डों में अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिये 50 प्रतिशत आरक्षित वार्ड.	02	05 सुभाष चन्द्रबोस वार्ड 06 राजीव गांधी वार्ड
7	अनारक्षित वार्डों में से महिलाओं के लिये उक्त सरल क्रमांक 04, 05, 06 के अलावा आरक्षित वार्ड.	04	01 सनक सनन्दन वार्ड 04 जवाहर लाल नेहरू वार्ड 13 चन्द्रशेखर आजाद वार्ड 14 रविन्द्रनाथ टैगोर वार्ड

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
के. के. कातिया, उपसचिव

अधि. सू. क्र. 58 एफ-1-11-13-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ावर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम 7 की अपेक्षा अनुसार नगर परिषद, रामपुर नैकिन, जिला सीधी, के लिए आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है:—

क्र. (1)	वर्ग जिसके लिए आरक्षण किया गया (2)	कुल वार्ड (3)	आरक्षित वार्ड का क्रमांक व नाम (4)
1	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	03	4 डॉ. अम्बेडकर वार्ड 8 डॉ. राजेन्द्र प्रसाद वार्ड 14 पं. दीनदयाल उपाध्याय वार्ड
2	अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	02	1 डॉ. हेडगेवार वार्ड 10 महात्मा गांधी वार्ड
3	अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षित कुल वार्ड	04	9 लोकमान्य तिलक वार्ड 12 चन्द्रशेखर आजाद वार्ड 13 डॉ. राममनोहर लोहिया वार्ड 15 राजीव गांधी वार्ड
4	अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड	02	8 डॉ. राजेन्द्र प्रसाद वार्ड 14 पं. दीनदयाल उपाध्याय वार्ड
5	अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड	1	10 महात्मा गांधी वार्ड
6	अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड	02	13 डॉ. राममनोहर लोहिया वार्ड 15 राजीव गांधी वार्ड
7	महिलाओं के लिये (उक्त सरल क्रमांक 4, 5 व 6 के अलावा) आरक्षित वार्ड.	03	2 इन्दिरा गांधी वार्ड 5 सरदार बल्लभ भाई पटेल वार्ड 6 लालबहादुर शास्त्री वार्ड

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
के. के. कातिया, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 10 अक्टूबर 2014

अधि. सू. क्र. 59 एफ-1-11-13-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम 7 की अपेक्षा अनुसार नगर पालिक निगम, सतना, जिला सतना के लिए आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है:—

क्र. (1)	वर्ग जिसके लिए वार्ड आरक्षण किया गया (2)	कुल वार्ड (3)	आरक्षित वार्ड के क्रमांक व नाम (4)
1	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	06	1 डॉ. अम्बेडकर वार्ड 16 शहीद पदमधर वार्ड 19 लाला लाजपतराय वार्ड 27 स्वामी विवेकानंद वार्ड 39 महात्मा गांधी वार्ड 43 ठक्कर बापा वार्ड

(1)	(2)	(3)	(4)
2	अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	02	12 अब्दुल कलाम आजाद वार्ड 30 डॉ. राममनोहर लोहिया वार्ड
3	अन्य पिछड़ा वर्गों के लिये आरक्षित कुल वार्ड	11	6 सरोजनी नायडू वार्ड 9 सिद्धार्थ वार्ड 13 रविशंकर शुक्ल वार्ड 20 सरदार पटेल वार्ड 24 अशोक वार्ड 28 पुरुषोत्तमदास टंडन वार्ड, 31 डॉ. राजेन्द्र प्रसाद वार्ड 32 डॉ. राधाकृष्णन वार्ड 36 चन्द्रशेखर आजाद वार्ड 38 वीर सावरकर वार्ड 44 जवहारलाल नेहरू वार्ड
4	अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड	03	1 डॉ. अम्बेडकर वार्ड 27 स्वामी विवेकानंद वार्ड 43 ठक्कर बापा वार्ड
5	अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड	01	30 डॉ. राममनोहर लोहिया वार्ड
6	अन्य पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड	06	6 सरोजनी नायडू वार्ड 13 रविशंकर शुक्ल वार्ड 20 सरदार पटेल वार्ड 32 डॉ. राधाकृष्णन वार्ड 36 चन्द्रशेखर आजाद वार्ड 38 वीर सावरकर वार्ड
7	महिलाओं के लिये (उक्त सरल क्रमांक 4, 5 व 6 के अलावा) आरक्षित वार्ड.	13	3 छत्रसाल वार्ड, 4 लोकमान्य तिलक वार्ड 7 वृन्दावन वार्ड 8 रवीन्द्र नाथ ठाकुर वार्ड 14 लाल बहादुर शास्त्री वार्ड 15 आचार्य विनोबा भावे वार्ड 26 नेताजी सुभाष वार्ड 33 सरदार भगत सिंह वार्ड 34 इंदिरा गांधी वार्ड 35 ठाकुर रणमत सिंह वार्ड 40 विश्वास राव पेंटर वार्ड 41 महाराणा प्रताप वार्ड 45 मालवीय वार्ड



अधि. सू. क्र. 59 एफ-1-11-13-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम 7 की अपेक्षा अनुसार नगर परिषद, रामपुर बाघेलान, जिला सतना के लिए आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है:—

क्र. (1)	वर्ग जिसके लिए वार्ड आरक्षण किया गया (2)	कुल वार्ड (3)	आरक्षित वार्ड के क्रमांक व नाम (4)
1	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	02	3 संत कबीर दास वार्ड 12 डॉ. भीमराव अम्बेडकर वार्ड
2	अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	03	4 महारानी लक्ष्मीबाई वार्ड 6 रानी दुर्गावती वार्ड 11 सरदार भगत सिंह वार्ड
3	अन्य पिछड़ा वर्गों के लिये आरक्षित कुल वार्ड	04	5 डॉ. राजेन्द्र प्रसाद वार्ड 9 लालबहादुर शास्त्री वार्ड 13 स्वामी विवेकानंद वार्ड 15 मलिक मो. जायसी वार्ड
4	अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड	01	12 भीमराव अम्बेडकर वार्ड
5	अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड	02	4 महारानी लक्ष्मीबाई वार्ड 6 रानी दुर्गावती वार्ड
6	अन्य पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड	02	5 डॉ. राजेन्द्र प्रसाद वार्ड 15 मलिक मो. जायसी वार्ड
7	महिलाओं के लिये (उक्त सरल क्रमांक 4, 5 व 6 के अलावा) आरक्षित वार्ड.	02	10 वीर शिवाजी वार्ड 14 चन्द्रशेखर आजाद वार्ड

अधि. सू. क्र. 59 एफ-1-11-13-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम 7 की अपेक्षा अनुसार नगर परिषद, उचेहरा, जिला सतना के लिए आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है:—

क्र. (1)	वर्ग जिसके लिए वार्ड आरक्षण किया गया (2)	कुल वार्ड (3)	आरक्षित वार्ड के क्रमांक व नाम (4)
1	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	04	3 संत रैदास वार्ड 4 जानकी रमन वार्ड 8 पंडित नेहरू वार्ड 14 डॉ. अम्बेडकर वार्ड
2	अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	निल	निल
3	अन्य पिछड़ा वर्गों के लिये आरक्षित कुल वार्ड	04	1 डॉ. राममनोहर लोहिया वार्ड 6 दीनदयाल वार्ड 9 महात्मागांधी वार्ड 12 डॉ. राधाकृष्णन वार्ड

(1)	(2)	(3)	(4)
4	अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड	02	3 संत रैदास वार्ड 4 जानकी रमण वार्ड
5	अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड	निल	निल
6	अन्य पिछड़ा वर्गों की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड	02	9 महात्मागांधी वार्ड 12 राधाकृष्णन वार्ड
7	महिलाओं के लिये (उक्त सरल क्रमांक 4, 5 व 6 के अलावा) आरक्षित वार्ड.	04	2 विष्णु वाराह वार्ड, 7 मीराबाई वार्ड 11 मुखर्जी वार्ड 15 लक्ष्मी बाई वार्ड

अधि. सू. क्र. 59 एफ-1-11-13-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम 7 की अपेक्षा अनुसार नगर परिषद, अमरपाटन, जिला सतना के लिए आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है:—

क्र. (1)	वर्ग जिसके लिए वार्ड आरक्षण किया गया (2)	कुल वार्ड (3)	आरक्षित वार्ड के क्रमांक व नाम (4)
1	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	03	5 भीमराव अम्बेडकर वार्ड 6 लालबहादुर शास्त्री वार्ड 8 महाराणा प्रताप वार्ड
2	अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	1	3 पं. जवाहरलाल नेहरू वार्ड
3	अन्य पिछड़ा वर्गों के लिये आरक्षित कुल वार्ड	04	4 सुभाषचन्द्र बोस बोर्ड 11 भगत सिंह वार्ड 13 गौरीशंकर वार्ड 14 बजरंग वार्ड
4	अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड	02	5 डॉ. भीमराव अम्बेडकर वार्ड 8 महाराणा प्रताप वार्ड
5	अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड	निल	निल
6	अन्य पिछड़ा वर्गों की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड	02	4 सुभाषचन्द्र बोस वार्ड 14 बजरंग वार्ड
7	महिलाओं के लिये (उक्त सरल क्रमांक 4, 5 व 6 के अलावा) आरक्षित वार्ड.	04	2 इंदिरा गांधी वार्ड 9 संजय वार्ड 10 नरसिंह वार्ड 12 राजीव गांधी वार्ड

अधि. सू. क्र. 59 एफ-1-11-13-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम 7 की अपेक्षा अनुसार नगर परिषद, नागौद, जिला-सतना के लिए आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है:—

क्र. (1)	वर्ग जिसके लिए वार्ड आरक्षण किया गया (2)	कुल वार्ड (3)	आरक्षित वार्ड के क्रमांक व नाम (4)
1	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	03	1 महात्मा गांधी वार्ड 14 शिवाजी वार्ड 15 डॉ अम्बेडकर वार्ड
2	अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	निल	निल
3	अन्य पिछड़ा वर्गों के लिये आरक्षित कुल वार्ड	04	4 इन्दिरा गांधी वार्ड 5 चन्द्रशेखर वार्ड 10 लालबहादुर शास्त्री वार्ड 11 सुधेश वार्ड
4	अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड	02	1 महात्मा गांधी वार्ड 15 डॉ अम्बेडकर वार्ड
5	अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड	निल	निल
6	अन्य पिछड़ा वर्गों की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड	02	4 इन्दिरा गांधी वार्ड 5 चन्द्रशेखर वार्ड
7	महिलाओं के लिये (उक्त सरल क्रमांक 4, 5 व 6 के अलावा) आरक्षित वार्ड.	04	3 स्वामी विवेकानंद वार्ड 8 दीनदयाल उपाध्याय वार्ड 12 सुभाष चन्द्र बोस वार्ड 13 मौलाना आजाद वार्ड

अधि. सू. क्र. 59 एफ-1-11-13-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम 7 की अपेक्षा अनुसार नगर परिषद, न्यू रामनगर, जिला-सतना के लिए आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है:—

क्र. (1)	वर्ग जिसके लिए वार्ड आरक्षण किया गया (2)	कुल वार्ड (3)	आरक्षित वार्ड के क्रमांक व नाम (4)
1	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	02	9 डा. राजेन्द्र प्रसाद वार्ड 10 महाराणा प्रताप वार्ड
2	अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	03	4 सुभाषचन्द्र बोस वार्ड 11 सरदार बल्लभ भाई पटेल वार्ड 15 चन्द्रशेखर आजाद वार्ड
3	अन्य पिछड़ा वर्गों के लिये आरक्षित कुल वार्ड	04	3 जवाहरलाल नेहरू वार्ड 6 लालबहादुर शास्त्री वार्ड 8 पं. दीनदयाल उपाध्याय वार्ड 12 भगत सिंह वार्ड

(1)	(2)	(3)	(4)
4	अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड	01	10 महाराणा प्रताप वार्ड
5	अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड	02	4 सुभाष चन्द्र बोस वार्ड 11 सरदार वल्लभ भाई पटेल वार्ड
6	अन्य पिछड़ा वर्गों की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड	02	3 पं. जवाहर लाल नेहरू वार्ड 8 पं. दीनदयाल उपाध्याय
7	महिलाओं के लिये (उक्त सरल क्रमांक 4, 5 व 6 के अलावा) आरक्षित वार्ड.	03	1 महात्मा गांधी वार्ड 13 शिवाजी वार्ड 14 बजरंग वार्ड

अधि. सू. क्र. 59 एफ-1-11-13-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम 7 की अपेक्षा अनुसार नगर परिषद, जैतवारा, जिला सतना के लिए आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है:—

क्र. (1)	वर्ग जिसके लिए वार्ड आरक्षण किया गया (2)	कुल वार्ड (3)	आरक्षित वार्ड के क्रमांक व नाम (4)
1	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	05	3 नेहरू वार्ड 4 अम्बेडकर वार्ड 5 दीनदयाल वार्ड 12 भगतसिंह वार्ड 13 रानी लक्ष्मीबाई वार्ड
2	अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	निल	निल
3	अन्य पिछड़ा वर्गों के लिये आरक्षित कुल वार्ड	04	7 संजय वार्ड 9 मालवीय वार्ड 11 विवेकानंद वार्ड 14 राणाप्रताप वार्ड
4	अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड	03	3 नेहरू वार्ड 4 अम्बेडकर वार्ड 5 दीनदयाल वार्ड
5	अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड	निल	निल
6	अन्य पिछड़ा वर्गों की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड	02	7 संजय वार्ड 14 राणाप्रताप वार्ड
7	महिलाओं के लिये (उक्त सरल क्रमांक 4, 5 व 6 के अलावा) आरक्षित वार्ड.	03	1 महात्मा गांधी वार्ड 2 आजाद वार्ड 6 तिलक वार्ड

अधि. सू. 59 क्र. एफ-1-11-13-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम 7 की अपेक्षा अनुसार नगर परिषद, चित्रकूट, जिला सतना के लिए आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है:—

क्र. (1)	वर्ग जिसके लिए वार्ड आरक्षण किया गया (2)	कुल वार्ड (3)	आरक्षित वार्ड के क्रमांक व नाम (4)
1	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	02	7 हनुमत वार्ड 6 राघव वार्ड
2	अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	01	8 शवरी वार्ड
3	अन्य पिछड़ा वर्गों के लिये आरक्षित कुल वार्ड	04	12 सतीअनुसुइया वार्ड 5 मंदाकिनी वार्ड 9 मैदेही वार्ड 4 पर्णकुटी वार्ड
4	अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड	01	6 राघव वार्ड
5	अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड	निल	निल
6	अन्य पिछड़ा वर्गों की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड	02	9 बैदेही वार्ड 12 सती अनुसुइया वार्ड
7	महिलाओं के लिये (उक्त सरल क्रमांक 4, 5 व 6 के अलावा) आरक्षित वार्ड.	05	2 बिहारीजु वार्ड 11 स्फटिक शिला वार्ड 15 गोदावरी वार्ड 3 तुलसी वार्ड 1 कामदगिरी वार्ड

अधि. सू. 59 क्र. एफ-1-11-13-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम 7 की अपेक्षा अनुसार नगर परिषद, कोठी, जिला सतना के लिए आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है:—

क्र. (1)	वर्ग जिसके लिए वार्ड आरक्षण किया गया (2)	कुल वार्ड (3)	आरक्षित वार्ड के क्रमांक व नाम (4)
1	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	04	3 डॉ. अम्बेडकर वार्ड 11 नेहरू वार्ड 12 विवेकानंद वार्ड 13 तिलक वार्ड
2	अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	01	1 लालतीर्थ राज सिंह वार्ड
3	अन्य पिछड़ा वर्गों के लिये आरक्षित कुल वार्ड	04	6 पंडित महेश्वर प्रसाद मिश्रोलिया वार्ड 8 कृष्णसुदामा वार्ड 10 नारेन्द्र सिंह वार्ड 15 भगत सिंह वार्ड

(1)	(2)	(3)	(4)
4	अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड	02	11 नेहरू वार्ड 13 तिलक वार्ड
5	अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड	निल	निल
6	अन्य पिछड़ा वर्गों की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड	02	8 कृष्ण सुदामा वार्ड 10 नारेन्द्र सिंह वार्ड
7	महिलाओं के लिये (उक्त सरल क्रमांक 4, 5 व 6 के अलावा) आरक्षित वार्ड.	04	2 स्वामी विज्ञानंद वार्ड 4 रामकृष्ण दीवान 7 सीतारमण वार्ड 9 गांधी वार्ड

अधि. सू. 59 क्र. एफ-1-11-13-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम 7 की अपेक्षा अनुसार नगर परिषद, बिरसिंहपुर, जिला सतना के लिए आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है:—

क्र. (1)	वर्ग जिसके लिए वार्ड आरक्षण किया गया (2)	कुल वार्ड (3)	आरक्षित वार्ड के क्रमांक व नाम (4)
1	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	04	2 सुभाष वार्ड 4 आजाद वार्ड 11 अम्बेडकर वार्ड 15 संतरविदास वार्ड
2	अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	निल	निल
3	अन्य पिछड़ा वर्गों के लिये आरक्षित कुल वार्ड	04	1 जाकिर हुसैन वार्ड 3 सरदार पटेल वार्ड 13 महाराणाप्रताप वार्ड 14 रानी दुर्गावती वार्ड
4	अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड	02	2 सुभाष वार्ड 11 अम्बेडकर वार्ड
5	अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड	निल	निल
6	अन्य पिछड़ा वर्गों की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड	02	1 जाकिर हुसैन वार्ड 13 महाराणा प्रताप वार्ड
7	महिलाओं के लिये (उक्त सरल क्रमांक 4, 5 व 6 के अलावा) आरक्षित वार्ड.	04	6 संजय वार्ड 8 गांधी वार्ड 9 शिवाजी वार्ड 10 लक्ष्मी वाई वार्ड

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
के. के. कातिया, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 10 अक्टूबर 2014

अधि. सू. क्र. 60 एफ-1-11-13-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम 7 की अपेक्षा अनुसार नगर पालिक निगम रीवा, जिला रीवा के लिए आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है:—

क्र. (1)	वर्ग जिसके लिए वार्ड आरक्षण किया गया (2)	कुल वार्ड (3)	आरक्षित वार्ड के क्रमांक व नाम (4)
1	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	04	28 धोबिया टंकी वार्ड 38 लोहिया वार्ड 39 रानीतालाब वार्ड 40 नया तालाब वार्ड
2	अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	02	1 निपनिया वार्ड 4 कृषि कालेज वार्ड
3	अन्य पिछड़ा वर्गों के लिये आरक्षित कुल वार्ड	11	11 इंदिरा नगर वार्ड 15 शिवप्रसाद वार्ड 30 मौलाना आजाद वार्ड 37 उपरहटी वार्ड 43 चिरहुला मंदिर वार्ड 44 लक्ष्मणबाग वार्ड 5 जवाहर नगर वार्ड 14 गंगोत्री वार्ड 19 विवेकानंद वार्ड 21 राजीव गांधी वार्ड 45 कुटुलिया वार्ड
4	अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड	02	28 धोबिया टंकी वार्ड 38 लोहिया वार्ड
5	अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड	01	4 कृषि कालेज वार्ड
6	अन्य पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड	05	5 जवाहर नगर वार्ड 14 गंगोत्री वार्ड 19 विवेकानंद वार्ड 21 राजीव गांधी वार्ड 45 कुटुलिया वार्ड
7	महिलाओं के लिये (उक्त सरल क्रमांक 4, 5 व 6 के अलावा) आरक्षित वार्ड.	14	6 संजय वार्ड 8 चाणक्य वार्ड 10 अनन्तपुर वार्ड 13 नेहरूनगर वार्ड 16 रविन्द्रनगर वार्ड 20 रानीगंज वार्ड 22 कस्तूरबा गांधी वार्ड 24 कमसरियत वार्ड 25 एकता वार्ड 26 अम्बेडकर वार्ड

(1)	(2)	(3)	(4)
			27 अर्जुनसिंह वार्ड
			29 पाण्डेन टोला वार्ड
			33 मुकातिर मंदिर वार्ड
	अनारक्षित (मुक्त) वार्ड	14	34 तकिया वार्ड

अधि. सू. क्र. 60 एफ-1-11-13-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम 7 की अपेक्षा अनुसार नगर परिषद, त्योंथर, जिला रीवा के लिए आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है:—

क्र. (1)	वर्ग जिसके लिए वार्ड आरक्षण किया गया (2)	कुल वार्ड (3)	आरक्षित वार्ड के क्रमांक व नाम (4)
1	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	03	6 डॉ. भीमराव अम्बेडकर वार्ड 2 पं. जवाहरलाल नेहरू वार्ड 7 रवीन्द्रनाथ टैगोर वार्ड
2	अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	02	10 सुभाषचन्द्र वार्ड 9 डॉ. राममनोहर लोहिया वार्ड
3	अन्य पिछड़ा वर्गों के लिये आरक्षित कुल वार्ड	04	5 सरदार बल्लभ भाई पटेल वार्ड 11 महाराणा प्रताप वार्ड 1 शहीद भगतसिंह वार्ड 4 लाल बहादुर शास्त्री वार्ड
4	अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड	01	2 पं. जवाहर लाल नेहरू वार्ड
5	अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड	01	9 डॉ. राममनोहर लोहिया वार्ड
6	अन्य पिछड़ा वर्गों की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड	02	1 शहीद भगतसिंह वार्ड 4 लालबहादुर शास्त्री वार्ड
7	महिलाओं के लिये (उक्त सरल क्रमांक 4, 5 व 6 के अलावा) आरक्षित वार्ड.	03	8 पं. दीनदयाल उपाध्याय वार्ड 12 महात्मागांधी वार्ड 15 बालगंगाधर तिलक वार्ड

अधि. सू. क्र. 60 एफ-1-11-13-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम 7 की अपेक्षा अनुसार नगर परिषद, मऊगंज, जिला रीवा के लिए आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है:—

क्र. (1)	वर्ग जिसके लिए वार्ड आरक्षण किया गया (2)	कुल वार्ड (3)	आरक्षित वार्ड के क्रमांक व नाम (4)
1	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	03	2 महात्मागांधी वार्ड 13 मदनमोहन मालवीय वार्ड 6 भीमराव अम्बेडकर वार्ड



(1)	(2)	(3)	(4)
2	अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	01	11 राजीवगांधी वार्ड
3	अन्य पिछड़ा वर्गों के लिये आरक्षित कुल वार्ड	04	7 श्रीमती सरोजनी नायडू वार्ड 15 पं. दीनदयाल उपाध्याय वार्ड 1 सरदार वल्लभ भाई पटेल वार्ड 5 सरदार भगत सिंह वार्ड
4	अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड	01	06 भीमराव अम्बेडकर वार्ड
5	अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड	-	निरंक
6	अन्य पिछड़ा वर्गों की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड	02	1 सरदार बल्लभ भाई पटेल वार्ड 5 सरदार भगत सिंह वार्ड
7	महिलाओं के लिये (उक्त सरल क्रमांक 4, 5 व 6 के अलावा) आरक्षित वार्ड.	04	3 श्रीमती इंदिरा गांधी वार्ड 8 पं. जवाहरलाल नेहरू वार्ड 9 महारानी दुर्गावती वार्ड 14 मौलाना अब्दुल कलाम आजाद वार्ड

अधि. सू. 60 क्र. एफ-1-11-13-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम 7 की अपेक्षा अनुसार नगर परिषद, हनुमना, जिला रीवा के लिए आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है:—

क्र. (1)	वर्ग जिसके लिए वार्ड आरक्षण किया गया (2)	कुल वार्ड (3)	आरक्षित वार्ड के क्रमांक व नाम (4)
1	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	02	3 दीनदयाल उपाध्याय वार्ड 6 इंदिरा गांधी वार्ड
2	अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	03	5 लालबहादुर शास्त्री वार्ड 7 राजीव गांधी वार्ड 15 जयप्रकाश नारायण वार्ड
3	अन्य पिछड़ा वर्गों के लिये आरक्षित कुल वार्ड	04	10 रानी लक्ष्मीबाई वार्ड 11 भगतसिंह वार्ड 1 डॉ. अम्बेडकर वार्ड 9 सुभाषचन्द्र बोस वार्ड
4	अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड	01	(i) 6 इंदिरा गांधी वार्ड
5	अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड	01	(i) 5 लालबहादुर शास्त्री वार्ड
6	अन्य पिछड़ा वर्गों की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड	02	1 डॉ. अम्बेडकर वार्ड 9 सुभाषचन्द्र बोस वार्ड
7	महिलाओं के लिये (उक्त सरल क्रमांक 4, 5 व 6 के अलावा) आरक्षित वार्ड.	03	2 डॉ. राममनोहर लोहिया वार्ड 8 स्वामी विवेकानंद वार्ड 14 महात्मागांधी वार्ड

अधि. सू. 60 क्र. एफ-1-11-13-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम 7 की अपेक्षा अनुसार नगर परिषद, मनगवां, जिला रीवा के लिए आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है:—

क्र. (1)	वर्ग जिसके लिए वार्ड आरक्षण किया गया (2)	कुल वार्ड (3)	आरक्षित वार्ड के क्रमांक व नाम (4)
1	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	03	3 आजाद वार्ड 8 डॉ. अम्बेडकर वार्ड 7 चन्द्रशेखर आजाद वार्ड
2	अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	01	1 गांधी वार्ड
3	अन्य पिछड़ा वर्गों के लिये आरक्षित कुल वार्ड	04	6 हनुमान वार्ड 10 शास्त्री वार्ड 4 सुभाष वार्ड 9 जगजीवनराम वार्ड
4	अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड	01	7 चन्द्रशेखर वार्ड
5	अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड	-	निरंक
6	अन्य पिछड़ा वर्गों की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड	02	4 सुभाष वार्ड 9 जगजीवनराम वार्ड
7	महिलाओं के लिये (उक्त सरल क्रमांक 4, 5 व 6 के अलावा) आरक्षित वार्ड.	04	2 पं. जवाहरलाल नेहरू वार्ड 5 शहीद भगतसिंह वार्ड 11 राजेन्द्र वार्ड 15 जय प्रकाश वार्ड

अधि. सू. 60 क्र. एफ-1-11-13-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम 7 की अपेक्षा अनुसार नगर परिषद, सिरमौर, जिला रीवा के लिए आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है:—

क्र. (1)	वर्ग जिसके लिए वार्ड आरक्षण किया गया (2)	कुल वार्ड (3)	आरक्षित वार्ड के क्रमांक व नाम (4)
1	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	02	7 अम्बेडकर वार्ड 03 दयानन्द वार्ड
2	अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	02	10 महात्मागांधी वार्ड 5 विवेकानन्द वार्ड
3	अन्य पिछड़ा वर्गों के लिये आरक्षित कुल वार्ड	04	13 लोहिया वार्ड 14 सुभाष वार्ड 9 महाराणा वार्ड 12 भगतसिंह वार्ड

(1)	(2)	(3)	(4)
4	अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड	01	7 अम्बेडकर वार्ड
5	अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड	01	5 विवेकानंद वार्ड
6	अन्य पिछड़ा वर्गों की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड	02	9 महाराणा वार्ड 12 भगत सिंह वार्ड
7	महिलाओं के लिये (उक्त सरल क्रमांक 4, 5 व 6 के अलावा) आरक्षित वार्ड.	03	2 शास्त्री वार्ड 4 प्रेमचन्द्र वार्ड 8 दीनदयाल वार्ड

अधि. सू. 60 क्र. एफ-1-11-2013-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम 7 की अपेक्षा अनुसार नगर परिषद, बैकुण्ठपुर, जिला रीवा के लिए आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है:—

क्र. (1)	वर्ग जिसके लिए वार्ड आरक्षण किया गया (2)	कुल वार्ड (3)	आरक्षित वार्ड के क्रमांक व नाम (4)
1	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	02	5 अशोक वार्ड 14 वासुदेव वार्ड
2	अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	01	4 मुखर्जी वार्ड
3	अन्य पिछड़ा वर्गों के लिये आरक्षित कुल वार्ड	04	12 इंदिरा वार्ड 13 राधाकृष्णन वार्ड 10 रोस्तम वार्ड 15 अम्बेडकर वार्ड
4	अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड	01	5 अशोक वार्ड
5	अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड	-	निरंक
6	अन्य पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड	02	10 रोस्तम वार्ड 15 अम्बेडकर वार्ड
7	महिलाओं के लिये (उक्त सरल क्रमांक 4, 5 व 6 के अलावा) आरक्षित वार्ड.	04	1 नेहरू वार्ड 3 लोहिया वार्ड 8 नर्मदा वार्ड 11 राजीव वार्ड

अधि. सू. 60 क्र. एफ-1-11-2013-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम 7 की अपेक्षा अनुसार नगर परिषद, गोविन्दगढ़, जिला रीवा के लिए आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है:—

क्र. (1)	वर्ग जिसके लिए वार्ड आरक्षण किया गया (2)	कुल वार्ड (3)	आरक्षित वार्ड के क्रमांक व नाम (4)
1	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	03	7 रैदास वार्ड 14 गोविन्द वार्ड 15 शशिकुन्ज वार्ड

(1)	(2)	(3)	(4)
2	अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	01	9 अम्बेडकर वार्ड
3	अन्य पिछड़ा वर्गों के लिये आरक्षित कुल वार्ड	04	2 पैगम्बर वार्ड 4 गांधी वार्ड 8 संगम वार्ड 13 गजराज वार्ड
4	अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड	01	7 रैदास वार्ड
5	अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड	-	निरंक
6	अन्य पिछड़ा वर्गों की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड	02	4 गांधी वार्ड 13 गजराज वार्ड
7	महिलाओं के लिये (उक्त सरल क्रमांक 4, 5 व 6 के अलावा) आरक्षित वार्ड.	04	1 आजाद वार्ड 3 अकबर वार्ड 11 विवेकानंद वार्ड 12 पुष्पराम वार्ड

अधि. सू. 60 क्र. एफ-1-11-2013-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम 7 की अपेक्षा अनुसार नगर परिषद, सेमरिया, जिला रीवा के लिए आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है:—

क्र. (1)	वर्ग जिसके लिए वार्ड आरक्षण किया गया (2)	कुल वार्ड (3)	आरक्षित वार्ड के क्रमांक व नाम (4)
1	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	02	5 लालबहादुर शास्त्री वार्ड 15 नेहरू वार्ड
2	अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	01	6 चन्द्रशेखर वार्ड
3	अन्य पिछड़ा वर्गों के लिये आरक्षित कुल वार्ड	04	4 डॉ. लोहिया वार्ड 13 इंदिरा वार्ड 9 जाकिर हुसैन वार्ड 11 जय प्रकाश वार्ड
4	अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड	01	15 नेहरू वार्ड
5	अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड	-	निरंक
6	अन्य पिछड़ा वर्गों की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड	02	9 जाकिर हुसैन वार्ड 11 जय प्रकाश वार्ड
7	महिलाओं के लिये (उक्त सरल क्रमांक 4, 5 व 6 के अलावा) आरक्षित वार्ड.	04	2 आजाद अब्दुल कलाम वार्ड 3 महात्मा गांधी वार्ड 7 डॉ. लोहिया वार्ड 8 रानी दुर्गावती वार्ड

अधि. सू. 60 क्र. एफ-1-11-2013-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम 7 की अपेक्षा अनुसार नगर परिषद, गुढ़, जिला रीवा के लिए आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है:—

क्र. (1)	वर्ग जिसके लिए वार्ड आरक्षण किया गया (2)	कुल वार्ड (3)	आरक्षित वार्ड के क्रमांक व नाम (4)
1	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	03	7 भीमराव अम्बेडकर वार्ड 8 मालवीय वार्ड 9 मीराबाई वार्ड
2	अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	02	13 राजीव वार्ड 14 सुभाष वार्ड
3	अन्य पिछड़ा वर्गों के लिये आरक्षित कुल वार्ड	04	12 मौलाना आजाद वार्ड 15 चन्द्रशेखर वार्ड 2 जवाहर लाल नेहरू वार्ड 6 शिवजी वार्ड
4	अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड	01	9 मीराबाई वार्ड
5	अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड	01	14 सुभाष वार्ड
6	अन्य पिछड़ा वर्गों की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड	02	2 जवाहरलाल नेहरू वार्ड 6 शिवजी वार्ड
7	महिलाओं के लिये (उक्त सरल क्रमांक 4, 5 व 6 के अलावा) आरक्षित वार्ड.	03	1 विवेकानंद वार्ड 4 महात्मागांधी वार्ड 5 डॉ. राजेन्द्र प्रसाद वार्ड

अधि. सू. 60 क्र. एफ-1-11-2013-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम 7 की अपेक्षा अनुसार नगर परिषद, नईगढ़ी, जिला रीवा के लिए आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है:—

क्र. (1)	वर्ग जिसके लिए वार्ड आरक्षण किया गया (2)	कुल वार्ड (3)	आरक्षित वार्ड के क्रमांक व नाम (4)
1	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	02	13 डॉ. अम्बेडकर वार्ड 3 लोहिया वार्ड
2	अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	02	15 तिलक वार्ड 14 लक्ष्मीबाई वार्ड
3	अन्य पिछड़ा वर्गों के लिये आरक्षित कुल वार्ड	04	5 नेहरू वार्ड 12 दुर्गावती वार्ड 2 सरदार पटेल वार्ड 4 गांधी वार्ड
4	अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड	01	3 लोहिया वार्ड
5	अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड	01	14 लक्ष्मी बाई वार्ड
6	अन्य पिछड़ा वर्गों की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड	02	2 सरदार पटेल वार्ड 4 गांधी वार्ड

(1)	(2)	(3)	(4)
7	महिलाओं के लिये (उक्त सरल क्रमांक 4, 5 व 6 के अलावा) आरक्षित वार्ड.	03	7 भगत सिंह वार्ड 10 ठाकुर गोपाल शरण सिंह वार्ड 11 मौलाना आजाद वार्ड

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
के. के. कातिया, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 10 अक्टूबर 2014

अधि. सू. 61 क्र. एफ-1-11-2013-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम 7 की अपेक्षा अनुसार नगरपालिका निगम सिंगरौली, जिला सिंगरौली के लिए आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है:—

क्र. (1)	वर्ग जिसके लिए वार्ड आरक्षण किया गया (2)	कुल वार्ड (3)	आरक्षित वार्ड के क्रमांक व नाम (4)
1	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	06	7 कबीर वार्ड 33 मौलाना वार्ड 21 भगतसिंह वार्ड 28 अशोक वार्ड 37 दीनदयाल वार्ड 20 अम्बेडकर वार्ड
2	अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	05	1 गौतमबुद्ध वार्ड 10 तानसेन वार्ड 2 लक्ष्मीबाई वार्ड 6 पृथ्वीराज वार्ड 12 मधुवन वार्ड
3	अन्य पिछड़ा वर्गों के लिये आरक्षित कुल वार्ड	11	5 अहिल्याबाई वार्ड 11 दयानंद वार्ड 13 विकास वार्ड 16 अनुसुइया वार्ड 22 महाराणा प्रताप वार्ड 29 अकबर वार्ड 15 नूतन वार्ड 32 नेहरू वार्ड 27 सुभाषचन्द्र बोस वार्ड 17 प्रगति वार्ड 8 अजामिल वार्ड
4	अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड	03	7 कबीर वार्ड 20 अम्बेडकर वार्ड 21 भगत सिंह वार्ड
5	अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड	03	10 तानसेन वार्ड 6 पृथ्वीराज वार्ड 12 मधुवन वार्ड
6	अन्य पिछड़ा वर्गों की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड	06	11 दयानंद वार्ड 15 नूतन वार्ड

(1)	(2)	(3)	(4)
			16 अनुसुइया वार्ड
			22 महाराणा प्रताप वार्ड
			05 अहिल्याबाई वार्ड
			32 नेहरू वार्ड
7	महिलाओं के लिये (उक्त सरल क्रमांक 4, 5 व 6 के अलावा) आरक्षित वार्ड.	11	3 इन्द्रपुरी वार्ड
			9 टैगोर वार्ड
			14 सुलोचना वार्ड
			18 सुदर्शन वार्ड
			34 एकता वार्ड
			35 सूर्या वार्ड
			36 लालबहादुर शास्त्री वार्ड
			38 तुलसी वार्ड
			39 राजीव वार्ड
			43 विवेकानंद वार्ड
			45 विनोवा वार्ड

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
के. के. कातिया, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 10 अक्टूबर 2014

अधि. सू. 62 क्र. एफ-1-11-2013-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम 7 की अपेक्षा अनुसार नगरपालिका नागदा जिला उज्जैन के लिए आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है:—

क्र. (1)	वर्ग जिसके लिए वार्ड आरक्षण किया गया (2)	कुल वार्ड (3)	आरक्षित वार्ड के क्रमांक व नाम (4)
1	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	07	1 अम्बेडकर वार्ड 3 नेताजी सुभाष वार्ड 7 संत रविदास वार्ड 27 मौलाना आजाद वार्ड 28 जन्मेजय वार्ड 32 शहीद रामप्रसाद बिस्मिल वार्ड 33 चंबल वार्ड
2	अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	01	8 डॉ. जाकिर हुसैन वार्ड
3	अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षित कुल वार्ड	09	4 रफीक एहमद किदवई वार्ड 5 जवाहर लाल नेहरू वार्ड 12 शिवाजी वार्ड 14 महाराणा प्रताप वार्ड 19 गुरुनानक वार्ड 25 स्वामी शंकराचार्य वार्ड

(1)	(2)	(3)	(4)
			30 डॉ. राजेन्द्र प्रसाद वार्ड 31 शारदा वार्ड 34 डॉ. राम मनोहर लोहिया वार्ड
4	अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड.	04	3 नेताजी सुभाष वार्ड 27 मौलाना आजाद वार्ड 32 शहीद रामप्रसाद बिस्मिल वार्ड 33 चंबल वार्ड
5	अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड.	—	—
6	अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड.	05	4 रफीक एहमद किदवई वार्ड 12 शिवाजी वार्ड 19 गुरूनानक वार्ड 31 शारदा वार्ड 34 डॉ. राम मनोहर लोहिया वार्ड
7	महिलाओं के लिये (उक्त सरल क्रमांक 4, 5 व 6 के अलावा) आरक्षित वार्ड.	09	2 बाबु जगजीवन राम वार्ड 6 प्रियदर्शनी इंदिरा गांधी वार्ड 10 रामसहाय वार्ड 11 लालबहादुर शास्त्री वार्ड 22 कस्तुरबा गांधी वार्ड 23 संजय गांधी वार्ड 24 डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी वार्ड 26 वीर सावरकर वार्ड 35 विनोबा भावे वार्ड

अधि. सू. 62 क्र. एफ-1-11-2013-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम 7 की अपेक्षा अनुसार नगरपालिका खाचरौद, जिला उज्जैन के लिए आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है:—

क्र. (1)	वर्ग जिसके लिए वार्ड आरक्षण किया गया (2)	कुल वार्ड (3)	आरक्षित वार्ड के क्रमांक व नाम (4)
1	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	02	5 डॉ. अम्बेडकर वार्ड 12 रेदास वार्ड
2	अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	01	13 महावीर स्वामी वार्ड
3	अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षित कुल वार्ड	05	4 रावत वार्ड 10 कुबेर वार्ड 19 विक्रम वार्ड 20 गणेश वार्ड 21 नीलकंठेश्वर वार्ड



(1)	(2)	(3)	(4)
4	अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड.	01	5 डॉ. अम्बेडकर वार्ड
5	अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड.	—	—
6	अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड.	03	4 रावत वार्ड 19 विक्रम वार्ड 20 गणेश वार्ड
7	महिलाओं के लिये (उक्त सरल क्रमांक 4, 5 व 6 के अलावा) आरक्षित वार्ड.	06	2 छत्रपति शिवाजी वार्ड 3 गौशाला वार्ड 6 राधिकादास वार्ड 11 वृंदावन वार्ड 14 महात्माबुद्ध वार्ड 17 शंकराचार्य वार्ड

अधि. सू. 62 क्र. एफ-1-11-2013-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम 7 की अपेक्षा अनुसार नगरपालिका महिदपुर, जिला उज्जैन के लिए आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है:—

क्र. (1)	वर्ग जिसके लिए वार्ड आरक्षण किया गया (2)	कुल वार्ड (3)	आरक्षित वार्ड के क्रमांक व नाम (4)
1	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	02	3 रैदास वार्ड 9 डॉ. अम्बेडकर वार्ड
2	अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	—	—
3	अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षित कुल वार्ड	05	4 आजाद वार्ड 5 सुभाष वार्ड 12 तिलक वार्ड 13 जवाहर वार्ड 18 शिवाजी वार्ड
4	अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड.	01	3 रैदास वार्ड
5	अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड.	—	—
6	अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड.	03	4 आजाद वार्ड 12 तिलक वार्ड 13 जवाहर वार्ड
7	महिलाओं के लिये (उक्त सरल क्रमांक 4, 5 व 6 के अलावा) आरक्षित वार्ड.	05	2 यशवंत वार्ड 6 भगतसिंह वार्ड 10 अहिल्याबाई वार्ड 14 वाल्मिकी वार्ड 16 राजेंद्र वार्ड

अधि. सू. 62 क्र. एफ-1-11-2013-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम 7 की अपेक्षा अनुसार नगरपालिका बड़नगर, जिला उज्जैन के लिए आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है:—

क्र. (1)	वर्ग जिसके लिए वार्ड आरक्षण किया गया (2)	कुल वार्ड (3)	आरक्षित वार्ड के क्रमांक व नाम (4)
1	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	02	1 रफी एहमद किदवई वार्ड 6 डॉ. अम्बेडकर वार्ड
2	अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	01	10 शांति निकेतन वार्ड
3	अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षित कुल वार्ड	05	9 महाराणा प्रताप वार्ड 11 रविंद्रनाथ वार्ड 12 महात्मा गांधी वार्ड 13 इंदिरा गांधी वार्ड 18 लोकमान्य तिलक वार्ड
4	अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	01	1 रफी एहमद किदवई वार्ड
5	अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड.	—	—
6	अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड.	03	11 रविंद्रनाथ वार्ड 12 महात्मा गांधी वार्ड 18 लोकमान्य तिलक वार्ड
7	महिलाओं के लिये (उक्त सरल क्रमांक 4, 5 व 6 के अलावा) आरक्षित वार्ड.	05	2 सुभाष वार्ड 5 भगतसिंह वार्ड 7 कालिदास वार्ड 14 विक्रमादित्य वार्ड 15 बालकृष्ण बापूजी वार्ड

अधि. सू. 62 क्र. एफ-1-11-2013-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम 7 की अपेक्षा अनुसार नगर परिषद, तराना, जिला उज्जैन के लिए आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है:—

क्र. (1)	वर्ग जिसके लिए वार्ड आरक्षण किया गया (2)	कुल वार्ड (3)	आरक्षित वार्ड के क्रमांक व नाम (4)
1	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	03	2 कबीर दास वार्ड 3 सुभाषचंद्र बोस वार्ड 10 सरदार पटेल वार्ड
2	अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	—	—
3	अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षित कुल वार्ड	04	5 मदनमोहन मालवीय वार्ड 12 इंदिरा गांधी वार्ड 13 डॉ. राजेन्द्र प्रसाद वार्ड 14 लाल बहादुर शास्त्री वार्ड

(1)	(2)	(3)	(4)
4	अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड.	02	3 सुभाषचन्द्र बोस वार्ड 10 सरदार पटेल वार्ड
5	अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड.	—	—
6	अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड.	02	5 मदनमोहन मालवीय वार्ड 12 इंदिरा गांधी वार्ड
7	महिलाओं के लिये (उक्त सरल क्रमांक 4, 5 व 6 के अलावा) आरक्षित वार्ड.	03	6 संजय गांधी वार्ड 9 डॉ. अम्बेडकर वार्ड 15 लोकमान्य तिलक वार्ड

अधि. सू. 62 क्र. एफ-1-11-2013-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम 7 की अपेक्षा अनुसार नगर परिषद, उन्हेल, जिला उज्जैन के लिए आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है:—

क्र. (1)	वर्ग जिसके लिए वार्ड आरक्षण किया गया (2)	कुल वार्ड (3)	आरक्षित वार्ड के क्रमांक व नाम (4)
1	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	02	3 मौलाना अब्दुल कलाम आजाद वार्ड 14 संजय गांधी वार्ड
2	अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	—	—
3	अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षित कुल वार्ड	04	1 लाल बहादुर शास्त्री वार्ड 9 इंदिरा गांधी वार्ड 10 सुभाषचन्द्र बोस वार्ड 15 पं. विजयलक्ष्मी वार्ड
4	अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड.	01	3 मौलाना अब्दुल कलाम आजाद वार्ड
5	अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड.	—	—
6	अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड.	02	9 इंदिरा गांधी वार्ड 15 पं. विजयलक्ष्मी वार्ड
7	महिलाओं के लिये (उक्त सरल क्रमांक 4, 5 व 6 के अलावा) आरक्षित वार्ड.	04	2 डॉ. अम्बेडकर वार्ड 5 लाला लाजपतराय वार्ड 6 लोकमान्य तिलक वार्ड 12 रानी लक्ष्मीबाई वार्ड

अधि. सू. 62 क्र. एफ-1-11-2013-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम 7 की अपेक्षा अनुसार नगर परिषद माकड़ोन, जिला उज्जैन के लिए आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है:—

क्र. (1)	वर्ग जिसके लिए वार्ड आरक्षण किया गया (2)	कुल वार्ड (3)	आरक्षित वार्ड के क्रमांक व नाम (4)
1	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	05	3 कबीरदास वार्ड 8 डॉ. अम्बेडकर वार्ड 9 चंद्रशेखर आजाद वार्ड 10 सरदार पटेल वार्ड 14 सुभाषचंद्र बोस वार्ड
2	अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	01	04 मौलाना अब्दुल कलाम आजाद वार्ड
3	अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षित कुल वार्ड	01	13 श्यामाप्रसाद मुखर्जी वार्ड
4	अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड.	03	9 चंद्रशेखर आजाद वार्ड 10 सरदार पटेल वार्ड 14 सुभाषचंद्र बोस वार्ड
5	अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड.	—	—
6	अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड.	—	—
7	महिलाओं के लिये (उक्त सरल क्रमांक 4, 5 व 6 के अलावा) आरक्षित वार्ड.	04	1 भगतसिंह वार्ड 2 दीनदयाल उपाध्याय वार्ड 11 महावीर वार्ड 15 डॉ. राजेन्द्र प्रसाद वार्ड

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
के. के. कातिया, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 10 अक्टूबर 2014

अधि. सू. 63 क्र. एफ-1-11-2013-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम 7 की अपेक्षा अनुसार नगरपालिका निगम देवास जिला देवास के लिये आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है:—

क्र. (1)	वर्ग जिसके लिए वार्ड आरक्षण किया गया (2)	कुल वार्ड (3)	आरक्षित वार्ड के क्रमांक व नाम (4)
1	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	09	02 तुलजा विहार वार्ड 05 कालूखेंडी वार्ड 14 पं. दीनदयाल उपाध्याय वार्ड 15 अमोना काम्पलेक्स वार्ड 18 बावडिया वार्ड 29 गुरूनानक वार्ड 33 महात्मा गांधी वार्ड 35 रेदास वार्ड 43 बालगढ वार्ड
2	अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	02	04 बी. एन.पी. वार्ड 37 तुकोगंज वार्ड

(1)	(2)	(3)	(4)
3	अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षित कुल वार्ड	11	03 राजाभाउ महाकाल वार्ड 08 ईटावा वार्ड 10 विजय नगर वार्ड 11 डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी वार्ड 13 मेंढकी वार्ड 22 जवाहर नगर वार्ड 25 चामुण्डा काम्पलेक्स वार्ड 26 मौंती बंगला वार्ड 38 लालबहादुर शास्त्री वार्ड 44 पालनगर वार्ड 45 नागदा वार्ड
4	अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड	05	15 अमोना काम्पलेक्स वार्ड 18 बावडिया वार्ड 29 गुरूनानक वार्ड 35 रेदास वार्ड 43 बालगढ वार्ड
5	अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड	01	04 बी. एन. पी. वार्ड
6	अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड	06	08 ईटावा वार्ड 10 विजय नगर वार्ड 11 डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी वार्ड 26 मौंती बंगला वार्ड 38 लालबहादुर शास्त्री वार्ड 45 नागदा वार्ड
7	महिलाओं के लिये (उक्त सरल क्रमांक 4, 5 व 6 के अलावा) आरक्षित वार्ड.	11	01 बिलावली वार्ड 07 पुष्पकुंज वार्ड 12 राजाराम नगर वार्ड 16 बिंजाना वार्ड 19 जयप्रकाश नारायण वार्ड 20 विकास नगर वार्ड 21 गंगानगर वार्ड 23 कालानी बाग 28 नई आबादी वार्ड 30 मोतीलाल नेहरू वार्ड 31 शिवाजी वार्ड

अधि. सू. 63 क्र. एफ-1-11-2013-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम 7 की अपेक्षा अनुसार नगर पालिका, सोनकच्छ, जिला देवास के लिए आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है:—

क्र. (1)	वर्ग जिसके लिए वार्ड आरक्षण किया गया (2)	कुल वार्ड (3)	आरक्षित वार्ड के क्रमांक व नाम (4)
1	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	02	1 कबीर वार्ड

(1)	(2)	(3)	(4)
			14 गुरू नानक वार्ड
2	अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	निरंक	निरंक
3	अन्य पिछड़ा वर्गों के लिये आरक्षित कुल वार्ड	चार	2 जवाहर वार्ड 8 भगतसिंह वार्ड 11 महावीर वार्ड 15 पिपलेश्वर वार्ड
4	अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड	01	1 कबीर वार्ड
5	अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड	निरंक	निरंक
6	अन्य पिछड़ा वर्गों की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड	02	8 भगतसिंह वार्ड 11 महावीर वार्ड
7	महिलाओं के लिये (उक्त सरल क्रमांक 4, 5 व 6 के अलावा) आरक्षित वार्ड.	05	7 सुभाष वार्ड 9 मौलाना आजाद वार्ड 10 लाल बहादुर शास्त्री वार्ड 12 राजेन्द्र वार्ड 13 लक्ष्मीबाई वार्ड

अधि. सू. 60 क्र. एफ-1-11-13-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम 7 की अपेक्षा अनुसार नगर पालिका, भौरासा, जिला देवास के लिए आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है:—

क्र. (1)	वर्ग जिसके लिए वार्ड आरक्षण किया गया (2)	कुल वार्ड (3)	आरक्षित वार्ड के क्रमांक व नाम (4)
1	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	02	8 देवधर्म गली वार्ड 15 संत रेदास वार्ड
2	अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	निरंक	निरंक
3	अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षित कुल वार्ड	04	1 महात्मा गांधी वार्ड 2 श्री कृष्ण वार्ड 9 पं. दीनदयाल वार्ड 12 तालिवशाह वार्ड
4	अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड	01	8 देवधर्म गली वार्ड
5	अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड	निरंक	निरंक
6	अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड	02	1 महात्मा गांधी वार्ड 12 तालिवशाह वार्ड
7	महिलाओं के लिये (उक्त सरल क्रमांक 4, 5 व 6 के अलावा) आरक्षित वार्ड.	05	3 श्री हनुमान वार्ड 5 संत तुलसीदास वार्ड 7 राजाभाउ महाकाल वार्ड 13 सुहागी वार्ड 14 संत रहीम वार्ड

अधि. सू. 63 क्र. एफ-1-11-2013-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम 7 की अपेक्षा अनुसार नगर पालिका, बागली, जिला देवास के लिए आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है:—

क्र. (1)	वर्ग जिसके लिए वार्ड आरक्षण किया गया (2)	कुल वार्ड (3)	आरक्षित वार्ड के क्रमांक व नाम (4)
1	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	02	1 गांधी वार्ड 4 लक्ष्मीबाई वार्ड
2	अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	02	6 काली कोठी वार्ड 14 चम्पाबाग वार्ड
3	अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षित कुल वार्ड	04	3 इन्दिरा गांधी वार्ड 5 जवाहर वार्ड 10 हनुमान वार्ड 13 मुखर्जी वार्ड
4	अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड	01	1 गांधी वार्ड
5	अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड	01	14 चम्पाबाग वार्ड
6	अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड	02	3 इन्दिरा गांधी वार्ड 13 मुखर्जी वार्ड
7	महिलाओं के लिये (उक्त सरल क्रमांक 4, 5 व 6 के अलावा) आरक्षित वार्ड.	04	2 शिवशंकर वार्ड 7 सुभाष वार्ड 8 चौगान्या वार्ड 12 महावीर वार्ड

अधि. सू. 63 क्र. एफ-1-11-2013-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम 7 की अपेक्षा अनुसार नगर पालिका, खातेगांव, जिला देवास के लिए आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है:—

क्र. (1)	वर्ग जिसके लिए वार्ड आरक्षण किया गया (2)	कुल वार्ड (3)	आरक्षित वार्ड के क्रमांक व नाम (4)
1	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	01	7 इंदिरा गांधी वार्ड
2	अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	01	10 जवाहर वार्ड
3	अन्य पिछड़ा वर्गों के लिये आरक्षित कुल वार्ड	04	6 सावदेकर वार्ड 9 बजरंग वार्ड 11 सुभाष वार्ड 14 वीर सावरकर वार्ड
4	अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड	निरंक	निरंक
5	अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड	निरंक	निरंक

(1)	(2)	(3)	(4)
6	अन्य पिछड़ा वर्गों की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड	02	6 सावदेकर वार्ड 9 बजरंग वार्ड
7	महिलाओं के लिये (उक्त सरल क्रमांक 4, 5 व 6 के अलावा) आरक्षित वार्ड.	06	1 नर्मदा वार्ड 3 आजाद वार्ड 4 वीर अर्जुन वार्ड 5 तिलक वार्ड 12 कृष्ण वार्ड 13 प्रताप वार्ड

अधि. सू. 63 क्र. एफ-1-11-2013-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम 7 की अपेक्षा अनुसार नगरपालिका, कन्नौद, जिला देवास के लिए आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है:—

क्र. (1)	वर्ग जिसके लिए वार्ड आरक्षण किया गया (2)	कुल वार्ड (3)	आरक्षित वार्ड के क्रमांक व नाम (4)
1	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	02	1 महात्मा गांधी वार्ड 10 डॉ. अम्बेडकर वार्ड
2	अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	01	15 गांधीग्राम वार्ड
3	अन्य पिछड़ा वर्गों के लिये आरक्षित कुल वार्ड	04	3 छत्रपति वार्ड 6 राणा प्रताप वार्ड 11 जवाहर वार्ड 14 भगतसिंह वार्ड
4	अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड	01	1 महात्मा गांधी वार्ड
5	अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड	निरंक	निरंक
6	अन्य पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड	02	3 छत्रपति वार्ड 14 भगतसिंह वार्ड
7	महिलाओं के लिये (उक्त सरल क्रमांक 4, 5 व 6 के अलावा) आरक्षित वार्ड.	05	4 मेवातीपुरा वार्ड 5 मल्हारगंज वार्ड 8 सदर वार्ड 12 सरदार पटेल वार्ड 13 यात्रा मैदान वार्ड



अ. सू. क्र. 63 एफ-1-11-2013-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम 7 की अपेक्षा अनुसार नगरपालिका, कांटाफोड, जिला देवास के लिए आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है:—

क्र. (1)	वर्ग जिसके लिए वार्ड आरक्षण किया गया (2)	कुल वार्ड (3)	आरक्षित वार्ड के क्रमांक व नाम (4)
1	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	01	4 गजाखेडी वार्ड
2	अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	04	12 वल्लभ भाई पटेल वार्ड 13 महाराणा प्रताप वार्ड 14 इन्दिरा गांधी वार्ड 15 डॉ. अम्बेडकर वार्ड
3	अन्य पिछड़ा वर्गों के लिये आरक्षित कुल वार्ड	04	5 महात्मा गांधी वार्ड 7 भगतसिंह वार्ड 9 महावीर वार्ड 11 डॉ. जाकिर हुसैन वार्ड
4	अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड	निरंक	निरंक
5	अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड	02	12 वल्लभ भाई पटेल वार्ड 14 इन्दिरा गांधी वार्ड
6	अन्य पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड	02	7 भगतसिंह वार्ड 11 डॉ. जाकिर हुसैन वार्ड
7	महिलाओं के लिये (उक्त सरल क्रमांक 4, 5 व 6 के अलावा) आरक्षित वार्ड.	04	2 आजाद वार्ड 3 गुरू गोविन्दसिंह वार्ड 6 गोचडिया बाबा वार्ड 8 जवाहरलाल नेहरू वार्ड

अधि. सू. 63 क्र. एफ-1-11-2013-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम 7 की अपेक्षा अनुसार नगरपालिका, करनावद, जिला देवास के लिए आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है:—

क्र. (1)	वर्ग जिसके लिए वार्ड आरक्षण किया गया (2)	कुल वार्ड (3)	आरक्षित वार्ड के क्रमांक व नाम (4)
1	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	02	10 भगतसिंह वार्ड 15 लक्ष्मीबाई वार्ड
2	अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	04	11 बाल गंगाधर तिलक वार्ड 12 लाला लाजपतराय वार्ड 13 सुभाषचंद्र बोस वार्ड 14 गुरूगोबिन्द सिंह वार्ड
3	अन्य पिछड़ा वर्गों के लिये आरक्षित कुल वार्ड	04	5 राजीवगांधी वार्ड 1 लाल बहादुर शास्त्री वार्ड 6 चंद्रशेखर आजाद वार्ड 9 डॉ. अम्बेडकर वार्ड

(1)	(2)	(3)	(4)
4	अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड	01	10 भगतसिंह वार्ड
5	अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड	02	12 लाला लाजपतराय वार्ड 14 गुरुगोबिन्द सिंह वार्ड
6	अन्य पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड	02	1 लाल बहादुर शास्त्री वार्ड 9 डॉ. अम्बेडकर वार्ड
7	महिलाओं के लिये (उक्त सरल क्रमांक 4, 5 व 6 के अलावा) आरक्षित वार्ड.	03	2 जवाहरलाल नेहरू वार्ड 3 अंबिकामाता जी वार्ड 4 इन्दिरा गांधी वार्ड

अधि. सू. 63 क्र. एफ-1-11-2013-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम 7 की अपेक्षा अनुसार नगरपालिका, लोहारदा, जिला देवास के लिए आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है:—

क्र. (1)	वर्ग जिसके लिए वार्ड आरक्षण किया गया (2)	कुल वार्ड (3)	आरक्षित वार्ड के क्रमांक व नाम (4)
1	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	02	5 श्यामाप्रसाद मुखर्जी वार्ड 10 महारानी लक्ष्मीबाई वार्ड
2	अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	04	12 सरदार भगतसिंह वार्ड 13 रविन्द्रनाथ टैगोर वार्ड 14 नीलकेण्ठेश्वर वार्ड 15 गणेश गंज वार्ड
3	अन्य पिछड़ा वर्गों के लिये आरक्षित कुल वार्ड	04	4 महाराणा प्रताप वार्ड 8 मौलाना आजाद वार्ड 9 संजय गांधी वार्ड 11 शास्त्री वार्ड
4	अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड	01	5 श्यामाप्रसाद मुखर्जी वार्ड
5	अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड	02	13 रविन्द्रनाथ टैगोर वार्ड 15 गणेश गंज वार्ड
6	अन्य पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड	02	8 मौलाना आजाद वार्ड 9 संजय गांधी वार्ड
7	महिलाओं के लिये (उक्त सरल क्रमांक 4, 5 व 6 के अलावा) आरक्षित वार्ड.	03	2 जवाहर वार्ड 6 सुभाष वार्ड 7 अम्बेडकर वार्ड

अधि. सू. 63 क्र. एफ-1-11-2013-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम 7 की अपेक्षा अनुसार नगरपालिका, हाटपीपल्या, जिला देवास के लिए आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है:—

क्र. (1)	वर्ग जिसके लिए वार्ड आरक्षण किया गया (2)	कुल वार्ड (3)	आरक्षित वार्ड के क्रमांक व नाम (4)
1	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	03	1 बागरी पुरा वार्ड 12 नेवरी वागली मार्ग वार्ड 15 गोपाल पुरा वार्ड
2	अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	01	2 शिवाजी वार्ड
3	अन्य पिछड़ा वर्गों के लिये आरक्षित कुल वार्ड	04	9 मकबूल शेरवानी वार्ड 10 नेताजी सुभाष वार्ड 13 महावीर मार्ग वार्ड 14 नरसिंह घाट वार्ड
4	अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड	02	12 नेवरी-वागली मार्ग वार्ड 15 गोपाल पुरा वार्ड
5	अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड	निरंक	निरंक
6	अन्य पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड	02	09 मकबूर शेरवानी वार्ड 14 नरसिंह घाट वार्ड
7	महिलाओं के लिये (उक्त सरल क्रमांक 4, 5 व 6 के अलावा) आरक्षित वार्ड.	04	3 इन्दिरा कालोनी वार्ड 6 महाकाल वार्ड 8 चंद्रशेखर वार्ड 11 देवगढ वार्ड

अधि. सू. 63 क्र. एफ-1-11-2013-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम 7 की अपेक्षा अनुसार नगरपालिका, सतवास, जिला देवास के लिए आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है:—

क्र. (1)	वर्ग जिसके लिए वार्ड आरक्षण किया गया (2)	कुल वार्ड (3)	आरक्षित वार्ड के क्रमांक व नाम (4)
1	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	01	10 इन्दिरा वार्ड
2	अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	01	07 डॉ. अम्बेडकर वार्ड
3	अन्य पिछड़ा वर्गों के लिये आरक्षित कुल वार्ड	04	9 नेताजी सुभाषचंद्र बोस वार्ड 12 तिलक वार्ड 14 भगतसिंह वार्ड 15 चन्द्रशेखर आजाद वार्ड
4	अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड	निरंक	निरंक
5	अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड	निरंक	निरंक

(1)	(2)	(3)	(4)
6	अन्य पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड	02	9 नेताजी सुभाषचंद्र बोस वार्ड 15 चन्द्रशेखर आजाद वार्ड
7	महिलाओं के लिये (उक्त सरल क्रमांक 4, 5 व 6 के अलावा) आरक्षित वार्ड.	06	3 डॉ. जाकिर हुसैन वार्ड 4 जवाहरलाल नेहरू वार्ड 5 महात्मा गांधी वार्ड 6 लाल बहादुर शास्त्री वार्ड 11 डॉ. राजेन्द्र प्रसाद वार्ड 13 महाराणा प्रताप वार्ड

अधि. सू. 63 क्र. एफ-1-11-2013-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम 7 की अपेक्षा अनुसार नगरपालिका, नेमावर, जिला देवास के लिए आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है:—

क्र. (1)	वर्ग जिसके लिए वार्ड आरक्षण किया गया (2)	कुल वार्ड (3)	आरक्षित वार्ड के क्रमांक व नाम (4)
1	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	02	1 संत रविदास वार्ड 13 डॉ. अम्बेडकर वार्ड
2	अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	02	10 संत हरिदास वार्ड 12 संत आत्माराम बाबा वार्ड
3	अन्य पिछड़ा वर्गों के लिये आरक्षित कुल वार्ड	04	3 सुभाष वार्ड 4 मण्णिगिरी वार्ड 5 स्वामी विवेकानंद वार्ड 11 सदर वार्ड
4	अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड	01	1 संत रविदास वार्ड
5	अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड	01	12 संत आत्माराम बाबा वार्ड
6	अन्य पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड	02	5 स्वामी विवेकानंद वार्ड 11 सदर वार्ड
7	महिलाओं के लिये (उक्त सरल क्रमांक 4, 5 व 6 के अलावा) आरक्षित वार्ड.	04	6 रानी आवन्तिका बाई वार्ड 7 महात्मागांधी वार्ड 8 कृष्णगली वार्ड 9 श्री सिद्धेश्वर वार्ड

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
के. के. कातिया, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 10 अक्टूबर 2014

अधि. सू. 64 क्र. एफ-1-11-2013-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम 7 की अपेक्षा अनुसार नगर पालिका, आगर, जिला आगर मालवा के लिए आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है:—

क्र. (1)	वर्ग जिसके लिए आरक्षित किया गया (2)	कुल वार्ड (3)	आरक्षित वार्ड के क्रमांक व नाम (4)
1	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	03	12 डा. अम्बेडकर वार्ड 16 महात्मागांधी वार्ड 19 राजीव गांधी वार्ड
2	अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	00	निरंक
3	अन्य पिछड़ा वर्गों के लिये आरक्षित कुल वार्ड	06	3 जयप्रकाश नारायण वार्ड 4 चंद्रशेखर आजाद वार्ड 5 रफी एहमद क़िदवाई वार्ड 6 स्वामी विवेकानंद वार्ड 10 डा. राजेन्द्र प्रसाद वार्ड 21 रानी लक्ष्मीबाई वार्ड
4	अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड	02	12 डॉ. अम्बेडकर वार्ड 19 राजीव गांधी वार्ड
5	अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड	00	निरंक
6	अन्य पिछड़ा वर्गों की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड	03	3 जयप्रकाश नारायण वार्ड 4 चंद्र शेखर आजाद वार्ड 6 स्वामी विवेकानंद वार्ड
7	महिलाओं के लिये (उक्त सरल क्रमांक 4, 5 व 6 के अलावा) आरक्षित वार्ड.	06	1 संजय गांधी वार्ड 7 ज्योतिबा फूले वार्ड 9 डा. जाकिर हुसैन वार्ड 13 सरदार वल्लभभाई पटेल 17 गणेशदत्त शर्मा वार्ड 22 तात्या टोपे वार्ड

अधि. सू. 64 क्र. एफ-1-11-2013-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम 7 की अपेक्षा अनुसार नगर परिषद, नलखेड़ा, जिला आगर मालवा के लिए आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है:—

क्र. (1)	वर्ग जिसके लिए वार्ड आरक्षण किया गया (2)	कुल वार्ड (3)	आरक्षित वार्ड के क्रमांक व नाम (4)
1	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	02	7 तिलक वार्ड 10 अम्बेडकर वार्ड
2	अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	00	निरंक
3	अन्य पिछड़ा वर्गों के लिये आरक्षित कुल वार्ड	04	5 महावीर वार्ड 13 शिवाजी वार्ड 14 भगतसिंह वार्ड 15 लक्ष्मीबाई वार्ड

(1)	(2)	(3)	(4)
4	अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड	01	10 अम्बेडकर वार्ड
5	अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड	00	निरंक
6	अन्य पिछड़ा वर्गों की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड	02	13 शिवाजी वार्ड 15 लक्ष्मीबाई वार्ड
7	महिलाओं के लिये (उक्त सरल क्रमांक 4, 5 व 6 के अलावा) आरक्षित वार्ड.	04	2 प्रताप वार्ड 6 विनोबा भावे वार्ड 9 अशोक वार्ड 12 महात्मा गांधी वार्ड

अधि. सू. 64 क्र. एफ-1-11-2013-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम 7 की अपेक्षा अनुसार नगर परिषद, सोयतकला, जिला आगर मालवा के लिए आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है:—

क्र. (1)	वर्ग जिसके लिए वार्ड आरक्षित किया गया (2)	कुल वार्ड (3)	आरक्षित वार्ड के क्रमांक व नाम (4)
1	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	02	7 डॉ. अम्बेडकर वार्ड 14 भगतसिंह वार्ड
2	अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	00	निरंक
3	अन्य पिछड़ा वर्गों के लिये आरक्षित कुल वार्ड	04	4 रविदास वार्ड 8 स्वामी विवेकानंद वार्ड 9 बरकतउल्ला वार्ड 15 चंद्रशेखर वार्ड
4	अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड	01	14 भगतसिंह वार्ड
5	अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड	00	निरंक
6	अन्य पिछड़ा वर्गों की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड	02	4 रविदास वार्ड 9 बरकतउल्ला वार्ड
7	महिलाओं के लिये (उक्त सरल क्रमांक 4, 5 व 6 के अलावा) आरक्षित वार्ड.	04	3 जाकिर हुसेन वार्ड 6 मोलाना आजाद वार्ड 10 डा. राजेन्द्र प्रसाद वार्ड 11 लाल बहादुर शास्त्री वार्ड

अधि. सू. 64 क्र. एफ-1-11-2013-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम 7 की अपेक्षा अनुसार नगर परिषद, कानड, जिला आगर मालवा के लिए आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है:—

क्र. (1)	वर्ग जिसके लिए वार्ड आरक्षित किया गया (2)	कुल वार्ड (3)	आरक्षित वार्ड के क्रमांक व नाम (4)
1	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	03	1 भीमराव अम्बेडकर वार्ड

(1)	(2)	(3)	(4)
			3 पं. जवाहरलाल नेहरू वार्ड 15 छत्रपति शिवाजी वार्ड
2	अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	00	निरंक
3	अन्य पिछड़ा वर्गों के लिये आरक्षित कुल वार्ड	04	5 नेताजी सुभाषचंद्र वार्ड 6 लालबहादुर शास्त्री वार्ड 11 श्रीमती इंदिरा गांधी 12 संजयगांधी वार्ड
4	अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड	02	1 भीमराव अम्बेडकर वार्ड 15 छत्रपति शिवाजी वार्ड
5	अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड	00	निरंक
6	अन्य पिछड़ा वर्गों की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड	02	11 श्रीमती इंदिरा गांधी वार्ड 12 संजयगांधी वार्ड
7	महिलाओं के लिये (उक्त सरल क्रमांक 4, 5 व 6 के अलावा) आरक्षित वार्ड.	03	2 बजरंग वार्ड 4 सरदार वल्लभभाई वार्ड 14 महारानी लक्ष्मीबाई वार्ड

अधि. सू. 64 क्र. एफ-1-11-2013-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम 7 की अपेक्षा अनुसार नगर परिषद, बडौद, जिला आगर मालवा के लिए आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है:—

क्र. (1)	वर्ग जिसके लिए आरक्षित किया गया (2)	कुल वार्ड (3)	आरक्षित वार्ड के क्रमांक व नाम (4)
1	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	01	3 जाकिर हुसैन वार्ड
2	अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	00	निरंक
3	अन्य पिछड़ा वर्गों के लिये आरक्षित कुल वार्ड	04	4 श्यामाप्रसाद मुखर्जी वार्ड 7 डा. अम्बेडकर वार्ड 8 लालबहादुर शास्त्री वार्ड 12 इंदिरा गांधी वार्ड
4	अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड	00	निरंक
5	अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड	00	निरंक
6	अन्य पिछड़ा वर्गों की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड	02	4 श्यामाप्रसाद मुखर्जी वार्ड 12 इंदिरागांधी वार्ड
7	महिलाओं के लिये (उक्त सरल क्रमांक 4, 5 व 6 के अलावा) आरक्षित वार्ड.	05	1 सुभाष वार्ड 2 महात्मा गांधी वार्ड 5 जवाहरलाल नेहरू वार्ड 6 चंद्रशेखर आजाद वार्ड 14 शिवाजी वार्ड

अधि. सू. 64 क्र. एफ-1-11-2013-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम 7 की अपेक्षा अनुसार नगर परिषद, बड़ागांव, जिला आगर मालवा के लिए आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है:—

क्र. (1)	वर्ग जिसके लिए आरक्षित किया गया (2)	कुल वार्ड (3)	आरक्षित वार्ड के क्रमांक व नाम (4)
1	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	3	11 विनोबा वार्ड 12 राजीवगांधी वार्ड 14 डा. अम्बेडकर वार्ड
2	अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	00	निरंक
3	अन्य पिछड़ा वर्गों के लिये आरक्षित कुल वार्ड	04	7 विवेकानंद वार्ड 10 शिवाजी वार्ड 13 महाकाल वार्ड 15 महाराणा प्रताप वार्ड
4	अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड	02	11 विनोबा वार्ड 12 राजीव गांधी वार्ड
5	अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड	00	निरंक
6	अन्य पिछड़ा वर्गों की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड	02	13 महाकाल वार्ड 15 महाराणा प्रताप वार्ड
7	महिलाओं के लिये (उक्त सरल क्रमांक 4, 5 व 6 के अलावा) आरक्षित वार्ड.	03	4 जवाहर वार्ड 6 शास्त्री वार्ड 9 महावीर वार्ड

अधि. सू. 64 क्र. एफ-1-11-2013-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम 7 की अपेक्षा अनुसार नगर परिषद, सुसनेर, जिला आगर मालवा के लिए आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है:—

क्र. (1)	वर्ग जिसके लिए आरक्षित किया गया (2)	कुल वार्ड (3)	आरक्षित वार्ड के क्रमांक व नाम (4)
1	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	01	11 इंदिरा गांधी वार्ड
2	अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	00	निरंक
3	अन्य पिछड़ा वर्गों के लिये आरक्षित कुल वार्ड	04	2 डॉ. राजेन्द्र प्रसाद वार्ड 6 राणा प्रताप वार्ड 7 पं. जवाहरलाल नेहरू वार्ड 8 महात्मागांधी वार्ड
4	अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड	00	निरंक
5	अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड	00	निरंक
6	अन्य पिछड़ा वर्गों की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड	2	2 डॉ. राजेन्द्रप्रसाद वार्ड 8 महात्मा गांधी वार्ड



(1)	(2)	(3)	(4)
7	महिलाओं के लिये (उक्त सरल क्रमांक 4, 5 व 6 के अलावा) आरक्षित वार्ड.	05	3 लालबहादुर शास्त्री वार्ड 5 डॉ. अम्बेडकर वार्ड 9 मौलाना अब्दुलकलाम आजाद वार्ड 13 रानी लक्ष्मीबाई वार्ड 15 लोकमान्य तिलक वार्ड

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
के. के. कातिया, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 10 अक्टूबर 2014

अधि. सू. 65 क्र. एफ-1-11-2013-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम 7 की अपेक्षा अनुसार नगर पालिका, शुजालपुर, जिला शाजापुर के लिए आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है:—

क्र. (1)	वर्ग जिसके लिए वार्ड आरक्षण किया गया (2)	कुल वार्ड (3)	आरक्षित वार्ड के क्रमांक व नाम (4)
1	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	04	8 अम्बेडकर वार्ड 9 रानी दुर्गावती वार्ड 23 शहीद भगतसिंह वार्ड 24 सुभाष चन्द्र वार्ड
2	अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	00	निरंक
3	अन्य पिछड़ा वर्गों के लिये आरक्षित कुल वार्ड	06	1 अशोक वार्ड 3 छत्रपति शिवाजी वार्ड 14 रामचंद्र चौबे वार्ड 15 जवाहर वार्ड 19 अरविन्द वार्ड 25 सरदार वल्लभभाई पटेल वार्ड
4	अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड	02	9 रानी दुर्गावती वार्ड 23 शहीद भगतसिंह वार्ड
5	अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड	00	निरंक
6	अन्य पिछड़ा वर्गों की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड	03	14 रामचंद्र चौबे वार्ड 19 अरविन्द वार्ड 25 सरदार वल्लभभाई पटेल वार्ड
7	महिलाओं के लिये (उक्त सरल क्रमांक 4, 5 व 6 के अलावा) आरक्षित वार्ड.	08	5 महावीर वार्ड 6 तिलक वार्ड 7 दयानंद वार्ड 12 प्रेमचंद वार्ड 13 डॉ. शंकरदयाल वार्ड 18 प्रताप वार्ड 20 महाराज अग्रसेन वार्ड 22 चंद्र शेखर आजाद वार्ड

अधि. सू. 65 क्र. एफ-1-11-2013-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम 7 की अपेक्षा अनुसार नगर परिषद, मक्सी, जिला शाजापुर के लिए आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है:—

क्र. (1)	वर्ग जिसके लिए वार्ड आरक्षण किया गया (2)	कुल वार्ड (3)	आरक्षित वार्ड के क्रमांक व नाम (4)
1	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	03	7 पार्श्वनाथ वार्ड 8 अम्बेडकर वार्ड 14 लक्ष्मीबाई वार्ड
2	अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	निरंक	निरंक
3	अन्य पिछड़ा वर्गों के लिये आरक्षित कुल वार्ड	04	1 संजयगांधी वार्ड 2 शास्त्री वार्ड 12 तिलक वार्ड 13 शिवमंदिर वार्ड
4	अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड	02	7 पार्श्वनाथ वार्ड 14 लक्ष्मीबाई वार्ड
5	अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड	निरंक	निरंक
6	अन्य पिछड़ा वर्गों की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड	02	1 संजयगांधी वार्ड 12 तिलक वार्ड
7	महिलाओं के लिये (उक्त सरल क्रमांक 4, 5 व 6 के अलावा) आरक्षित वार्ड.	04	3 महाराणा प्रताप वार्ड 9 खेड़ापति हनुमान वार्ड 10 जवाहर वार्ड 11 महात्मा गांधी वार्ड

अधि. सू. 65 क्र. एफ-1-11-2013-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम 7 की अपेक्षा अनुसार नगर परिषद, अकोदिया, जिला शाजापुर के लिए आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है:—

क्र. (1)	वर्ग जिसके लिए वार्ड आरक्षण किया गया (2)	कुल वार्ड (3)	आरक्षित वार्ड के क्रमांक व नाम (4)
1	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	02	1 डॉ. अम्बेडकर वार्ड 15 सुभाषचन्द्र वार्ड
2	अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	निरंक	निरंक
3	अन्य पिछड़ा वर्गों के लिये आरक्षित कुल वार्ड	04	5 जगजीवन राम वार्ड 8 लालबहादुर शास्त्री वार्ड 9 इन्दिरागांधी वार्ड 10 भगतसिंह वार्ड
4	अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड	01	1 डॉ. अम्बेडकर वार्ड
5	अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड	निरंक	निरंक
6	अन्य पिछड़ा वर्गों की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड	02	9 इन्दिरागांधी वार्ड 10 भगतसिंह वार्ड

(1)	(2)	(3)	(4)
7	महिलाओं के लिये (उक्त सरल क्रमांक 4, 5 व 6 के अलावा) आरक्षित वार्ड.	05	4 लोकमान्य तिलक वार्ड 7 जवाहर नेहरू वार्ड 11 राजीवगांधी वार्ड 12 महारानी लक्ष्मीबाई वार्ड 13 डॉ. राजेन्द्रप्रसाद वार्ड

अधि. सू. 65 क्र. एफ-1-11-2013-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम 7 की अपेक्षा अनुसार नगर परिषद, पानखेड़ी (कालापपीपल), जिला शाजापुर के लिए आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है:—

क्र. (1)	वर्ग जिसके लिए वार्ड आरक्षण किया गया (2)	कुल वार्ड (3)	आरक्षित वार्ड के क्रमांक व नाम (4)
1	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	01	15 स्वामी विवेकानन्द वार्ड
2	अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	01	2 डॉ. भीमराव अम्बेडकर वार्ड
3	अन्य पिछड़ा वर्गों के लिये आरक्षित कुल वार्ड	04	1 महाराणाप्रताप वार्ड 6 रविन्द्रनाथ टैगोर वार्ड 10 मौलाना आजाद वार्ड 12 जवाहरलाल नेहरू वार्ड
4	अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड	निरंक	निरंक
5	अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड	निरंक	निरंक
6	अन्य पिछड़ा वर्गों की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड	02	1 महाराणाप्रताप वार्ड 12 जवाहरलाल नेहरू वार्ड
7	महिलाओं के लिये (उक्त सरल क्रमांक 4, 5 व 6 के अलावा) आरक्षित वार्ड.	06	4 सरदार वल्लभभाई पटेल वार्ड 7 रानी दुर्गावती वार्ड 8 शहीद चन्द्रशेखर आजाद वार्ड 9 शहीद सरदार भगतसिंह वार्ड 11 लालबहादुर शास्त्री वार्ड 13 महात्मागांधी वार्ड

अधि. सू. 65 क्र. एफ-1-11-2013-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम 7 की अपेक्षा अनुसार नगर परिषद, पोलायकलॉ जिला शाजापुर के लिए आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है:—

क्र. (1)	वर्ग जिसके लिए वार्ड आरक्षण किया गया (2)	कुल वार्ड (3)	आरक्षित वार्ड के क्रमांक व नाम (4)
1	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	03	1 जवाहर वार्ड 8 अम्बेडकर वार्ड 9 श्रीराम वार्ड
2	अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	निरंक	निरंक
3	अन्य पिछड़ा वर्गों के लिये आरक्षित कुल वार्ड	04	4 शिवाजी वार्ड 6 सरदार पटेल वार्ड

(1)	(2)	(3)	(4)
			12 इंदिरागांधी वार्ड 13 बजरंग वार्ड
4	अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड	02	1 जवाहर वार्ड 9 श्रीराम वार्ड
5	अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड	निरंक	निरंक
6	अन्य पिछड़ा वर्गों की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड	02	6 सरदार पटेल वार्ड 13 बजरंग वार्ड
7	महिलाओं के लिये (उक्त सरल क्रमांक 4, 5 व 6 के अलावा) आरक्षित वार्ड.	04	2 सुभाष वार्ड 7 भगतसिंह वार्ड 11 महादेव वार्ड 15 महाराणा प्रताप वार्ड

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
के. के. कातिया, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 10 अक्टूबर 2014

अधि. सू. 66 क्र. एफ-1-11-2013-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम 7 की अपेक्षा अनुसार नगर पालिक निगम, रतलाम, जिला रतलाम के लिए आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है:—

क्र. (1)	वर्ग जिसके लिए वार्ड आरक्षण किया गया (2)	कुल वार्ड (3)	आरक्षित वार्ड के क्रमांक व नाम (4)
1	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	05	1 गांधी नगर वार्ड 2 लक्ष्मणपुरा वार्ड 31 बाबू जगजीवनराम वार्ड 32 पं. मोतीलाल नेहरू वार्ड 21 सिलावट वास वार्ड
2	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	03	1 गांधीनगर वार्ड 31 बाबू जगजीवनराम वार्ड 32 पं. मोतीलाल नेहरू वार्ड
3	अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	02	17 खेतलपुर वार्ड 10 डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी वार्ड
4	अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड	01	17 खेतलपुर वार्ड
5	अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित कुल वार्ड	12	4 इन्दिरागांधी वार्ड 12 कस्तुरबा वार्ड 14 डॉ. कैलाशनाथ काटजू वार्ड 23 रामगढ़ वार्ड 33 डॉ. लालबहादुर शास्त्री वार्ड 37 डॉ. जाकिर हुसैन वार्ड

(1)	(2)	(3)	(4)
			40 राजमहल वार्ड
			45 चांदनी चौक वार्ड
			46 संत कबीरदास वार्ड
			13 अम्बेडकर वार्ड
			7 अलकापुरी वार्ड
			41 महारानी लक्ष्मीबाई वार्ड
6	अन्य पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड	06	40 राजमहल वार्ड
			45 चांदनी चौक वार्ड
			37 डॉ. जाकिर हुसैन वार्ड
			23 रामगढ़ वार्ड
			46 संत कबीरदास वार्ड
			41 महारानी लक्ष्मीबाई वार्ड
7	अनारक्षित वार्ड	30	3 राजीवगांधी वार्ड
			5 डॉ. विनोबा भावे वार्ड
			6 इन्द्रलोक नगर वार्ड
			8 राजगढ़ वार्ड
			9 रत्नपुरी वार्ड
			11 पं. प्रेमनाथ डोंगरे वार्ड
			15 सुभाष वार्ड
			16 डॉ. राधाकृष्णन वार्ड
			18 टाटानगर वार्ड
			19 धीरजशाह नगर वार्ड
			20 पं. दीनदयाल उपाध्याय वार्ड
			22 भगतपुरी वार्ड
			24 सायर चबुतरा वार्ड
			25 मालीकुआ वार्ड
			26 थावरिया बाजार वार्ड
			27 हाकिमवाड़ा वार्ड
			28 अर्जुन नगर वार्ड
			29 आनंद कालोनी वार्ड
			30 भक्तन की बावड़ी वार्ड
			34 लोकेन्द्र भवन वार्ड
			36 डॉ. राजेन्द्र प्रसाद वार्ड
			38 मौलाना आजाद वार्ड
			39 नगर निगम वार्ड
			42 गफूर वार्ड
			44 डॉ. सय्यैदना सा. वार्ड
			47 मोमिनपुरा वार्ड
			48 महर्षि वेदव्यास वार्ड
			49 महर्षि दयानन्द वार्ड
			35 जवाहर वार्ड
			43 रानी दुर्गावती वार्ड

(1)	(2)	(3)	(4)
8	अनारक्षित महिलाओं के लिये आरक्षित वार्ड	15	5 डां. विनोबा भावे वार्ड 6 इन्द्रलोक नगर वार्ड 8 राजगढ़ वार्ड 11 प. प्रेमनाथ डोंगरे वार्ड 15 सुभाष वार्ड 16 डॉ. राधाकृष्णन वार्ड 18 टाटानगर वार्ड 24 सायर चबुतरा वार्ड 34 लोकेन्द्र भवन वार्ड 38 मौलाना आजाद वार्ड 47 मोमिनपुरा वार्ड 48 महर्षि वेदव्यास वार्ड 22 भगतपुरी वार्ड 42 गफूर वार्ड 29 आनंद कालोनी वार्ड

अधि. सू. 66 क्र. एफ-1-11-वार्ड आरक्षण-2013-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम 7 की अपेक्षा अनुसार नगरपालिका परिषद जावरा, जिला रतलाम के लिये आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है:—

अनु क्र. (1)	वर्ग जिसके लिये वार्ड आरक्षण किया गया है (2)	कुल वार्ड (3)	आरक्षित वार्डों का क्रमांक व नाम (4)
1	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित वार्ड	03	27 गुरूनानक वार्ड 26 कमलानेहरू वार्ड 08 अम्बेडकर वार्ड
2	अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिये आरक्षित वार्ड	02	27 गुरूनानक वार्ड 26 कमलानेहरू वार्ड
3	अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित वार्ड	01	28 शास्त्री वार्ड
4	अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिये आरक्षित वार्ड	निरंक	निरंक
5	अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षित वार्ड	08	05 किदवई वार्ड 07 भगत सिंह वार्ड 14 हनुमान वार्ड 17 सुभाष वार्ड 22 टैगोर वार्ड 30 राजीव वार्ड 20 गुलशन वार्ड 04 इफितखार वार्ड
6	अन्य पिछड़ा वर्गों की महिलाओं के लिए आरक्षित वार्ड	04	22 टैगोर वार्ड 05 किदवई वार्ड 14 हनुमान वार्ड 17 सुभाष वार्ड
7	अनारक्षित वार्ड	18	01 राधाकृष्णन वार्ड

(1)	(2)	(3)	(4)
			02 विनोबा भावे 03 आजाद वार्ड 06 सैफी वार्ड 09 इंदिरा वार्ड 10 शीतलामाता वार्ड 11 नरसिंह वार्ड 13 काटजू वार्ड 15 महावीर वार्ड 16 रविदास वार्ड 18 लक्ष्मीबाई वार्ड 19 राजेन्द्र वार्ड 21 शिवाजी वार्ड 23 सरदार पटेल वार्ड 24 अशफाक वार्ड 25 तिलक वार्ड 29 महात्मा गांधी वार्ड 12 जवाहर वार्ड
8	अनारक्षित महिलाओं के लिये आरक्षित वार्ड	09	02 विनोबा वार्ड 06 सैफी वार्ड 18 लक्ष्मीबाई वार्ड 21 शिवाजी वार्ड 29 महात्मागांधी वार्ड 23 सरदार पटेल वार्ड 19 राजेन्द्र वार्ड 15 महावीर वार्ड 12 जवाहर वार्ड

अधि. सू. 66 क्र. एफ-1-11-वार्ड आरक्षण-2013-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम 7 की अपेक्षा अनुसार नगर परिषद आलोट, जिला रतलाम के लिये आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है:—

अनु क्र. (1)	वर्ग जिसके लिये वार्ड आरक्षण किया गया है (2)	कुल वार्ड (3)	आरक्षित वार्डों का क्रमांक व नाम (4)
1	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित वार्ड	01	06 शीतलामाता वार्ड
2	अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिये आरक्षित वार्ड	0	निरंक
3	अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित वार्ड	0	निरंक
4	अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिये आरक्षित वार्ड	0	निरंक
5	अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षित वार्ड	04	01 स्टेशन रोड वार्ड 04 नया बाजार वार्ड 15 हनुमान मंदिर वार्ड 09 जामा मस्जिद वार्ड

(1)	(2)	(3)	(4)
6	अन्य पिछड़ा वर्गों की महिलाओं के लिए आरक्षित वार्ड	02	01 स्टेशन रोड वार्ड 15 हनुमान मंदिर वार्ड
7	अनारक्षित वार्ड	10	02 भाम्भीपुरा वार्ड 03 रूकमणीगंज वार्ड 05 उपरल्ली टोली वार्ड 07 जुनाबाजार वार्ड 08 खुदवाडी मोहल्ला वार्ड 10 बोहरा बाखल वार्ड 11 राजेन्द्र चौक वार्ड 12 गांधी चौक वार्ड 13 प्रमिलागंज वार्ड 14 मुंज रोड वार्ड
8	अनारक्षित महिलाओं के लिये आरक्षित वार्ड	05	02 भाम्भीपुरा वार्ड 08 खुदवाडी मोहल्ला वार्ड 13 प्रमिलागंज वार्ड 05 उपरल्ली टोली वार्ड 14 मुंज रोड 02- वार्ड

अधि. सू. 66 क्र. एफ-1-11-वार्ड आरक्षण-2013-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम 7 की अपेक्षा अनुसार नगर परिषद ताल, जिला रतलाम के लिये आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है:—

अनु क्र. (1)	वर्ग जिसके लिये वार्ड आरक्षण किया गया है (2)	कुल वार्ड (3)	आरक्षित वार्डों का क्रमांक व नाम (4)
1	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित वार्ड	01	06 महात्मागांधी वार्ड
2	अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिये आरक्षित वार्ड	0	निरंक
3	अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित वार्ड	0	निरंक
4	अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिये आरक्षित वार्ड	0	निरंक
5	अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षित वार्ड	04	04 भगतसिंह वार्ड 08 स्वामी विवेकानंद वार्ड 10 डॉ. अम्बेडकर वार्ड 12 सरदार पटेल वार्ड
6	अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित वार्ड	02	08 स्वामी विवेकानंद वार्ड 04 भगतसिंह वार्ड
7	अनारक्षित वार्ड	10	01 राजेन्द्र वार्ड 02 लक्ष्मीबाई वार्ड 05 शिवाजी वार्ड 07 मुखर्जी वार्ड 11 मौलाना आजाद वार्ड



(1)	(2)	(3)	(4)
			13 चन्द्रशेखर आजाद वार्ड 14 इंदिरा गांधी वार्ड 15 जवाहर वार्ड 03 राणा प्रताप वार्ड 09 शास्त्री वार्ड
8	अनारक्षित महिलाओं के लिये आरक्षित वार्ड	05	01 राजेन्द्र वार्ड 14 इंदिरा गांधी वार्ड 05 शिवाजी वार्ड 07 मुखर्जी वार्ड 03 राणा प्रताप वार्ड

अधि. सू. 66 क्र. एफ-1-11-वार्ड आरक्षण-2013-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम 7 की अपेक्षा अनुसार नगर परिषद बडावदा, जिला रतलाम के लिये आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है:—

अ. क्र.	वर्ग जिसके लिये वार्ड आरक्षित किया गया है	कुल वार्ड	आरक्षित वार्डों का क्रमांक व नाम
(1)	(2)	(3)	(4)
1	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित वार्ड	03	06 भगतसिंह वार्ड 02 अम्बेडकर वार्ड 13 राणा प्रताप वार्ड
2	अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिये आरक्षित वार्ड	02	02 अम्बेडकर वार्ड 13 राणा प्रताप वार्ड
3	अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित वार्ड	01	12 इंदिरा गांधी वार्ड
4	अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिये आरक्षित वार्ड	0	निरंक
5	अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षित वार्ड	04	10 सुभाष वार्ड 14 राजेन्द्र प्रसाद वार्ड 08 शास्त्री वार्ड 15 चन्द्रशेखर वार्ड
6	अन्य पिछड़ा वर्गों की महिलाओं के लिए आरक्षित वार्ड	02	08 शास्त्री वार्ड 15 चन्द्रशेखर वार्ड
7	अनारक्षित वार्ड	07	01 महात्मा गांधी वार्ड 03 शिवाजी वार्ड 04 जवाहर वार्ड 05 मौलाना आजाद वार्ड 07 सरदार पटेल वार्ड 09 लक्ष्मीबाई वार्ड 11 मुखर्जी वार्ड
8	अनारक्षित महिलाओं के लिये आरक्षित वार्ड	04	01 शिवाजी वार्ड 04 जवाहर वार्ड 05 मौलाना आजाद वार्ड 09 लक्ष्मीबाई वार्ड

अधि. सू. 66 क्र. एफ-1-11-वार्ड आरक्षण-2013-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम 7 की अपेक्षा अनुसार नगर परिषद नामली, जिला रतलाम के लिये आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है:—

अ. क्र. (1)	वर्ग जिसके लिये वार्ड आरक्षित किया गया है (2)	कुल वार्ड (3)	आरक्षित वार्डों का क्रमांक व नाम (4)
1	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित वार्ड	02	09 लाल बहादुर शास्त्री 02 डॉ. राजेन्द्र प्रसाद
2	अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिये आरक्षित वार्ड	01	09 लालबहादुर शास्त्री
3	अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित वार्ड	0	निरंक
4	अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिये आरक्षित वार्ड	0	निरंक
5	अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षित वार्ड	04	04 महात्मा गांधी 08 महारानी लक्ष्मीबाई 15 मौलाना अब्दुल कलाम आजाद 07 महर्षिदयानंद
6	अन्य पिछड़ा वर्गों की महिलाओं के लिये आरक्षित वार्ड	02	08 महारानी लक्ष्मीबाई 07 महर्षिदयानंद
7	अनारक्षित वार्ड	09	01 विवेकानंद 03 सरदार वल्लभ भाई पटेल 05 शहीद भगतसिंह 06 डॉ. अम्बेडकर 11 इंदिरा गांधी 12 महाराणा प्रताप 13 चंद्रशेखर आजाद 14 छत्रपति शिवाजी 10 नेताजी सुभाषचंद्र बोस
8	अनारक्षित महिलाओं के लिये आरक्षित वार्ड	05	05 शहीद भगतसिंह 12 महाराणा प्रताप 06 डॉ. अम्बेडकर 11 इंदिरा गांधी 14 छत्रपति शिवाजी

अधि. सू. 86 क्र. एफ-1-11-वार्ड आरक्षण-2013-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम 7 की अपेक्षा अनुसार नगर परिषद पिपलौदा, जिला रतलाम के लिये आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है:—

अ. क्र. (1)	वर्ग जिसके लिये वार्ड आरक्षित किया गया है (2)	कुल वार्ड (3)	आरक्षित वार्डों का क्रमांक व नाम (4)
1	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित वार्ड	03	02 डॉ. अम्बेडकर 01 बाबु जगजीवनराम 13 राजीव गांधी

(1)	(2)	(3)	(4)
2	अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिये आरक्षित वार्ड	02	02 डॉ. अम्बेडकर 13 राजीव गांधी
3	अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित वार्ड	02	09 महात्मा गांधी 12 राधाकृष्ण
4	अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिये आरक्षित वार्ड	1	12 राधाकृष्ण
5	अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षित वार्ड	04	03 गढ तलेटी 15 आजाद 10 नेहरू 05 भगतसिंह
6	अन्य पिछड़ा वर्गों की महिलाओं के लिये आरक्षित वार्ड	02	10 नेहरू 03 गढ तलेटी
7	अनारक्षित वार्ड	06	06 मस्जिद 07 काला बाबजी 08 लक्ष्मीबाई 11 राजेन्द्र प्रसाद 14 शास्त्री 04 महावीर
8	अनारक्षित महिलाओं के लिये आरक्षित वार्ड	03	14 शास्त्री 07 काला बाबजी 11 राजेन्द्र प्रसाद

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

के. के. कातिया, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 10 अक्टूबर 2014

अधि. सू. 67 क्र. एफ-1-11-2013-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम 7 की अपेक्षा अनुसार नगर परिषद गरोठ, जिला मंदसौर के लिये आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है:—

अ. क्र. (1)	वर्ग जिसके लिये वार्ड आरक्षण किया गया (2)	कुल वार्ड (3)	आरक्षित वार्डों का क्रमांक व नाम (4)
1	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	2	6 मुकर्जी वार्ड 12 रैदास वार्ड
2	अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	निरंक	निरंक
3	अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षित कुल वार्ड	4	1 जवाहर वार्ड 7 सुभाष वार्ड 9 अम्बेडकर वार्ड 15 लक्ष्मीबाई वार्ड
4	अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	1	6 मुकर्जी वार्ड
5	अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड	निरंक	निरंक
6	अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	2	7 सुभाष वार्ड 9 अम्बेडकर वार्ड

(1)	(2)	(3)	(4)
7	महिलाओं के लिए (उक्त सरल क्रमांक 4, 5 व 6 के अलावा) आरक्षित वार्ड	5	2 इंदिरा गांधी वार्ड 4 गांधी वार्ड 5 मालवीय वार्ड 11 शास्त्री वार्ड 14 अहिल्या वार्ड

अधि. सू. 67 क्र. एफ-1-11-2013-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम 7 की अपेक्षा अनुसार नगर परिषद मल्हारगढ़, जिला मंडसौर के लिये आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है:—

अ. क्र. (1)	वर्ग जिसके लिये आरक्षण किया गया (2)	कुल वार्ड (3)	आरक्षित वार्ड के क्रमांक व नाम (4)
1	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	2	7 लोक मान्य तिलक वार्ड 8 डॉ. अम्बेडकर वार्ड
2	अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	निरंक	निरंक
3	अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षित कुल वार्ड	4	1 लालबहादुर शास्त्री वार्ड 6 सुभाषचन्द्र बोस वार्ड 14 राममनोहर लोहिया वार्ड 15 पं. दीनदयाल उपाध्याय वार्ड
4	अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	1	7 लोक मान्य तिलक वार्ड
5	अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड	निरंक	निरंक
6	अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	2	1 लालबहादुर शास्त्री वार्ड 6 सुभाषचन्द्र बोस वार्ड
7	महिलाओं के लिए (उक्त सरल क्रमांक 4, 5 व 6 के अलावा) आरक्षित वार्ड	5	3 जवाहरलाल नेहरू वार्ड 4 स्वामी विवेकानंद वार्ड 5 विनोबा भावे वार्ड 11 रानी लक्ष्मीबाई वार्ड 13 महाराणा प्रताप वार्ड

अधि. सू. 67 क्र. एफ-1-11-2013-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम 7 की अपेक्षा अनुसार नगर परिषद नारायणगढ़, जिला मंडसौर के आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है:—

अ. क्र. (1)	वर्ग जिसके लिये आरक्षण किया गया (2)	कुल वार्ड (3)	आरक्षित वार्ड के क्रमांक व नाम (4)
1	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	2	9 दीनदयाल वार्ड 15 डॉ. अम्बेडकर वार्ड
2	अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	निरंक	निरंक
3	अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षित कुल वार्ड	4	2 नेहरू वार्ड 5 दयानंद वार्ड 6 शास्त्री वार्ड 10 अहिल्या वार्ड

(1)	(2)	(3)	(4)
4	अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	1	15 डॉ. अम्बेडकर वार्ड
5	अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड	निरंक	निरंक
6	अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	2	5 दयानंद वार्ड 6 शास्त्री वार्ड
7	महिलाओं के लिए (उक्त सरल क्रमांक 4, 5 व 6 के अलावा) आरक्षित वार्ड	5	1 सरदार पटेल वार्ड 3 आजाद वार्ड 11 गांधी वार्ड 12 भगतसिंह वार्ड 13 लक्ष्मीबाई वार्ड

अधि. सू. 67 क्र. एफ-1-11-2013-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम 7 की अपेक्षा अनुसार नगर परिषद भानपुरा, जिला मंदसौर के आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है:—

अ. क्र. (1)	वर्ग जिसके लिये आरक्षण किया गया (2)	कुल वार्ड (3)	आरक्षित वार्ड के क्रमांक व नाम (4)
1	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	1	8 सरदार भगतसिंह वार्ड
2	अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	1	9 श्यामाप्रसाद मुखर्जी वार्ड
3	अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षित कुल वार्ड	4	4 चन्द्रशेखर वार्ड 5 महात्मा गांधी वार्ड 6 सरदार पटेल वार्ड 11 पं. मदनमोहन मालवीय वार्ड
4	अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	निरंक	निरंक
5	अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड	1	9 श्यामाप्रसाद मुखर्जी वार्ड
6	अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	2	4 चन्द्रशेखर वार्ड 11 पं. मदनमोहन मालवीय वार्ड
7	महिलाओं के लिए (उक्त सरल क्रमांक 4, 5 व 6 के अलावा) आरक्षित वार्ड	5	2 गुरुगोविन्दसिंह वार्ड 7 डॉ. अम्बेडकर वार्ड 12 सुखसम्पत्तिराय वार्ड 13 नेताजी सुभाषचन्द्र बोस वार्ड 15 राजीव गांधी वार्ड

अधि. सू. 67 क्र. एफ-1-11-2013-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम 7 की अपेक्षा अनुसार नगर परिषद सीतामऊ, जिला मंदसौर के लिये आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है:—

अ. क्र. (1)	वर्ग जिसके लिये आरक्षण किया गया (2)	कुल वार्ड (3)	आरक्षित वार्ड के क्रमांक व नाम (4)
1	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	1	6 अम्बेडकर वार्ड
2	अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	निरंक	निरंक

(1)	(2)	(3)	(4)
3	अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षित कुल वार्ड	4	1 बहादुरसिंह वार्ड 8 पानपुरिया वार्ड 11 स्वामी विवेकानंद वार्ड 14 चारभुजानाथ वार्ड
4	अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	निरंक	निरंक
5	अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड	निरंक	निरंक
6	अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	2	1 बहादुरसिंह वार्ड 14 चारभुजानाथ वार्ड
7	महिलाओं के लिए (उक्त सरल क्रमांक 4, 5 व 6 के अलावा) आरक्षित वार्ड	6	3 हरिमंदिर वार्ड 4 परिमदार वार्ड 5 गनगौर वार्ड 7 गणपति वार्ड 9 महात्मा गांधी वार्ड 10 बैजनाथ वार्ड

अधि. सू. 67 क्र. एफ-1-11-2013-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम 7 की अपेक्षा अनुसार नगर परिषद शामगढ़, जिला मंडसौर के लिये आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है:—

अ. क्र. (1)	वर्ग जिसके लिये आरक्षण किया गया (2)	कुल वार्ड (3)	आरक्षित वार्ड के क्रमांक व नाम (4)
1	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	2	2 डॉ. अम्बेडकर वार्ड 14 शिवाजी वार्ड
2	अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	निरंक	निरंक
3	अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षित कुल वार्ड	4	1 दुर्गा माता वार्ड 3 सरदार पटेल वार्ड 10 जवाहरलाल नेहरू वार्ड 13 रफीक एहमद किदवई वार्ड
4	अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	1	14 शिवाजी वार्ड
5	अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड	निरंक	निरंक
6	अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	2	3 सरदार पटेल वार्ड 10 जवाहरलाल नेहरू वार्ड
7	महिलाओं के लिए (उक्त सरल क्रमांक 4, 5 व 6 के अलावा) आरक्षित वार्ड	5	6 इंदिरा गांधी वार्ड 7 महात्मा गांधी वार्ड 8 लालबहादुर शास्त्री वार्ड 11 सरदार भगतसिंह वार्ड 15 मौलाना आजाद वार्ड

अधि. सू. 67 क्र. एफ-1-11-2013-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम 7 की अपेक्षा अनुसार नगर परिषद नगरी जिला मंदसौर के आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है:—

अ. क्र. (1)	वर्ग जिसके लिये आरक्षण किया गया (2)	कुल वार्ड (3)	आरक्षित वार्ड का क्रमांक व नाम (4)
1	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	1	13 रैदास वार्ड
2	अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	1	15 डॉ. अम्बेडकर वार्ड
3	अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षित कुल वार्ड	4	5 भगतसिंह वार्ड 10 सुभाष वार्ड 11 कमला नेहरू वार्ड 12 शिवाजी वार्ड
4	अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	1	13 रैदास वार्ड
5	अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड	निरंक	निरंक
6	अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	2	5 भगतसिंह वार्ड 11 कमला नेहरू वार्ड
7	महिलाओं के लिए (उक्त सरल क्रमांक 4, 5 व 6 के अलावा) आरक्षित वार्ड	5	1 विवेकानंद वार्ड 2 लालबहादुर वार्ड 4 नेहरू वार्ड 7 महात्मा गांधी वार्ड 14 लोक मान्य तिलक वार्ड

अधि. सू. 67 क्र. एफ-1-11-2013-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम 7 की अपेक्षा अनुसार नगर परिषद पिपलियामण्डी, जिला मंदसौर के लिये आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है:—

अ. क्र. (1)	वर्ग जिसके लिये आरक्षण किया गया है (2)	कुल वार्ड (3)	आरक्षित वार्ड के क्रमांक व नाम (4)
1	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	2	2 डॉ. राजेन्द्रप्रसाद वार्ड 8 डॉ. अम्बेडकर वार्ड
2	अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	निरंक	निरंक
3	अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षित कुल वार्ड	4	5 महात्मा गांधी वार्ड 7 महारानी लक्ष्मीबाई वार्ड 10 स्वामी विवेकानंद वार्ड 14 जवाहर लाल नेहरू वार्ड
4	अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	1	2 डॉ. राजेन्द्रप्रसाद वार्ड
5	अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड	निरंक	निरंक
6	अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	2	5 महात्मा गांधी वार्ड 14 जवाहरलाल नेहरू वार्ड
7	महिलाओं के लिए (उक्त सरल क्रमांक 4, 5 व 6 के अलावा) आरक्षित वार्ड	5	1 चन्द्रशेखर आजाद वार्ड 4 लालबहादुर शास्त्री वार्ड 9 पं. दीनदयाल उपाध्याय वार्ड 12 इंदिरा गांधी वार्ड 15 श्यामाप्रसाद मुखर्जी वार्ड

## भोपाल, दिनांक 10 अक्टूबर 2014

अधि. सू. 68 क्र. एफ 1-11-13-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम 7 की अपेक्षानुसार नगर पालिका, सिवनी, जिला सिवनी के आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है:—

क्र. (1)	वार्ड जिसके लिए वार्ड आरक्षित किया गया है (2)	कुल वार्ड (3)	वार्ड का नाम (4)	आरक्षित वार्डों का क्रमांक व नाम (5)
1	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	03	टैगोर वार्ड किदवई वार्ड अंबेडकर वार्ड	07 अनुसूचित जाति 21 अनुसूचित जाति महिला 22 अनुसूचित जाति महिला
2	अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	02	कबीर वार्ड रानी दुर्गावती वार्ड	06 अनुसूचित जनजाति महिला 19 अनुसूचित जनजाति
3	अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षित कुल वार्ड	06	शास्त्री वार्ड महावीर वार्ड गुरूनानक वार्ड अशोक वार्ड विवेकानंद वार्ड तिलक वार्ड	04 पिछड़ा वर्ग 08 पिछड़ा वर्ग 09 पिछड़ा वर्ग महिला 14 पिछड़ा वर्ग महिला 17 पिछड़ा वर्ग महिला 18 पिछड़ा वर्ग
4	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित वार्डों में से अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड.	02	किदवई वार्ड अंबेडकर वार्ड	21 अनुसूचित जाति महिला 22 अनुसूचित जाति महिला
5	अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित वार्डों में से अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड.	01	कबीर वार्ड	06 अनुसूचित जनजाति महिला
6	अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षित वार्डों में से अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड.	03	गुरूनानक वार्ड अशोक वार्ड विवेकानंद वार्ड	09 पिछड़ा वर्ग महिला 14 पिछड़ा वर्ग महिला 17 पिछड़ा वर्ग महिला
7.	महिलाओं के लिये (उक्त सरल क्रमांक 4, 5 एवं 6 के अलावा) कुल आरक्षित वार्ड	06	सी. बी. रमन वार्ड मेजर ध्यानचंद वार्ड गाँधी वार्ड शहीद वार्ड संजय वार्ड पृथ्वीराज चौहान वार्ड	05 अनारक्षित महिला 10 अनारक्षित महिला 12 अनारक्षित महिला 13 अनारक्षित महिला 15 अनारक्षित महिला 24 अनारक्षित महिला

अधि.सू. 68 क्र. एफ 1-11-13-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की मध्यप्रदेश नगर पालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम 7 की अपेक्षानुसार नगर परिषद् बरघाट, जिला सिवनी के आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है:—

क्र. (1)	वार्ड जिसके लिये वार्ड आरक्षित किया गया है (2)	कुल वार्ड (3)	आरक्षित वार्डों का क्रमांक एवं नाम (4)
1	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	2	3 श्रीमती सरोजनी नायडू वार्ड 5 अम्बेडकर वार्ड
2	अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	2	1 माँ गायत्री वार्ड 15 राजीवगांधी वार्ड



(1)	(2)	(3)	(4)
3	अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षित कुल वार्ड	4	6 चन्द्रशेखर आजाद वार्ड 7 बजरंग वार्ड 8 सुभाष चन्द्रबोस वार्ड 14 महाराणा प्रताप वार्ड
4	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित वार्ड में से अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड.	1	5 अम्बेडकर वार्ड
5	अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित वार्ड में से अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड.	1	15 राजीव गाँधी वार्ड
6	अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षित वार्ड में से अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड.	2	7 बजरंग वार्ड 14 महाराणा प्रताप वार्ड
7	महिलाओं के लिये (सरल क्रमांक 4, 5 व 6 के अलावा) कुल आरक्षित वार्ड.	3	2 माँ संतोषी वार्ड 4 महात्मा गांधी वार्ड 12 लाल बहादुर शास्त्री वार्ड

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
के. के. कातिया, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 10 अक्टूबर 2014

अधि. सू. 69 क्र. एफ 1-11-13-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम 7 की अपेक्षा अनुसार नगरपालिका परिषद् अमरवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के लिए आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है:—

क्र. (1)	वर्ग जिसके लिये आरक्षण किया गया (2)	कुल वार्ड (3)	आरक्षित वार्ड के क्रमांक व नाम (4)
1	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	02	04 संत रैदास वार्ड 11 अम्बेडकर वार्ड
2	अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	01	05 रानी दुर्गावती वार्ड
3	अन्य पिछड़ा वर्गों के लिये आरक्षित कुल वार्ड	04	01 सिविल लाईन वार्ड 07 शास्त्री वार्ड 08 शिवाजी वार्ड 14 शारदामाई वार्ड
4	अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	01	11 अम्बेडकर वार्ड
5	अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	-	-
6	अन्य पिछड़ा वर्गों की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	02	07 शास्त्री वार्ड 14 शारदामाई वार्ड
7	महिलाओं के लिये (उक्त सरल क्रमांक 4, 5 व 6 के अलावा) आरक्षित वार्ड.	04	02 तिलक वार्ड 03 भगतसिंह वार्ड 06 नेहरू वार्ड 13 जगतदेव वार्ड

अधि. सू. 69 क्र. एफ 1-11-13-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम 7 की अपेक्षा अनुसार नगरपालिका परिषद् चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के लिए आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है:—

क्र. (1)	वर्ग जिसके लिये आरक्षण किया गया (2)	कुल वार्ड (3)	आरक्षित वार्ड के क्रमांक व नाम (4)
1	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	01	08 कस्तूरबा वार्ड
2	अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	01	07 इंदिरा वार्ड
3	अन्य पिछड़ा वर्गों के लिये आरक्षित कुल वार्ड	04	01 माता वार्ड 03 आजाद वार्ड 11 भगतसिंह वार्ड 14 शिवाजी वार्ड
4	अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	-	-
5	अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	-	-
6	अन्य पिछड़ा वर्गों की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	2	01 माता वार्ड 14 शिवाजी वार्ड
7	महिलाओं के लिये (उक्त सरल क्रमांक 4, 5 व 6 के अलावा) आरक्षित वार्ड.	5	04 नेहरू वार्ड 05 सुभाष वार्ड 06 अहिल्या वार्ड 09 राजीव वार्ड 15 तिलक वार्ड

अधि. सू. 69 क्र. एफ 1-11-13-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम 7 की अपेक्षा अनुसार नगरपालिका परिषद् डोंगरपरासिया, जिला छिन्दवाड़ा के लिए आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है:—

क्र. (1)	वर्ग जिसके लिये आरक्षण किया गया (2)	कुल वार्ड (3)	आरक्षित वार्ड के क्रमांक व नाम (4)
1	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	04	07 सुभाष वार्ड 16 कालेज वार्ड 17 दुर्गा वार्ड 20 परदेसी वार्ड
2	अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	03	01 भीमसेन वार्ड 05 कबीर वार्ड 06 पुरानी बस्ती वार्ड
3	अन्य पिछड़ा वर्गों के लिये आरक्षित कुल वार्ड	04	08 पुरानी ग्राम पंचायत वार्ड 12 शिवमंदिर वार्ड 18 भण्डारिया वार्ड 21 बजरंग वार्ड

(1)	(2)	(3)	(4)
4	अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	02	07 सुभाष वार्ड 16 कालेज वार्ड
5	अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	02	01 भीमसेन वार्ड 05 कबीर वार्ड
6	अन्य पिछड़ा वर्गों की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	02	08 पुरानी ग्राम पंचायत वार्ड 21 बजरंग वार्ड
7	महिलाओं के लिये (उक्त सरल क्रमांक 4, 5 व 6 के अलावा) आरक्षित वार्ड.	05	04 थाना वार्ड 09 लाला वार्ड 10 अनंत माधव वार्ड 11 गांधी वार्ड 14 आजाद वार्ड

अधि. सू. 69 क्र. एफ 1-11-13-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम 7 की अपेक्षा अनुसार नगर परिषद् न्यूटनचिखली, जिला छिन्दवाड़ा के लिए आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है:—

क्र. (1)	वर्ग जिसके लिये आरक्षण किया गया (2)	कुल वार्ड (3)	आरक्षित वार्ड के क्रमांक व नाम (4)
1	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	03	01 डॉ. अम्बेडकर वार्ड 06 आजाद वार्ड 07 कमला नेहरू वार्ड
2	अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	02	02 सुभाष वार्ड 08 गोस्वामी तुलसीदास वार्ड
3	अन्य पिछड़ा वर्गों के लिये आरक्षित कुल वार्ड	03	05 तिलक वार्ड 09 सरदार पटेल वार्ड 12 गणेश वार्ड
4	अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	02	01 डॉ. अम्बेडकर वार्ड 07 कमला नेहरू वार्ड
5	अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	01	08 गोस्वामी तुलसीदास वार्ड
6	अन्य पिछड़ा वर्गों की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	02	05 तिलक वार्ड 09 सरदार पटेल वार्ड
7	महिलाओं के लिये (उक्त सरल क्रमांक 4, 5 व 6 के अलावा) आरक्षित वार्ड.	03	03 जवाहरलाल नेहरू वार्ड 11 राजेन्द्र वार्ड 15 शिवाजी वार्ड

अधि.सू. 69 क्र. एफ 1-11-13-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम 7 की अपेक्षा अनुसार नगर परिषद् बडकुही, जिला छिन्दवाड़ा के लिए आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है:—

क्र. (1)	वर्ग जिसके लिये आरक्षण किया गया (2)	कुल वार्ड (3)	आरक्षित वार्ड के क्रमांक व नाम (4)
1	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	03	04 डॉ. भीमराव अम्बेडकर वार्ड 07 पं. दीनदयाल उपाध्याय वार्ड 13 रानी लक्ष्मीबाई वार्ड
2	अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	03	05 नेहरू वार्ड 06 दर्शन नगर वार्ड 08 महात्मा गांधी वार्ड
3	अन्य पिछड़ा वर्गों के लिये आरक्षित कुल वार्ड	02	03 नेताजी सुभाषचन्द्र बोस वार्ड 09 छत्रपति शिवाजी वार्ड
4	अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	02	04 डॉ. भीमराव अम्बेडकर वार्ड 07 पं. दीनदयाल उपाध्याय वार्ड
5	अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	02	05 नेहरू वार्ड 08 महात्मा गांधी वार्ड
6	अन्य पिछड़ा वर्गों की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	01	09 छत्रपति शिवाजी वार्ड
7	महिलाओं के लिये (उक्त सरल क्रमांक 4, 5 व 6 के अलावा) आरक्षित वार्ड.	03	02 इंदिरा गांधी वार्ड 14 चन्द्रशेखर आजाद वार्ड 15 खेडापति वार्ड

अधि.सू. 69 क्र. एफ 1-11-13-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम 7 की अपेक्षा अनुसार नगर परिषद् चांदामेटा बुटारिया, जिला छिन्दवाड़ा के लिए आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है:—

क्र. (1)	वर्ग जिसके लिये आरक्षण किया गया (2)	कुल वार्ड (3)	आरक्षित वार्ड के क्रमांक व नाम (4)
1	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	03	07 डॉ. अम्बेडकर वार्ड 09 इंदिरा गांधी वार्ड 10 महात्मा गांधी वार्ड
2	अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	02	01 चांदा वार्ड 02 सरदार पटेल वार्ड
3	अन्य पिछड़ा वर्गों के लिये आरक्षित कुल वार्ड	03	05 महारानी लक्ष्मीबाई वार्ड 08 पं. जवाहरलाल नेहरू वार्ड 13 सुभाषचन्द्र बोस वार्ड
4	अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	02	07 डॉ. अम्बेडकर वार्ड 09 इंदिरा गांधी वार्ड
5	अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	01	01 चांदा वार्ड
6	अन्य पिछड़ा वर्गों की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	02	05 महारानी लक्ष्मीबाई वार्ड 13 सुभाषचन्द्र बोस वार्ड
7	महिलाओं के लिये (उक्त सरल क्रमांक 4, 5 व 6 के अलावा) आरक्षित वार्ड.	03	03 लालबहादुर शास्त्री वार्ड 06 डॉ. राजेन्द्रप्रसाद वार्ड 11 अ. हमीद वार्ड

अधि.सू. 69 क्र. एफ 1-11-13-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम 7 की अपेक्षा अनुसार नगर परिषद् लोधीखेड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के लिए आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है:—

क्र. (1)	वर्ग जिसके लिये आरक्षण किया गया (2)	कुल वार्ड (3)	आरक्षित वार्ड के क्रमांक व नाम (4)
1	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	1	05 डॉ. अम्बेडकर वार्ड
2	अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	-	-
3	अन्य पिछड़ा वर्गों के लिये आरक्षित कुल वार्ड	04	07 संत गाडगे वार्ड 08 गुरुदेव वार्ड 10 काली वार्ड 12 डॉ. राजेन्द्र प्रसाद वार्ड
4	अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	-	-
5	अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	-	-
6	अन्य पिछड़ा वर्गों की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	02	08 गुरुदेव वार्ड 10 काली वार्ड
7	महिलाओं के लिये (उक्त सरल क्रमांक 4, 5 व 6 के अलावा) आरक्षित वार्ड.	05	01 भगतसिंह वार्ड 02 जवाहरलाल नेहरू वार्ड 03 राधाकृष्णन वार्ड 06 लालबहादुर शास्त्री वार्ड 09 जगदम्बा वार्ड

अधि.सू. 69 क्र. एफ 1-11-13-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम 7 की अपेक्षा अनुसार नगर परिषद् पिपला नारायणवार, जिला छिन्दवाड़ा के लिए आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है:—

क्र. (1)	वर्ग जिसके लिये आरक्षण किया गया (2)	कुल वार्ड (3)	आरक्षित वार्ड के क्रमांक व नाम (4)
1	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	01	03 गायत्री मंदिर वार्ड
2	अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	-	-
3	अन्य पिछड़ा वर्गों के लिये आरक्षित कुल वार्ड	04	04 डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी वार्ड 06 संत बसेश्वर वार्ड 08 दीनदयाल उपाध्याय वार्ड 13 शिवाजी वार्ड
4	अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	-	-
5	अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	-	-
6	अन्य पिछड़ा वर्गों की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	02	04 डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी वार्ड 06 संत बसेश्वर वार्ड
7	महिलाओं के लिये (उक्त सरल क्रमांक 4, 5 व 6 के अलावा) आरक्षित वार्ड.	05	02 संत रविदास वार्ड 05 राममंदिर वार्ड 11 महात्मा गांधी वार्ड 12 अहिल्याबाई होल्कर वार्ड 14 मौलाना आजाद वार्ड

अधि.सू. 69 क्र. एफ 1-11-13-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम 7 की अपेक्षा अनुसार नगर परिषद् बिछुआ, जिला छिन्दवाड़ा के लिए आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है:—

क्र. (1)	वर्ग जिसके लिये आरक्षण किया गया (2)	कुल वार्ड (3)	आरक्षित वार्ड के क्रमांक व नाम (4)
1	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	02	03 डॉ. भीमराव अम्बेडकर वार्ड 12 रानी दुर्गावती वार्ड
2	अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	02	06 भगतसिंह वार्ड 13 संतोषी माता वार्ड
3	अन्य पिछड़ा वर्गों के लिये आरक्षित कुल वार्ड	04	04 पं. दीनदयाल वार्ड 05 शिवमंदिर वार्ड 07 विश्वकर्मा वार्ड 11 साईबाबा वार्ड
4	अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	01	03 डॉ. भीमराव अम्बेडकर वार्ड
5	अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	01	06 भगतसिंह वार्ड
6	अन्य पिछड़ा वर्गों की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	02	04 पं. दीनदयाल वार्ड 11 साईबाबा वार्ड
7	महिलाओं के लिये (उक्त सरल क्रमांक 4, 5 व 6 के अलावा) आरक्षित वार्ड.	04	02 माता मंदिर वार्ड 08 विवेकानंद वार्ड 14 रामंदिर वार्ड 15 शांतिनगर वार्ड

अधि.सू. 69 क्र. एफ 1-11-13-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम 7 की अपेक्षा अनुसार नगर परिषद् चांद, जिला छिन्दवाड़ा के लिए आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है:—

क्र. (1)	वर्ग जिसके लिये आरक्षण किया गया (2)	कुल वार्ड (3)	आरक्षित वार्ड के क्रमांक व नाम (4)
1	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	02	11 केवट वार्ड 12 अम्बेडकर वार्ड
2	अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	02	13 शंकर वार्ड डीमरमेटा 15 सुंदर वार्ड गौहरगांव
3	अन्य पिछड़ा वर्गों के लिये आरक्षित कुल वार्ड	04	02 लक्ष्मीबाई वार्ड हरनाखेडी 03 माँ कर्मादेवी वार्ड 08 माता मंदिर वार्ड 10 गांधी वार्ड
4	अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	01	12 अम्बेडकर वार्ड
5	अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	01	13 शंकर वार्ड डीमरमेटा

(1)	(2)	(3)	(4)
6	अन्य पिछड़ा वर्गों की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	02	02 लक्ष्मीबाई वार्ड हरनाखेड़ी 10 गांधी वार्ड
7	महिलाओं के लिये (उक्त सरल क्रमांक 4, 5 व 6 के अलावा) आरक्षित वार्ड.	04	01 शिवमंदिर वार्ड हरनाखेड़ी 05 चन्द्रशेखर वार्ड 07 मारूती वार्ड 14 राधाकृष्ण वार्ड

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
के. के. कातिया, उपसचिव

भोपाल, दिनांक 10 अक्टूबर 2014

अधि.सू. 70 क्र. एफ 1-11-13-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम 7 की अपेक्षा अनुसार नगर पालिका/नगर परिषद् पनागर जिला जबलपुर के लिए आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है:—

क्र. (1)	वर्ग जिसके लिये आरक्षण किया गया (2)	कुल वार्ड (3)	आरक्षित वार्ड के क्रमांक व नाम (4)
1	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	02	05 भगत सिंह वार्ड 06 सुभाष वार्ड
2	अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	01	12 विवेकानंद वार्ड
3	अन्य पिछड़ा वर्गों के लिये आरक्षित कुल वार्ड	04	04 मौलाना वार्ड 10 जगमोहन वार्ड 13 जयप्रकाश वार्ड 14 शिवाजी वार्ड
4	अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	01	05 भगतसिंह वार्ड
5	अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	-	-
6	अन्य पिछड़ा वर्गों की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	02	13 जयप्रकाश वार्ड 14 शिवाजी वार्ड
7	महिलाओं के लिये (उक्त सरल क्रमांक 4, 5 व 6 के अलावा) आरक्षित वार्ड.	04	02 विनोबा भावे वार्ड 08 प्रताप सिंह वार्ड 09 विद्यासागर वार्ड 15 राम वार्ड

अधि.सू. 70 क्र. एफ 1-11-13-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम 7 की अपेक्षा अनुसार नगर पालिका/नगर परिषद् सिहोरा जिला जबलपुर के लिए आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है:—

क्र. (1)	वर्ग जिसके लिये आरक्षण किया गया (2)	कुल वार्ड (3)	आरक्षित वार्ड के क्रमांक व नाम (4)
1	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	02	01 मोती वार्ड 14 तिलक वार्ड

(1)	(2)	(3)	(4)
2	अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	02	09 शिवाजी वार्ड 07 सुभाष वार्ड
3	अन्य पिछड़ा वर्गों के लिये आरक्षित कुल वार्ड	05	17 वल्लभ वार्ड 06 विनोवा भावे वार्ड 15 शास्त्री वार्ड 13 मालवीय वार्ड 04 गांधी वार्ड
4	अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	01	01 मोती वार्ड
5	अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	01	07 सुभाष वार्ड
6	अन्य पिछड़ा वर्गों की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	02	15 शास्त्री वार्ड 04 गांधी वार्ड
7	महिलाओं के लिये (उक्त सरल क्रमांक 4, 5 व 6 के अलावा) आरक्षित वार्ड.	05	05 जवाहर वार्ड 10 मुखर्जी वार्ड 12 दीनदयाल वार्ड 18 नरसिंह वार्ड 16 जयप्रकाश वार्ड

अधि.सू. 70 क्र. एफ 1-11-13-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम 7 की अपेक्षा अनुसार नगर पालिका/नगर परिषद् पाटन जिला जबलपुर के लिए आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है:—

क्र. (1)	वर्ग जिसके लिये आरक्षण किया गया (2)	कुल वार्ड (3)	आरक्षित वार्ड के क्रमांक व नाम (4)
1	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	02	04 भीमराव अम्बेडकर वार्ड 10 दीनदयाल उपाध्याय वार्ड
2	अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	01	02 सरदार वल्लभ भाई पटेल वार्ड
3	अन्य पिछड़ा वर्गों के लिये आरक्षित कुल वार्ड	04	01 सुभाष चंद्र बोस वार्ड 09 लाल बहादुर शास्त्री वार्ड 14 शिवाजी वार्ड 15 रानी दुर्गावती वार्ड
4	अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	01	10 पं. दीनदयाल वार्ड
5	अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	-	-
6	अन्य पिछड़ा वर्गों की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	02	14 शिवाजी वार्ड 15 रानी दुर्गावती वार्ड
7	महिलाओं के लिये (उक्त सरल क्रमांक 4, 5 व 6 के अलावा) आरक्षित वार्ड.	04	06 डॉ. राममनोहर लोहिया वार्ड 08 पं. जवाहर लाल नेहरू वार्ड 12 मौलाना अब्दुल कलाम वार्ड 13 विनोवाभावे वार्ड



अधि.सू. 70 क्र. एफ 1-11-13-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम 7 की अपेक्षा अनुसार नगर पालिका/नगर परिषद् बरेला जिला जबलपुर के लिए आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है:—

क्र. (1)	वर्ग जिसके लिये आरक्षण किया गया (2)	कुल वार्ड (3)	आरक्षित वार्ड के क्रमांक व नाम (4)
1	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	02	08 सुभाष वार्ड 12 दादा ठनठनपाल वार्ड
2	अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	01	14 राजेन्द्र प्रसाद वार्ड
3	अन्य पिछड़ा वर्गों के लिये आरक्षित कुल वार्ड	04	01 किसानी वार्ड 05 अम्बेडकर वार्ड 07 शास्त्री वार्ड 13 विद्यासागर वार्ड
4	अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	01	08 सुभाष वार्ड
5	अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	-	-
6	अन्य पिछड़ा वर्गों की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	02	05 अम्बेडकर वार्ड 13 विद्यासागर वार्ड
7	महिलाओं के लिये (उक्त सरल क्रमांक 4, 5 व 6 के अलावा) आरक्षित वार्ड.	04	03 ब्यौहारी वार्ड 09 आजाद वार्ड 11 विनोबाभावे वार्ड 15 भगत सिंह वार्ड

अधि.सू. 70 क्र. एफ 1-11-13-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम 7 की अपेक्षा अनुसार नगर पालिका/नगर परिषद् कटंगी जिला जबलपुर के लिए आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है:—

क्र. (1)	वर्ग जिसके लिये आरक्षण किया गया (2)	कुल वार्ड (3)	आरक्षित वार्ड के क्रमांक व नाम (4)
1	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	02	05 महावीर वार्ड 15 देवगवां वार्ड
2	अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	01	01 रानी दुर्गावती वार्ड
3	अन्य पिछड़ा वर्गों के लिये आरक्षित कुल वार्ड	04	06 नेहरू वार्ड 03 सुभाष वार्ड 11 हिरण वार्ड 08 ईदगाह वार्ड
4	अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	01	05 महावीर वार्ड
5	अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	-	-
6	अन्य पिछड़ा वर्गों की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	02	06 नेहरू वार्ड 08 ईदगाह वार्ड
7	महिलाओं के लिये (उक्त सरल क्रमांक 4, 5 व 6 के अलावा) आरक्षित वार्ड.	04	09 मौलाना वार्ड 12 तिलक वार्ड 14 राजेन्द्र प्रसाद वार्ड 10 जानकी रमण वार्ड

अधि. सू. 70 क्र. एफ 1-11-13-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम 7 की अपेक्षा अनुसार नगरपालिका/नगर परिषद् शहपुरा, जिला जबलपुर के लिए आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है :—

क्र. (1)	वर्ग जिसके लिये आरक्षण किया गया (2)	कुल वार्ड (3)	आरक्षित वार्ड के क्रमांक व नाम (4)
1	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	02	04 संत रैदास वार्ड 15 भीमराव अम्बेडकर वार्ड
2	अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	01	01 लाल बहादुर शास्त्री वार्ड
3	अन्य पिछड़ा वर्गों के लिये आरक्षित कुल वार्ड	04	02 डॉ. राजेन्द्र प्रसाद वार्ड 10 स्वामी विवेकानंद वार्ड 11 जय प्रकाश नारायण वार्ड 13 पं. दीनदयाल वार्ड
4	अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	01	04 संत रैदास वार्ड
5	अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	-	-
6	अन्य पिछड़ा वर्गों की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	02	10 स्वामी विवेकानंद वार्ड 13 पं. दीनदयाल वार्ड
7	महिलाओं के लिये (उक्त सरल क्रमांक 4, 5 व 6 के अलावा) आरक्षित वार्ड.	04	05 श्यामाप्रसाद मुखर्जी वार्ड 06 चंद्र शेखर वार्ड 12 महात्मागांधी वार्ड 14 रानी दुर्गावती वार्ड

अधि.सू. 70 क्र. एफ 1-11-13-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम 7 की अपेक्षा अनुसार नगरपालिका/नगर परिषद् मझौली, जिला जबलपुर के लिए आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है :—

क्र. (1)	वर्ग जिसके लिये आरक्षण किया गया (2)	कुल वार्ड (3)	आरक्षित वार्ड के क्रमांक व नाम (4)
1	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	03	05 डॉ. भीमराव अम्बेडकर वार्ड 06 राजीव गांधी वार्ड 12 महात्मागांधी वार्ड
2	अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	01	11 डॉ. राजेन्द्र प्रसाद वार्ड
3	अन्य पिछड़ा वर्गों के लिये आरक्षित कुल वार्ड	03	02 भगत सिंह वार्ड 04 संत विनोबाभावे वार्ड 13 इन्दिरागांधी वार्ड
4	अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	02	05 डॉ. भीमराव अम्बेडकर वार्ड 12 महात्मागांधी वार्ड
5	अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	-	-
6	अन्य पिछड़ा वर्गों की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	01	13 इन्दिरागांधी वार्ड
7	महिलाओं के लिये (उक्त सरल क्रमांक 4, 5 व 6 के अलावा) आरक्षित वार्ड.	04	01 मौलाना अब्दुल कलाम आजाद वार्ड 07 शिवाजी वार्ड 10 मालवीय वार्ड 15 आजाद वार्ड

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
के. के. कांतिया, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 10 अक्टूबर 2014

अधि. सू. 71 क्र. एफ 1-11-13-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम 7 की अपेक्षा अनुसार नगरपालिका/परिषद् नरसिंहपुर, जिला नरसिंहपुर के लिए आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है :—

क्र. (1)	वार्ड जिसके लिये आरक्षण किया गया (2)	कुल वार्ड (3)	आरक्षित वार्डों के क्रमांक एवं नाम (4)
1	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	03	03 निरंजन वार्ड 24 राजीव वार्ड 26 भगतसिंह वार्ड
2	अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	01	25 सुभाष वार्ड
3	अन्य पिछड़ा वर्गों के लिये आरक्षित कुल वार्ड	07	09 बेलापुरकर वार्ड 10 शिवाजी वार्ड 12 मुशरान वार्ड 15 राम वार्ड 16 गांधी वार्ड 20 आजाद वार्ड 22 शास्त्री वार्ड
4	अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	02	03 निरंजन वार्ड 24 राजीव वार्ड
5	अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	-	-
6	अन्य पिछड़ा वर्गों की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	04	10 शिवाजी वार्ड 12 मुशरान वार्ड 16 गांधी वार्ड 20 आजाद वार्ड
7	महिलाओं के लिये (उक्त सरल क्रमांक 4, 5 व 6 के अलावा) आरक्षित वार्ड.	08	05 नरसिंह वार्ड 06 संजय वार्ड 08 पाठक वार्ड 14 गयादत्त वार्ड 19 इंदिरा वार्ड 21 कामथ वार्ड 23 शंकराचार्य वार्ड 28 रानी अवंतीबाई वार्ड

अधि. सू. 71 क्र. एफ 1-11-13-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम 7 की अपेक्षा अनुसार नगरपालिका परिषद्, गाडरवारा, जिला नरसिंहपुर के लिए आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है :—

क्र. (1)	वार्ड जिसके लिये आरक्षण किया गया (2)	कुल वार्ड (3)	आरक्षित वार्डों के क्रमांक एवं नाम (4)
1	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	04	09 रानी लक्ष्मीबाई वार्ड 12 माता वार्ड 20 निरंजन वार्ड 23 पटैल वार्ड

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2	अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	01	08	हनुमान वार्ड	
3	अन्य पिछड़ा वर्गों के लिये आरक्षित कुल वार्ड	06	01	गांधी वार्ड	
			02	राजेन्द्र बाबू वार्ड	
			04	आजाद वार्ड	
			14	राधाबल्लभ वार्ड	
			18	जगदीश वार्ड	
			24	नरसिंह वार्ड	
4	अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	02	09	रानी लक्ष्मीबाई वार्ड	
			23	पटेल वार्ड	
5	अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	-	-		
6	अन्य पिछड़ा वर्गों की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	03	01	गांधी वार्ड	
			02	राजेन्द्र बाबू वार्ड	
			14	राधाबल्लभ वार्ड	
7	महिलाओं के लिये (उक्त सरल क्रमांक 4, 5 व 6 के अलावा) आरक्षित वार्ड.	07	03	इंदिरा वार्ड	
			06	कामथ वार्ड	
			07	भामा वार्ड	
			11	शहीद भगतसिंह वार्ड	
			13	चावड़ी वार्ड	
			17	जवाहर वार्ड	
			22	शास्त्री वार्ड	

अधि. सू. 71 क्र. एफ 1-11-13-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम 7 की अपेक्षा अनुसार नगरपालिका परिषद् करेली, जिला नरसिंहपुर के लिए आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है :-

क्र. (1)	वार्ड जिसके लिये आरक्षण किया गया (2)	कुल वार्ड (3)	आरक्षित वार्डों के क्रमांक एवं नाम (4)
1	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	02	04 हनुमान वार्ड 13 बाबा साहिब अम्बेडकर वार्ड
2	अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	01	15 महात्मा गांधी वार्ड
3	अन्य पिछड़ा वर्गों के लिये आरक्षित कुल वार्ड	04	01 नेताजी सुभाष चंद बोस वार्ड 03 निरंजन वार्ड 05 गनेशगंज वार्ड 10 नरसिंह वार्ड
4	अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	01	04 हनुमान वार्ड
5	अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	निरंक	निरंक
6	अन्य पिछड़ा वर्गों की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	02	01 नेताजी सुभाष चंद बोस वार्ड 10 नरसिंह वार्ड
7	महिलाओं के लिये (उक्त सरल क्रमांक 4, 5 व 6 के अलावा) आरक्षित वार्ड.	04	02 लोक नायक जयप्रकाश वार्ड 06 डॉ. राजेन्द्र प्रसाद वार्ड 07 राधाबल्लभ वार्ड 09 राम वार्ड

अधि. सू. 71 क्र. एफ 1-11-13-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम 7 की अपेक्षा अनुसार नगरपालिका परिषद् गोटेगांव, जिला नरसिंहपुर के लिए आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है :-

क्र. (1)	वार्ड जिसके लिये आरक्षण किया गया (2)	कुल वार्ड (3)	आरक्षित वार्डों के क्रमांक एवं नाम (4)
1	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	03	06 गांधी वार्ड 07 बजरंग वार्ड 10 गुरूनानक वार्ड
2	अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	01	05 बोस वार्ड
3	अन्य पिछड़ा वर्गों के लिये आरक्षित कुल वार्ड	04	03 नेहरू वार्ड 04 हरदौल वार्ड 09 गौरादेवी वार्ड 14 भगतसिंह वार्ड
4	अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	02	07 बजरंग वार्ड 10 गुरूनानक वार्ड
5	अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	निरंक	निरंक
6	अन्य पिछड़ा वर्गों की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	02	03 नेहरू वार्ड 09 गौरादेवी वार्ड
7	महिलाओं के लिये (उक्त सरल क्रमांक 4, 5 व 6 के अलावा) आरक्षित वार्ड.	03	11 पटैल वार्ड 12 ठाकुरबाबा वार्ड 13 रूद्र वार्ड

अधि. सू. 71 क्र. एफ 1-11-13-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम 7 की अपेक्षा अनुसार नगर परिषद् तेंदूखेड़ा, जिला नरसिंहपुर के लिए आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है :-

क्र. (1)	वार्ड जिसके लिये आरक्षण किया गया (2)	कुल वार्ड (3)	आरक्षित वार्डों के क्रमांक एवं नाम (4)
1	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	02	05 महाराणा प्रताप वार्ड 11 डॉ. भीमराव अम्बेडकर वार्ड
2	अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	01	14 डेलनशाह वार्ड
3	अन्य पिछड़ा वर्गों के लिये आरक्षित कुल वार्ड	04	02 नेताजी सुभाष चंद्र बोस वार्ड 03 विवेकानंद वार्ड 10 बालगंगाधर तिलक वार्ड 12 पंडित दीनदयाल उपाध्याय वार्ड
4	अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	01	11 डॉ. भीमराव अम्बेडकर वार्ड
5	अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	—	—
6	अन्य पिछड़ा वर्गों की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	02	03 विवेकानंद वार्ड 12 पंडित दीनदयाल उपाध्याय वार्ड
7	महिलाओं के लिये (उक्त सरल क्रमांक 4, 5 व 6 के अलावा) आरक्षित वार्ड.	04	04 वीर शिवाजी वार्ड 07 चन्द्रशेखर आजाद वार्ड 09 वीर साबरकर वार्ड 15 महात्मा गांधी वार्ड

अधि. सू. 71 क्र. एफ 1-11-13-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम 7 की अपेक्षा अनुसार नगर परिषद् सालीचौका (बाबईकला), जिला नरसिंहपुर के लिए आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है :—

क्र. (1)	वार्ड जिसके लिये आरक्षण किया गया (2)	कुल वार्ड (3)	आरक्षित वार्डों के क्रमांक एवं नाम (4)
1	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	04	01 अम्बेडकर वार्ड 05 खेरापति वार्ड 09 पटैल वार्ड 14 गांधी वार्ड
2	अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	निरंक	निरंक
3	अन्य पिछड़ा वर्गों के लिये आरक्षित कुल वार्ड	04	02 साईं वार्ड 03 शिवशक्ति वार्ड 08 संत रविदास वार्ड 10 सरदार वार्ड
4	अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	02	01 अम्बेडकर वार्ड 14 गांधी वार्ड
5	अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	निरंक	निरंक
6	अन्य पिछड़ा वर्गों की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	02	02 साईं वार्ड 03 शिवशक्ति वार्ड
7	महिलाओं के लिये (उक्त सरल क्रमांक 4, 5 व 6 के अलावा) आरक्षित वार्ड.	03	04 रानी अवंतीबाई वार्ड 11 भवानी वार्ड 13 रानी लक्ष्मीबाई वार्ड

अधि. सू. 71 क्र. एफ 1-11-13-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम 7 की अपेक्षा अनुसार नगर परिषद् चीचली, जिला नरसिंहपुर के लिए आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है :—

क्र. (1)	वार्ड जिसके लिये आरक्षण किया गया (2)	कुल वार्ड (3)	आरक्षित वार्डों के क्रमांक एवं नाम (4)
1	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	02	10 बालगंगाधर तिलक वार्ड 11 भीमराव अम्बेडकर वार्ड
2	अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	01	06 महारानी लक्ष्मीबाई वार्ड
3	अन्य पिछड़ा वर्गों के लिये आरक्षित कुल वार्ड	04	01 भगतसिंह वार्ड 05 महाराणा प्रताप वार्ड 03 विवेकानंद वार्ड 13 सरदार वल्लभ भाई पटैल वार्ड
4	अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	01	11 भीमराव अम्बेडकर वार्ड
5	अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	निरंक	निरंक
6	अन्य पिछड़ा वर्गों की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	02	03 विवेकानंद वार्ड 13 सरदार वल्लभ भाई पटैल वार्ड
7	महिलाओं के लिये (उक्त सरल क्रमांक 4, 5 व 6 के अलावा) आरक्षित वार्ड.	04	02 नेताजी सुभाषचंद्र बोस वार्ड 04 वीर शिवाजी वार्ड 09 वीर सावरकर वार्ड 12 पं. दीनदयाल उपाध्याय वार्ड

अधि. सू. 71 क्र. एफ 1-11-13-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम 7 की अपेक्षा अनुसार नगर परिषद् साईंखेड़ा, जिला नरसिंहपुर के लिए आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है :-

क्र. (1)	वार्ड जिसके लिये आरक्षण किया गया (2)	कुल वार्ड (3)	आरक्षित वार्डों के क्रमांक एवं नाम (4)
1	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	02	10 राजपूत कालोनी वार्ड 14 पं. दीनदयाल उपाध्याय वार्ड
2	अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	—	—
3	अन्य पिछड़ा वर्गों के लिये आरक्षित कुल वार्ड	04	01 महाराणा प्रताप वार्ड 05 महात्मा गांधी वार्ड 09 डॉ. भीमराव अम्बेडकर वार्ड 11 केशवानंद वार्ड
4	अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	01	14 पं. दीनदयाल उपाध्याय वार्ड
5	अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	—	—
6	अन्य पिछड़ा वर्गों की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	02	01 महाराणा प्रताप वार्ड 09 डॉ. भीमराव अम्बेडकर वार्ड
7	महिलाओं के लिये (उक्त सरल क्रमांक 4, 5 व 6 के अलावा) आरक्षित वार्ड.	04	04 महारानी लक्ष्मीबाई वार्ड 06 अग्रसेन वार्ड 07 वीर शिवाजी वार्ड 08 विवेकानंद वार्ड

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
के. के. कातिया, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 10 अक्टूबर 2014

अधि. सू. 72 क्र. एफ 1-11-13-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम 7 की अपेक्षा अनुसार नगरपालिका बैरसिया, जिला भोपाल के लिए आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है :-

क्र. (1)	वार्ड जिसके लिये आरक्षण किया गया (2)	कुल वार्ड (3)	आरक्षित वार्डों के क्रमांक एवं नाम (4)
1	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	03	02 गांधी वार्ड 10 डॉ. राजेन्द्र प्रसाद वार्ड 13 लाल बहादुर शास्त्री वार्ड
2	अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	—	—
3	अन्य पिछड़ा वर्गों के लिये आरक्षित कुल वार्ड	05	06 गोस्वामी तुलसी वार्ड 14 जयप्रकाश नारायण वार्ड 16 महारानी लक्ष्मीबाई वार्ड 17 रानी अवन्तीबाई वार्ड 18 छत्रपति शिवाजी वार्ड
4	अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	02	02 गांधी वार्ड 10 डॉ. राजेन्द्र प्रसाद वार्ड
5	अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	—	—
6	अन्य पिछड़ा वर्गों की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	03	06 गोस्वामी तुलसी वार्ड 17 रानी अवन्तीबाई वार्ड 18 छत्रपति शिवाजी वार्ड
7	महिलाओं के लिये (उक्त सरल क्रमांक 4, 5 व 6 के अलावा) आरक्षित वार्ड.	04	08 तिलक वार्ड 09 वल्लभभाई पटेल वार्ड 11 डॉ. अम्बेडकर वार्ड 15 रविन्द्रनाथ टैगोर वार्ड

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
के. के. कातिया, उपसचिव.

## भोपाल, दिनांक 10 अक्टूबर 2014

अधि सू. 73 क्र. एफ-1-11-13-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम 7 की अपेक्षा अनुसार नगरपालिका परिषद, नीमच, जिला नीमच के लिए आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है:—

क्र. (1)	वर्ग जिसके लिए वार्ड आरक्षित किया गया (2)	कुल वार्ड (3)	आरक्षित वार्डों के क्रमांक व नाम (4)
1	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	06	15 किदवई वार्ड 5 चन्द्रशेखर आजाद वार्ड 21 भगतसिंह वार्ड 38 गांधी वार्ड 18 विवेकानन्द वार्ड 6 रहीम वार्ड
2	अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	01	8 इंदिरा गांधी वार्ड
3	अन्य पिछड़ा वर्गों के लिये आरक्षित कुल वार्ड	10	14 सन्त भावे वार्ड 27 डा. राधाकृष्णन वार्ड 20 प्रताप वार्ड 13 डॉ. भाभा वार्ड 11 जवाहर वार्ड 4 कालीदास वार्ड 10 गोपालकृष्ण वार्ड 30 टैगोर वार्ड 7 डॉ. अम्बेडकर वार्ड 33 कस्तूरबा वार्ड
4	अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड	03	38 गांधी वार्ड 18 विवेकानन्द वार्ड 6 रहीम वार्ड
5	अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड	-	-
6	अन्य पिछड़ा वर्गों की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड	05	14 सन्त भावे वार्ड 33 कस्तूरबा वार्ड 27 डा. राधाकृष्णन वार्ड 4 कालीदास वार्ड 10 गोपालकृष्ण वार्ड
7	महिलाओं के लिये (उक्त सरल क्रमांक 4, 5 व 6 के अलावा) आरक्षित वार्ड.	12	9 महावीर वार्ड 2 शहीद वार्ड 12 शास्त्री वार्ड 17 विक्रम वार्ड 26 शिवाजी वार्ड 28 सुभाष वार्ड 29 डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी वार्ड 31 सरोजनी नायडू वार्ड 35 काटजू वार्ड 36 लोहिया वार्ड 37 कबीर वार्ड 1 राजीव गांधी वार्ड



अधि सू. 73 क्र. एफ-1-11-13-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम 7 की अपेक्षा अनुसार नगर परिषद्, सरवानियां महाराज, जिला नीमच (म. प्र.) के लिए आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है:—

क्र. (1)	वर्ग जिसके लिए वार्ड आरक्षित किया गया (2)	कुल वार्ड (3)	आरक्षित वार्डों के क्रमांक व नाम (4)
1	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	03	13 जवाहरलाल वार्ड 3 डॉ अम्बेडकर वार्ड 4 कालीदास वार्ड
2	अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	-	-
3	अन्य पिछड़ा वर्गों के लिये आरक्षित कुल वार्ड	04	11 भगतसिंह वार्ड 5 शिवाजी वार्ड 14 डॉ. राजेन्द्रप्रसाद वार्ड 1 इंदिरा वार्ड
4	अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड	02	4 कालीदास वार्ड 13 जवाहरलाल वार्ड
5	अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड	-	-
6	अन्य पिछड़ा वर्गों की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड	02	1 इंदिरा वार्ड 11 भगतसिंह वार्ड
7	महिलाओं के लिये (उक्त सरल क्रमांक 4, 5 व 6 के अलावा) आरक्षित वार्ड.	03	9 महावीर वार्ड 12 विवेकानंद वार्ड 10 चन्द्रशेखर वार्ड

अधि सू. 73 क्र. एफ-1-11-13-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम 7 की अपेक्षा अनुसार नगर परिषद् नयागांव, जिला नीमच के लिए आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है:—

क्र. (1)	वर्ग जिसके लिए वार्ड आरक्षित किया गया (2)	कुल वार्ड (3)	आरक्षित वार्डों के क्रमांक व नाम (4)
1	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	02	10 शास्त्री वार्ड 5 शिवाजी वार्ड
2	अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	01	15 भगतसिंह वार्ड
3	अन्य पिछड़ा वर्गों के लिये आरक्षित कुल वार्ड	04	2 इंदिरा गांधी वार्ड 4 जवाहर वार्ड 8 सुभाष वार्ड 14 महावीर वार्ड
4	अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड	01	10 शास्त्री वार्ड

(1)	(2)	(3)	(4)
5	अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड	-	-
6	अन्य पिछड़ा वर्गों की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड	02	4 जवाहर वार्ड 14 महावीर वार्ड
7	महिलाओं के लिये (उक्त सरल क्रमांक 4, 5 व 6 के अलावा) आरक्षित वार्ड.	04	11 दयानन्द वार्ड 13 वल्लभभाई पटेल वार्ड 7 महात्मा गांधी वार्ड 12 लक्ष्मीबाई वार्ड

अधि सू. 73 क्र. एफ-1-11-13-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम 7 की अपेक्षा अनुसार नगर परिषद् अठाना, जिला नीमच के लिए आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है:—

क्र. (1)	वर्ग जिसके लिए वार्ड आरक्षित किया गया (2)	कुल वार्ड (3)	आरक्षित वार्डों के क्रमांक व नाम (4)
1	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	01	9 राधे नगर वार्ड
2	अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	01	2 राजीव गांधी वार्ड
3	अन्य पिछड़ा वर्गों के लिये आरक्षित कुल वार्ड	04	12 महात्मागांधी वार्ड 7 गोपालकृष्ण वार्ड 11 पंडित बद्रीदत्त भट्ट वार्ड 5 लक्ष्मीबाई वार्ड
4	अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड	-	-
5	अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड	-	-
6	अन्य पिछड़ा वर्गों की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड	02	5 लक्ष्मीबाई वार्ड 7 गोपालकृष्ण वार्ड
7	महिलाओं के लिये (उक्त सरल क्रमांक 4, 5 व 6 के अलावा) आरक्षित वार्ड.	05	10 डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी वार्ड 6 राजेंद्रप्रसाद वार्ड 14 भगतसिंह वार्ड 13 रानी दुर्गावती वार्ड 01 डॉ. अम्बेडकर वार्ड

अधि सू. 73 क्र. एफ-1-11-13-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम 7 की अपेक्षा अनुसार नगर परिषद् सिंगोली, जिला नीमच के लिए आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है:—

क्र. (1)	वर्ग जिसके लिए वार्ड आरक्षित किया गया (2)	कुल वार्ड (3)	आरक्षित वार्डों के क्रमांक व नाम (4)
1	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	01	14 भगतसिंह वार्ड

(1)	(2)	(3)	(4)
2	अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	-	-
3	अन्य पिछड़ा वर्गों के लिये आरक्षित कुल वार्ड	04	11 वीर तेजाजी वार्ड 5 विवेकानन्द वार्ड 9 चन्द्रशेखर आजाद वार्ड 15 डॉ. अम्बेडकर वार्ड
4	अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड	-	-
5	अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड	-	-
6	अन्य पिछड़ा वर्गों की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड	02	9 चन्द्रशेखर आजाद वार्ड 15 डॉ. अम्बेडकर वार्ड
7	महिलाओं के लिये (उक्त सरल क्रमांक 4, 5 व 6 के अलावा) आरक्षित वार्ड.	05	2 सरस्वती वार्ड 3 इंदिरा गांधी वार्ड 8 मौलाना आजाद वार्ड 12 सुभाष वार्ड 7 राजीव गांधी वार्ड

अधि सू. 73 क्र. एफ-1-11-13-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम 7 की अपेक्षा अनुसार नगर परिषद् मनासा, जिला नीमच (म. प्र.) के लिए आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है:—

क्र. (1)	वर्ग जिसके लिए वार्ड आरक्षित किया गया (2)	कुल वार्ड (3)	आरक्षित वार्डों के क्रमांक व नाम (4)
1	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	01	7 डॉ. अम्बेडकर वार्ड
2	अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	-	-
3	अन्य पिछड़ा वर्गों के लिये आरक्षित कुल वार्ड	04	3 भगतसिंह वार्ड 12 रविन्द्रनाथ टैगोर वार्ड 6 पंडित दीनदयाल वार्ड 5 सुभाषचन्द्र बोस वार्ड
4	अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड	-	-
5	अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड	-	-
6	अन्य पिछड़ा वर्गों की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड	02	3 भगतसिंह वार्ड 6 पंडित दीनदयाल वार्ड
7	महिलाओं के लिये (उक्त सरल क्रमांक 4, 5 व 6 के अलावा) आरक्षित वार्ड.	05	1 बाबा रामदेव वार्ड 8 स्वामी विवेकानन्द वार्ड 13 महावीर वार्ड 15 सरदार वल्लभभाई पटेल वार्ड 14 मोलाना अब्दुल कलाम आजाद वार्ड

अधि सू. 73 क्र. एफ-1-11-13-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम 7 की अपेक्षा अनुसार नगर परिषद, रतनगढ़ जिला नीमच (म. प्र.) के लिए आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है:—

क्र. (1)	वर्ग जिसके लिए वार्ड आरक्षित किया गया (2)	कुल वार्ड (3)	आरक्षित वार्डों के क्रमांक व नाम (4)
1	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	02	2 गांधीजी वार्ड 7 डॉ. अंबेडकर वार्ड
2	अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	01	13 शिवाजी वार्ड
3	अन्य पिछड़ा वर्गों के लिये आरक्षित कुल वार्ड	04	1 गोरेश्वर वार्ड 8 नेताजी सुभाषचंद्र बोस वार्ड 15 डॉ. राधाकृष्णन वार्ड 6 लक्ष्मीनाथ वार्ड
4	अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड	01	2 गांधीजी वार्ड
5	अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड	-	-
6	अन्य पिछड़ा वर्गों की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड	02	8 नेताजी सुभाषचंद्र बोस वार्ड 15 डॉ. राधाकृष्णन वार्ड
7	महिलाओं के लिये (उक्त सरल क्रमांक 4, 5 व 6 के अलावा) आरक्षित वार्ड.	04	3 गोवर्धन नाथ वार्ड 5 चन्द्रशेखर वार्ड 14 श्यामाप्रसाद मुखर्जी वार्ड 9 राजीव गांधी वार्ड

अधि सू. 73 क्र. एफ-1-11-13-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम 7 की अपेक्षा अनुसार नगर परिषद, डीकेन, जिला नीमच (म. प्र.) के लिए आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है:—

क्र. (1)	वर्ग जिसके लिए वार्ड आरक्षित किया गया (2)	कुल वार्ड (3)	आरक्षित वार्डों के क्रमांक व नाम (4)
1	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	02	4 मौलाना आजाद वार्ड 1 अम्बेडकर वार्ड
2	अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	03	5 शास्त्री वार्ड 12 नरसिंह वार्ड 2 जवाहर वार्ड
3	अन्य पिछड़ा वर्गों के लिये आरक्षित कुल वार्ड	04	3 राजीव वार्ड 9 रेदास वार्ड 11 भगतसिंह वार्ड 14 इन्द्रा वार्ड

(1)	(2)	(3)	(4)
4	अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड	01	4 मौलाना आजाद वार्ड
5	अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड	02	12 नरसिंह वार्ड 2 जवाहर वार्ड
6	अन्य पिछड़ा वर्गों की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड	02	3 राजीव वार्ड 9 रेदास वार्ड
7	महिलाओं के लिये (उक्त सरल क्रमांक 4, 5 व 6 के अलावा) आरक्षित वार्ड.	02	6 गांधी वार्ड 13 कबीर वार्ड

अधि सू. 73 क्र. एफ-1-11-13-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम 7 की अपेक्षा अनुसार नगर परिषद, जावद, जिला नीमच ( म.प्र. ) के लिए आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है:—

क्र. (1)	वर्ग जिसके लिए वार्ड आरक्षित किया गया (2)	कुल वार्ड (3)	आरक्षित वार्डों के क्रमांक व नाम (4)
1	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	02	1 सुभाष वार्ड 3 शास्त्री वार्ड
2	अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	-	-
3	अन्य पिछड़ा वर्गों के लिये आरक्षित कुल वार्ड	04	6 रेदास वार्ड 14 चन्द्रशेखर आजाद वार्ड 7 शीतलामाता वार्ड 2 पटेल वार्ड
4	अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड	01	1 सुभाष वार्ड
5	अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड	-	-
6	अन्य पिछड़ा वर्गों की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड	02	7 शीतलामाता वार्ड 2 पटेल वार्ड
7	महिलाओं के लिये (उक्त सरल क्रमांक 4, 5 व 6 के अलावा) आरक्षित वार्ड.	04	5 आदर्श वार्ड 10 मुखर्जी वार्ड 12 अन्नपूर्णा वार्ड 15 भगतसिंह वार्ड

अधि सू. 73 क्र. एफ-1-11-13-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम 7 की अपेक्षा अनुसार नगर परिषद् जीरन, जिला नीमच के लिए आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है:—

क्र. (1)	वर्ग जिसके लिए वार्ड आरक्षित किया गया (2)	कुल वार्ड (3)	आरक्षित वार्डों के क्रमांक व नाम (4)
1	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	02	15 आजाद वार्ड 14 डॉ. अम्बेडकर वार्ड
2	अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	01	1 गांधी वार्ड
3	अन्य पिछड़ा वर्गों के लिये आरक्षित कुल वार्ड	04	7 प्रताप वार्ड 8 सीताराम जाजू वार्ड 9 रघुनन्दन प्रसाद वार्ड 11 विवेकानन्द वार्ड
4	अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड	01	15 आजाद वार्ड
5	अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड	-	-
6	अन्य पिछड़ा वर्गों की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड	02	7 प्रताप वार्ड 9 रघुनन्दन प्रसाद वार्ड
7	महिलाओं के लिये (उक्त सरल क्रमांक 4, 5 व 6 के अलावा) आरक्षित वार्ड.	04	5 इंदिरा वार्ड 6 जवाहर वार्ड 12 सरदार पटेल वार्ड 10 तिलक वार्ड

अधि सू. 73 क्र. एफ-1-11-13-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम 7 की अपेक्षा अनुसार नगर परिषद् कुकड़ेश्वर, जिला नीमच (म. प्र.) के लिए आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है:—

क्र. (1)	वर्ग जिसके लिए वार्ड आरक्षित किया गया (2)	कुल वार्ड (3)	आरक्षित वार्डों के क्रमांक व नाम (4)
1	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	01	14 बाल्मिकी वार्ड
2	अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	-	-
3	अन्य पिछड़ा वर्गों के लिये आरक्षित कुल वार्ड	04	7 भगतसिंह वार्ड 6 महाराणा प्रताप वार्ड 3 अम्बेडकर वार्ड 10 राजगुरु वार्ड
4	अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड	-	-
5	अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड	-	-

(1)	(2)	(3)	(4)
6	अन्य पिछड़ा वर्गों की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड	02	7 भगतसिंह वार्ड 6 महाराणा प्रताप वार्ड
7	महिलाओं के लिये (उक्त सरल क्रमांक 4, 5 व 6 के अलावा) आरक्षित वार्ड.	05	8 चन्द्रशेखर आजाद वार्ड 9 लाला लाजपतराय वार्ड 2 श्रीराम वार्ड 11 महर्षि विवेकानन्द वार्ड 12 रानी लक्ष्मीबाई वार्ड

अधि सू. 73 क्र. एफ-1-11-13-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम 7 की अपेक्षा अनुसार नगर परिषद् रामपुरा, जिला नीमच के लिए आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है:—

क्र. (1)	वर्ग जिसके लिए वार्ड आरक्षित किया गया (2)	कुल वार्ड (3)	आरक्षित वार्डों के क्रमांक व नाम (4)
1	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	02	15 गांधी वार्ड 3 रामदेव वार्ड
2	अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	-	-
3	अन्य पिछड़ा वर्गों के लिये आरक्षित कुल वार्ड	04	2 भगतसिंह वार्ड 14 शिवाजी वार्ड 9 मौलाना आजाद वार्ड 4 महावीर वार्ड
4	अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड	01	15 गांधी वार्ड
5	अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड	-	-
6	अन्य पिछड़ा वर्गों की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड	02	9 मौलाना आजाद वार्ड 14 शिवाजी वार्ड
7	महिलाओं के लिये (उक्त सरल क्रमांक 4, 5 व 6 के अलावा) आरक्षित वार्ड.	04	1 दिवान चन्द्रावत वार्ड 8 तिलक वार्ड 10 श्रीकृष्ण वार्ड 12 श्रीरामवार्ड

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
के. के. कातिया, उपसचिव.

## भोपाल, दिनांक 10 अक्टूबर 2014

अधि सू. 74 क्र. एफ-1-11-13-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम 7 की अपेक्षा अनुसार नगरपालिका परिषद् अशोकनगर, जिला अशोकनगर के लिए आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है:—

क्र. (1)	वर्ग जिसके लिए आरक्षित किया गया (2)	कुल वार्ड (3)	आरक्षित वार्ड के क्रमांक व नाम (4)
1	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	03	12 भगतसिंह वार्ड 7 राजेन्द्रप्रसाद वार्ड 8 डॉ. अम्बेडकर वार्ड
2	अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	निल	निल
3	अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षित कुल वार्ड	06	1 संजयगांधी वार्ड 9 शंकराचार्य वार्ड 20 पटेल वार्ड 2 देवीगायत्री वार्ड 19 महावीर वार्ड 21 गौशाला वार्ड
4	अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड	02	7 राजेन्द्र प्रसाद वार्ड 8 डॉ. अम्बेडकर वार्ड
5	अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड	निल	निल
6	अन्य पिछड़ा वर्गों की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड	03	2 देवीगायत्री वार्ड 19 महावीर वार्ड 21 गौशाला वार्ड
7	महिलाओं के लिये (उक्त सरल क्रमांक 4, 5 व 6 के अलावा) आरक्षित वार्ड.	06	4 मौलाना आजाद वार्ड 5 गोखले वार्ड 6 विवेकानंद वार्ड 11 लालबहादुर शास्त्री वार्ड 13 देवी जी वार्ड 18 सुभाष वार्ड

अधि सू. 74 क्र. एफ-1-11-13-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिये वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम 7 की अपेक्षा अनुसार नगरपालिका चन्देरी, जिला अशोकनगर के लिए आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है:—

क्र. (1)	वर्ग जिसके लिए आरक्षित किया गया (2)	कुल वार्ड (3)	आरक्षित वार्ड के क्रमांक व नाम (4)
1	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	05	13 नेहरु वार्ड 19 कबीर वार्ड 2 मुरलीधर वार्ड 5 गांधी वार्ड 12 अम्बेडकर वार्ड



(1)	(2)	(3)	(4)
2	अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	01	21 सेहरिया वार्ड
3	अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षित कुल वार्ड	05	7 आजाद वार्ड 15 हरकुण्ड वार्ड 20 बैजूबावरा वार्ड 06 शंकरमंदिर वार्ड 01 जागेश्वरीदेवी वार्ड
4	अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	03	02 मुरलीधर वार्ड 06 गांधी वार्ड 12 अम्बेडकर वार्ड
5	अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	निल	निल
6	अन्य पिछड़ा वर्गों की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	03	20 बैजूबावरा वार्ड 06 शंकरमंदिर वार्ड 01 जागेश्वरीदेवी वार्ड
7	महिलाओं के लिये (उक्त सरल क्रमांक 4, 5 व 6 के अलावा) आरक्षित वार्ड.	05	16 किदवई वार्ड 03 बजरंग वार्ड 10 सुभाष वार्ड 09 चौखट्टा वार्ड 17 माधवनगर वार्ड

अधि सू. 74 क्र. एफ-1-11-13-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिये वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम 7 की अपेक्षा अनुसार नगर परिषद् शादौरा, जिला अशोकनगर के लिये आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है:—

क्र. (1)	वर्ग जिसके लिए वार्ड आरक्षित किया गया (2)	कुल वार्ड (3)	आरक्षित वार्डों के क्रमांक व नाम (4)
1	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	04	02 स्टेशन वार्ड 11 आजाद वार्ड 01 गांधीनगर वार्ड 03 मातामोहल्ला हरिजन बस्ती वार्ड
2	अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	01	08 इन्दिरा नगर वार्ड
3	अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षित कुल वार्ड	04	04 नारायणदास वार्ड 13 मिल्क चौकी वार्ड 07 महावीर वार्ड 10 मेलाग्राउण्ड वार्ड
4	अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	02	01 गांधीनगर वार्ड 03 मातामोहल्ला हरिजन बस्ती वार्ड

(1)	(2)	(3)	(4)
5	अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	निल	निल
6	अन्य पिछड़ा वर्गों की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	02	07 महावीर वार्ड 10 मेलाग्राउण्ड वार्ड
7	महिलाओं के लिये (उक्त सरल क्रमांक 4, 5 व 6 के अलावा) आरक्षित वार्ड.	04	09 टेकरी वार्ड 12 मौलाना वार्ड 14 शिव वार्ड 15 श्रीकृष्ण वार्ड

अधि सू. 74 क्र. एफ-1-11-13-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिये वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम 7 की अपेक्षा अनुसार नगर परिषद् मुंगावली, जिला अशोकनगर के लिए आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है:—

क्र. (1)	वर्ग जिसके लिए आरक्षित किया गया (2)	कुल वार्ड (3)	आरक्षित वार्ड के क्रमांक व नाम (4)
1	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	02	02 महारानी लक्ष्मीबाई 03 अम्बेडकर वार्ड
2	अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	निल	निल
3	अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षित कुल वार्ड	04	04 सुभाष वार्ड 06 महावीर वार्ड 12 चन्द्रशेखर वार्ड 14 राजीवगांधी वार्ड
4	अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	01	02 महारानी लक्ष्मीबाई
5	अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	निल	निल
6	अन्य पिछड़ा वर्गों की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	02	12 चन्द्रशेखर वार्ड 14 राजीवगांधी वार्ड
7	महिलाओं के लिये (उक्त सरल क्रमांक 4, 5 व 6 के अलावा) आरक्षित वार्ड.	05	01 सिद्धेश्वर वार्ड 05 लालबहादुर शास्त्री वार्ड 08 महात्मागांधी वार्ड 09 पं. जवाहरलाल नेहरु वार्ड 13 संजयगांधी वार्ड

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
के. के. कातिया, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 10 अक्टूबर 2014

अधि सू. 75 क्र. एफ-1-11-13-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिये वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम 7 की अपेक्षा अनुसार नगर परिषद, नगरपालिका परिषद, शिवपुरी, जिला शिवपुरी के लिए आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है:—

क्र. (1)	वर्ग जिसके लिए वार्ड आरक्षित किया गया है (2)	कुल वार्ड (3)	आरक्षित वार्डों के क्रमांक एवं नाम (4)
1	अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित वार्ड	06	13 श्रीराम वार्ड 14 कृष्णापुरम वार्ड 30 डॉ. जाकिर हुसैन वार्ड 32 शास्त्री वार्ड 35 फखरुद्दीन अली अहमद 39 अम्बेडकर वार्ड
2	अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित वार्ड	01	16 अरविन्द वार्ड
3	अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित वार्ड	10	03 गांधी वार्ड 05 महावीर वार्ड 07 पारसनाथ वार्ड 18 दीनदयाल वार्ड 21 आजाद वार्ड 24 तिलक वार्ड 26 सिद्धेश्वर वार्ड 27 विष्णु वार्ड 33 संत कबीर वार्ड 36 मुखर्जी वार्ड
4	अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित वार्ड में से अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षित वार्ड.	03	14 कृष्णापुरम वार्ड 30 डॉ. जाकिर हुसैन वार्ड 35 फखरुद्दीन अली अहमद
5	अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित वार्ड में से अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षित वार्ड.	—	00 —
6	अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित वार्ड में से अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षित वार्ड.	05	05 महावीर वार्ड 07 पारसनाथ वार्ड 18 दीनदयाल वार्ड 21 आजाद वार्ड 36 मुखर्जी वार्ड
7	अनारक्षित वार्ड में से महिलाओं के लिए उक्त सरल क्र. 4, 5, 6 के अलावा आरक्षित वार्ड.	12	01 मंशापूर्ण वार्ड 02 भगतसिंह वार्ड 04 लक्ष्मीबाई वार्ड 08 सावरकर वार्ड 11 हनुमान वार्ड 12 तात्याटोपे वार्ड 19 रामकृष्ण वार्ड 20 खेड़ापति वार्ड 23 शिवाजी वार्ड 28 इन्द्रा गांधी वार्ड 29 मोतीबाबा वार्ड 37 महाराणाप्रताप वार्ड

अधि सू. 75 क्र. एफ-1-11-13-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिये वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम 7 की अपेक्षा अनुसार नगर परिषद, कोलारस, जिला शिवपुरी के लिए आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है:—

क्र. (1)	वर्ग जिसके लिए वार्ड आरक्षित किया गया है (2)	कुल वार्ड (3)	आरक्षित वार्डों के क्रमांक एवं नाम (4)
1	अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित वार्ड	03	03 डॉ. राजेन्द्र प्रसाद वार्ड 10 राजीव गांधी वार्ड 11 अम्बेडकर वार्ड
2	अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित वार्ड	—	00 —
3	अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित वार्ड	04	06 श्यामाप्रसाद मुखर्जी वार्ड 07 नरसिंह मंदिर वार्ड 08 आजाद वार्ड 13 गणेश मंदिर वार्ड
4	अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित वार्ड में से अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षित वार्ड.	02	03 डॉ. राजेन्द्र प्रसाद वार्ड 11 अम्बेडकर वार्ड
5	अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित वार्ड में से अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षित वार्ड.	—	00 —
6	अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित वार्ड में से अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षित वार्ड.	02	07 नरसिंह मंदिर वार्ड 13 गणेश मंदिर वार्ड
7	अनारक्षित वार्ड में से महिलाओं के लिए उक्त सरल क्र. 4, 5, 6 के अलावा आरक्षित वार्ड.	04	05 लालबहादुर शास्त्री वार्ड 12 संजय गांधी वार्ड 14 राम मंदिर वार्ड 15 संत विनोवा भावे वार्ड

अधि सू. 75 क्र. एफ-1-11-13-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिये वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम 7 की अपेक्षा अनुसार नगर परिषद, बंदरवास, जिला शिवपुरी के लिए आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है:—

क्र. (1)	वर्ग जिसके लिए वार्ड आरक्षित किया गया है (2)	कुल वार्ड (3)	आरक्षित वार्डों के क्रमांक एवं नाम (4)
1	अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित वार्ड	03	02 राजीव गांधी वार्ड 07 लालबहादुर शास्त्री वार्ड 08 जवाहरलाल नेहरू वार्ड
2	अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित वार्ड	—	00 —

(1)	(2)	(3)	(4)
3	अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित वार्ड	04	01 इन्द्रा गांधी वार्ड 03 सुभाषचंद्र बौस वार्ड 06 संजय गांधी वार्ड 13 राधा रानी वार्ड
4	अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित वार्ड में से अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षित वार्ड.	02	02 राजीव गांधी वार्ड 08 जवाहरलाल नेहरू वार्ड
5	अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित वार्ड में से अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षित वार्ड.	—	00 —
6	अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित वार्ड में से अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षित वार्ड.	02	03 सुभाषचंद्र बौस वार्ड 06 संजय गांधी वार्ड
7	अनारक्षित वार्ड में से महिलाओं के लिए उक्त सरल क्र. 4, 5, 6 के अलावा आरक्षित वार्ड.	04	05 महारानी लक्ष्मीबाई वार्ड 11 महाराणाप्रताप वार्ड 12 लक्ष्मीगंज वार्ड 15 तात्या टोपे वार्ड

अधि सू. 75 क्र. एफ-1-11-13-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिये वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम 7 की अपेक्षा अनुसार नगर परिषद्, करैरा, जिला शिवपुरी के लिए आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है:—

क्र. (1)	वर्ग जिसके लिए वार्ड आरक्षित किया गया है (2)	कुल वार्ड (3)	आरक्षित वार्डों के क्रमांक एवं नाम (4)
1	अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित वार्ड	03	06 हरदौल वार्ड 08 नेहरू वार्ड 12 लक्ष्मी वार्ड
2	अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित वार्ड	—	00 —
3	अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित वार्ड	04	05 मंगल पाण्डे वार्ड 11 शास्त्री वार्ड 13 हनुमान वार्ड 15 महावीर वार्ड
4	अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित वार्ड में से अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षित वार्ड.	02	06 हरदौल वार्ड 08 नेहरू वार्ड
5	अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित वार्ड में से अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षित वार्ड.	—	00 —

(1)	(2)	(3)	(4)
6	अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित वार्ड में से अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षित वार्ड.	02	13 हनुमान वार्ड 15 महावीर वार्ड
7	अनारक्षित वार्ड में से महिलाओं के लिए उक्त सरल क्र. 4, 5, 6 के अलावा आरक्षित वार्ड.	04	02 कृष्णागंज वार्ड 04 गांधी वार्ड 09 इन्द्रा गांधी वार्ड 14 राजीव गांधी वार्ड

अधि सू. 75 क्र. एफ-1-11-13-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिये वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम 7 की अपेक्षा अनुसार नगर परिषद, पिछोर, जिला शिवपुरी के लिए आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है:—

क्र. (1)	वर्ग जिसके लिए वार्ड आरक्षित किया गया है (2)	कुल वार्ड (3)	आरक्षित वार्डों के क्रमांक एवं नाम (4)
1	अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित वार्ड	03	10 अम्बेडकर वार्ड 13 रानी झांसी वार्ड 15 इन्द्रा गांधी वार्ड
2	अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित वार्ड	01	11 विवेकानंद वार्ड
3	अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित वार्ड	04	02 छत्रसाल वार्ड 05 नरसिंह वार्ड 06 शीतला वार्ड 14 राजीव वार्ड
4	अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित वार्ड में से अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षित वार्ड.	02	13 रानी झांसी वार्ड 15 इन्द्रा गांधी वार्ड
5	अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित वार्ड में से अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षित वार्ड.	—	00 —
6	अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित वार्ड में से अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षित वार्ड.	02	06 शीतला वार्ड 14 राजीव वार्ड
7	अनारक्षित वार्ड में से महिलाओं के लिए उक्त सरल क्र. 4, 5, 6 के अलावा आरक्षित वार्ड.	04	01 सुभाष वार्ड 03 बजरंग वार्ड 04 किदवई वार्ड 08 टेगोर वार्ड

अधि सू. 75 क्र. एफ-1-11-13-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिये वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम 7 की अपेक्षा अनुसार नगर परिषद्, खनियाधाना, जिला शिवपुरी के लिए आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है:—

क्र. (1)	वर्ग जिसके लिए वार्ड आरक्षित किया गया है (2)	कुल वार्ड (3)	आरक्षित वार्डों के क्रमांक एवं नाम (4)
1	अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित वार्ड	02	10 प्रताप वार्ड 11 शिवाजी वार्ड
2	अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित वार्ड	01	03 नेहरु वार्ड
3	अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित वार्ड	04	04 सुभाष वार्ड 09 गांधी वार्ड 12 महारानी लक्ष्मीबाई वार्ड 13 लोहिया वार्ड
4	अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित वार्ड में से अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षित वार्ड.	01	10 प्रताप वार्ड
5	अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित वार्ड में से अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षित वार्ड.	—	00 —
6	अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित वार्ड में से अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षित वार्ड.	02	04 सुभाष वार्ड 12 महारानी लक्ष्मीबाई वार्ड
7	अनारक्षित वार्ड में से महिलाओं के लिए उक्त सरल क्र. 4, 5, 6 के अलावा आरक्षित वार्ड.	05	02 इंदिरा गांधी वार्ड 05 चन्द्रशेखर वार्ड 06 हरदौल वार्ड 07 भगतसिंह वार्ड 15 खलकसिंह वार्ड

अधि सू. 75 क्र. एफ-1-11-13-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिये वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम 7 की अपेक्षा अनुसार नगर परिषद्, बैराड़, जिला शिवपुरी के लिए आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है:—

क्र. (1)	वर्ग जिसके लिए वार्ड आरक्षित किया गया है (2)	कुल वार्ड (3)	आरक्षित वार्डों के क्रमांक एवं नाम (4)
1	अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित वार्ड	03	07 मां शेरावाली माता वार्ड 14 ठाकुर बाबा वार्ड 15 सिद्ध बाबा वार्ड
2	अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित वार्ड	—	00 —

(1)	(2)	(3)	(4)
3	अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित वार्ड	04	01 माँ बैराज वार्ड 03 कृषि मंडी वार्ड 05 डॉ. अम्बेडकर वार्ड 08 टैगोर वार्ड
4	अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित वार्ड में से अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षित वार्ड.	02	07 माँ शेरवाली माता वार्ड 14 ठाकुर बाबा वार्ड
5	अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित वार्ड में से अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षित वार्ड.	—	00 —
6	अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित वार्ड में से अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षित वार्ड.	02	01 माँ बैराज वार्ड 05 डॉ. अम्बेडकर वार्ड
7	अनारक्षित वार्डों में से महिलाओं के लिए उक्त सरल क्र. 4, 5, 6 के अलावा आरक्षित वार्ड.	04	04 माँ भदरा वार्ड 10 पटैल वार्ड 11 विववेकानंद वार्ड 12 सुभाष वार्ड

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
के. के. कांतिया, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 10 अक्टूबर 2014

अधि सू. 76 क्र. एफ-1-11-13-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिये वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम 7 की अपेक्षा अनुसार नगरपालिका परिषद, बालाघाट, जिला बालाघाट के लिए आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है:—

क्र. (1)	वर्ग जिसके लिए वार्ड आरक्षित किया गया (2)	कुल वार्ड (3)	आरक्षित वार्डों के क्रमांक व नाम (4)
1	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित वार्ड	03	01 राय दुर्गाप्रसाद वार्ड 13 महाराणा प्रताप वार्ड 24 भगतसिंह वार्ड
2	अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित वार्ड	02	02 शिवाजी वार्ड 23 राय बहादुर जटाशंकर त्रिवेदी वार्ड
3	अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षित वार्ड	08	10 मौलाना अब्दुल कलाम आजाद वार्ड 11 नेहरु वार्ड 12 राय शारदा प्रसाद वार्ड 14 दीवान बहादुर मुलना वार्ड 16 केलकर वार्ड 22 हनुमान मंदिर वार्ड 25 चन्द्रशेखर आजाद वार्ड 32 जयप्रकाश वार्ड



(1)	(2)	(3)	(4)
4	अनुसूचित जाति के आरक्षित वार्डों में से अ.जा. (महिला) के लिये आरक्षित वार्ड.	01	01 राय दुर्गाप्रसाद वार्ड
5	अनुसूचित जनजाति के आरक्षित वार्डों में से अ.ज.जा. (महिला) के लिये आरक्षित वार्ड.	01	23 राय बहादुर जटाशंकर त्रिवेदी वार्ड
6	अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षित वार्डों में से अन्य पिछड़ा वर्ग (महिला) के लिये आरक्षित वार्ड.	04	10 मौलाना अब्दुल कलाम आजाद वार्ड 12 राय शारदा प्रसाद वार्ड 25 चन्द्रशेखर आजाद वार्ड 32 जयप्रकाश वार्ड
7	अनारक्षित वार्डों में से (महिला) के लिए (सरल क्रमांक 04, 05, व 06 के अलावा) आरक्षित वार्ड.	10	04 विवेकानंद वार्ड 15 इंदिरा गांधी वार्ड 17 सुभाष वार्ड 18 तिलक वार्ड 27 मदनमोहन मालवीय वार्ड 28 सूरज प्रसाद तिवारी वार्ड 29 लालबहादुर शास्त्री वार्ड 30 वीर सावरकर वार्ड 31 रानी दुर्गावती वार्ड 33 महारानी लक्ष्मीबाई वार्ड

अधि सू. 76 क्र. एफ-1-11-13-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिये वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम 7 की अपेक्षा अनुसार नगर परिषद् कटंगी, जिला बालाघाट के लिए आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है:—

क्र. (1)	वर्ग जिसके लिए वार्ड आरक्षित किया गया (2)	कुल वार्ड (3)	आरक्षित वार्डों के क्रमांक व नाम (4)
1	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	01	03 सुभाष वार्ड
2	अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	01	10 मुंडीवाडा वार्ड
3	अन्य पिछड़ा वर्गों के लिये आरक्षित कुल वार्ड	04	01 अर्जुन नाला वार्ड 04 सरदार भगतसिंह वार्ड 05 इंदिरा गांधी वार्ड 11 संजय वार्ड
4	अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	निरंक	00 निरंक
5	अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	निरंक	00 निरंक
6	अन्य पिछड़ा वर्गों की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	02	01 अर्जुन नाला वार्ड 11 संजय वार्ड

(1)	(2)	(3)	(4)
7	महिलाओं के लिये (उक्त सरल क्रमांक 4, 5 व 6 के अलावा) आरक्षित वार्ड.	05	06 थाना वार्ड 09 डॉ. भीमराव अम्बेडकर वार्ड 12 लालबहादुर शास्त्री वार्ड 13 सतारा वार्ड 14 गंज वार्ड

अधि सू. 76 क्र. एफ-1-11-13-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिये वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम 7 की अपेक्षा अनुसार नगरपालिका परिषद्, मलाजखण्ड, जिला बालाघाट के लिए आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है:—

क्र. (1)	वर्ग जिसके लिए वार्ड आरक्षित किया गया (2)	कुल वार्ड (3)	आरक्षित वार्डों के क्रमांक व नाम (4)
1	अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित कुल वार्ड	02	02 राजीव गांधी वार्ड 21 महारानी लक्ष्मीबाई वार्ड
2	अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित कुल वार्ड	10	01 डॉ. जाकिर हुसैन वार्ड 10 इंदिरा गांधी वार्ड 11 डॉ. राजेन्द्र प्रसाद वार्ड 13 डॉ. राधाकृष्णन वार्ड 14 जयप्रकाश नारायण वार्ड 19 महात्मा गांधी वार्ड 20 रविन्द्रनाथ टैगोर वार्ड 23 राममनोहर लोहिया वार्ड 25 शंकर शाह वार्ड 26 रघुनाथ शाह वार्ड
3	अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षित कुल वार्ड	01	05 शिवाजी वार्ड
4	अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड	01	02 राजीव गांधी वार्ड
5	अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड	05	01 डॉ. जाकिर हुसैन वार्ड 11 डॉ. राजेन्द्र प्रसाद वार्ड 19 महात्मा गांधी वार्ड 25 शंकर शाह वार्ड 26 रघुनाथ शाह वार्ड
6	अन्य पिछड़ा वर्गों की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड	निरंक	- निरंक
7	महिलाओं के लिए (उक्त सरल क्रमांक 4, 5 व 6 के अलावा) आरक्षित वार्ड.	07	06 सुभाषचन्द्र बोस वार्ड 07 जवाहरलाल नेहरू वार्ड 08 लोकमान्य तिलक वार्ड 09 विनोबा भावे वार्ड 12 लालबहादुर शास्त्री वार्ड 17 डॉ. अम्बेडकर वार्ड 22 रानी दुर्गावती वार्ड

अधि सू. 76 क्र. एफ-1-11-13-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिये वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम 7 की अपेक्षा अनुसार नगरपालिका परिषद, वारासिवनी, जिला बालाघाट के लिए आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है:—

क्र. (1)	वर्ग जिसके लिए वार्ड आरक्षित किया गया (2)	कुल वार्ड (3)	आरक्षित वार्डों के क्रमांक व नाम (4)
1	अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित कुल वार्ड	02	01 शास्त्री वार्ड 09 अम्बेडकर वार्ड (महिला)
2	अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित कुल वार्ड	01	04 तात्याटोपे वार्ड
3	अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षित कुल वार्ड	04	05 विवेकानंद वार्ड 06 रानी दुर्गावती वार्ड 12 जगदम्बा वार्ड 14 आजाद वार्ड
4	अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड	01	09 अम्बेडकर वार्ड
5	अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड	निरंक	- निरंक
6	अन्य पिछड़ा वर्गों की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड	02	06 रानी दुर्गावती वार्ड 12 जगदम्बा वार्ड
7	महिलाओं के लिए (उक्त सरल क्रमांक 4, 5 व 6 के अलावा) आरक्षित कुल वार्ड.	05	02 भगतसिंह वार्ड 06 श्रीराममंदिर वार्ड 11 सुभाष वार्ड 15 नेहरु वार्ड

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
के. के. कातिया, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 10 अक्टूबर 2014

अधि सू. 77 क्र. एफ-1-11-13-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिये वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम 7 की अपेक्षा अनुसार नगर परिषद, नौरोजाबाद, जिला उमरिया के लिए आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है:—

क्र. (1)	वर्ग जिसके लिए वार्ड आरक्षित किया गया (2)	कुल वार्ड (3)	आरक्षित वार्डों के क्रमांक व नाम (4)
1	अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित कुल वार्ड	02	09 रवीन्द्रनाथ टैगोर वार्ड 14 डॉ. राजेन्द्र प्रसाद वार्ड
2	अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित कुल वार्ड	04	01 महात्मा गांधी वार्ड 04 कृष्णा वार्ड 05 स्व. कमल चौगले वार्ड 15 शिवाजी वार्ड
3	अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षित कुल वार्ड	02	03 डॉ. अम्बेडकर वार्ड 07 जवाहर वार्ड

(1)	(2)	(3)	(4)
4	अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड	01	09 रवीन्द्रनाथ टैगोर वार्ड
5	अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड	02	04 कृष्णा वार्ड 15 शिवाजी वार्ड
6	अन्य पिछड़ा वर्गों की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड	01	07 जवाहर वार्ड
7	महिलाओं के लिए (उक्त सरल क्रमांक 4, 5 व 6 के अलावा) आरक्षित वार्ड.	04	06 संत तुकाराम वार्ड 10 लालबहादुर शास्त्री वार्ड 11 शिवमानस वार्ड 13 चंद्रशेखर वार्ड

अधि सू. 77 क्र. एफ-1-11-13-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिये वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम 7 की अपेक्षा अनुसार नगर परिषद, चंदिआ, जिला उमरिया के लिए आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है:—

क्र. (1)	वर्ग जिसके लिए वार्ड आरक्षित किया गया (2)	कुल वार्ड (3)	आरक्षित वार्डों के क्रमांक व नाम (4)
1	अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित कुल वार्ड	02	02 खेरमाई वार्ड 03 संत तुलसीदास वार्ड
2	अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित कुल वार्ड	04	07 लालबहादुर शास्त्री वार्ड 08 भगत सिंह वार्ड 10 चन्द्रशेखर वार्ड 14 सुभाषचन्द्र बोस वार्ड
3	अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षित कुल वार्ड	02	11 महात्मा गांधी वार्ड 12 कुंवर कमलेन्द्र सिंह वार्ड
4	अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड	01	03 संत तुलसीदास वार्ड
5	अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड	02	07 लालबहादुर शास्त्री वार्ड 10 चन्द्रशेखर वार्ड
6	अन्य पिछड़ा वर्गों की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड	01	11 महात्मा गांधी वार्ड
7	महिलाओं के लिए (उक्त सरल क्रमांक 4, 5 व 6 के अलावा) आरक्षित वार्ड.	04	01 डॉ. अम्बेडकर वार्ड 04 राजमाता बहुरिया जूदेव वार्ड 05 अग्रसेन वार्ड 09 नौगजा वार्ड

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
के. के. कातिया, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 10 अक्टूबर 2014

अधि सू. 78 क्र. एफ-1-11-13-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिये वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम 7 की अपेक्षा अनुसार नगरपालिका परिषद्, मैहर, जिला सतना के लिये आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है:—

क्र. (1)	वर्ग जिसके लिए वार्ड आरक्षित किया गया (2)	कुल वार्ड (3)	आरक्षित वार्डों के क्रमांक व नाम (4)
1	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	04	02 मदनमोहन मालवीय वार्ड 09 महाराणा प्रताप वार्ड 18 डॉ. अम्बेडकर वार्ड 20 इन्दिरा गांधी वार्ड
2	अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	02	03 गोलामठ वार्ड 23 टमस वार्ड
3	अन्य पिछड़ा वर्गों के लिये आरक्षित कुल वार्ड	06	01 शारदा देवी वार्ड 05 बाबा अलाउद्दीन वार्ड 13 राजीव गांधी वार्ड 14 महात्मा गांधी वार्ड 15 चन्द्रशेखर आजाद वार्ड 21 स्वामी नीलकण्ठ वार्ड
4	अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	02	09 महाराणा प्रताप वार्ड 20 इंदिरा गांधी वार्ड
5	अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	01	03 गोलामठ वार्ड
6	अन्य पिछड़ा वर्गों की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	03	14 महात्मा गांधी वार्ड 15 चन्द्रशेखर आजाद वार्ड 21 स्वामी नीलकण्ठ वार्ड
7	महिलाओं के लिये (उक्त सरल क्रमांक 4, 5 व 6 के अलावा) आरक्षित वार्ड.	06	08 मौलाना अब्दुल कलाम वार्ड 11 शीतला देवी वार्ड 17 लालबहादुर शास्त्री वार्ड 19 डॉ. राधाकृष्णन वार्ड 22 भगतसिंह वार्ड 24 गोपाल बाग वार्ड

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
के. के. कातिया, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 10 अक्टूबर 2014

अधि सू. 79 क्र. एफ-1-11-13-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिये वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम 7 की अपेक्षा अनुसार नगर परिषद्, मेघनगर, जिला झाबुआ के लिये आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है:—

क्र. (1)	वर्ग जिसके लिए वार्ड आरक्षित किया गया (2)	कुल वार्ड (3)	आरक्षित वार्डों के क्रमांक एवं नाम (4)
1	अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित कुल वार्ड	01	8 भगतसिंह वार्ड
2	अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित कुल वार्ड	06	01 चन्द्रशेखर आजाद वार्ड 02 सुभाषचन्द्र बोस वार्ड 04 जवाहरलाल नेहरू वार्ड 13 विनोबा भावे वार्ड 14 महाराणा प्रताप वार्ड 15 डॉ. राजेन्द्र प्रसाद वार्ड
3	अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षित कुल वार्ड	04	03 रानी लक्ष्मीबाई वार्ड 06 डॉ. अशफाक उल्ला वार्ड 10 तात्या टोपे वार्ड 11 सरदार पटेल वार्ड
4	अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड	निरंक	- निरंक
5	अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड	03	02 सुभाषचन्द्र बोस वार्ड 14 महाराणा प्रताप वार्ड 15 डॉ. राजेन्द्र प्रसाद वार्ड
6	अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड	02	10 तात्या टोपे वार्ड 11 सरदार पटेल वार्ड
7	महिलाओं के लिए (उक्त सरल क्रमांक 4, 5 व 6 के अलावा) आरक्षित वार्ड.	02	05 महात्मा गांधी वार्ड 07 मौलाना आजाद वार्ड

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
के. के. कातिया, उपसचिव.